



Class No.....

Book No.....

Key No.....

मोन्क-विचार

जैनोंने जी के मौलिक नियाम को प्रकट करने वाले वार्तागत विषयों में अलग रे नियन्त्रण का भी विचार सम्पूर्ण है। इनमें कहानी-जैसा रूप शैरि विचारों की महत्वाद्दृष्टि बहुत गाथ है। शैरि जीवन की द्वृष्टि-से न्यूनी समस्याओं का वौलिक विश्लेषण शैरि गोचकना के गाथ प्रयुक्त करते हैं कि पाठक को जारिल-से जारिल निनार-मन्थ की महाराजांमें पैदाने का गत्ता मिल जाता है। जीवन की द्वृष्टि-द्वृष्टि जानें वित्तना राजन आर्थ गमनी है।—थैरि दूसरे गोचक विषयों के लिये आकाश में भी बड़ी महानता से लक्षित किया गया है। इन विषयों की शैरिंगी जैनोंके मौलिक दृष्टिकोण के समान दी महस्यपूर्ण है।

सोच-विचार

सोच-विचार

गेनेरेटर



पूर्वोदय प्रकाशन

७, दिल्ली गाँज दिल्ली।

कापीराइट
पूर्वोदय प्रकाशन
८ दरियागंज, दिल्ली

ख वा धि का र सु र ति त
प्रथम संस्करण
१६५२

मूल्य : पाँच सप्तमे

गोपीनाथ सेठ हारा नवीन प्रेस, दिल्ली में सुहित
और पूर्वोदय प्रकाशन, ७/३६ दरियागंज दिल्ली की ओर से
दिलोपकुमार हारा प्रकाशित ।

अनुक्रम

				पृष्ठ
भूमिका	१
आप क्या करते हैं ?	४
प्रचार	१५
सम्पादकीय मैटर	१८
राम-कथा	२५
रामनाथ की बात	३४
कहानी नहीं	४३
सवाल न जवाब	५१
दही और समाज	५८
बाजार-दर्शन	६८
ज़़़़ की बात	७८
पैसा : कमाई और खिलाई	८५
दान की बात	९१३
दीन की बात	९२२
व्यवसाय का सत्य	९३१
ब्लैक-आउट	१४२
हरे राम	१५६
मेटक	१६१
आजादी	१६६
दफ्तर और	१७१

दिल्ली की तरफ़	१७५
सरकार और संस्कृति	१७६
राजनीतिक शब्द	१८७
स्वतन्त्रता और समता	१९३
भारत की एकता	२००
नाश और नाश	२०५
जड़-चेतन	२०६
आणु-शक्ति	२१५
अपरिग्रही वैश्य गांधी जी	२१६
सुनाफे की वृत्ति	२२४
पदार्थ और परमात्मा	२२८
दर्शन और उपलब्धि	२३३
दोनों व्यक्ति हैं	२३८
समाधान की मनोवृत्ति	२४७
फ़िल्म को सार्वजनिक सम्भावनाएँ	२५३
होली	२५८
जीने का हक	२६५
जलरी भेदाभेद	२७०
भारत में साम्यवाद का भविष्य	२८५
स्वतन्त्रता के बाद	२९४

भूमिका

बहुत पहले की बात कहते हैं। इतिहास वहाँ नहीं जाता। न यथार्थ जाना है। कल्पना ही वहाँ पहुँचनी है।

आदमी जंगल से लौटकर आया। खाल ओढ़े था, पथर की बरछी हाथ में थी और कधी पर माम हुआ एक हिरण था।

हिरन को बाहर पटका और आपने भिट के अन्दर वह आदमी गया। देखता क्या है कि स्त्री गुमसुम पड़ी है, पथराहू उसकी आँखें निन देखे जपर जाने क्या देख रही हैं।

आदमी दौड़कर स्त्रा के बराबर जाकर बैठ गया और उसके चेहरे की ओर ताकता हुआ देखने लगा। भाया उसके पास नहीं थी, स्वर ही उसके पास थे। सो स्त्री के सुँह-पर-मुँह मुका कर उसने पुकारा — हउ ! हउ !

लेकिन स्त्री की आँखें जहाँ थीं वहीं टिकी रहीं। यह हिली-डुली भी नहीं।

आदमी ने और जोर से कहा—हाऊ ! हाऊ !

लेकिन स्त्री का ददन अकड़ता ही गया और कोई आवाज़ उसके सुँह से न निकली।

हल पर आदमी ने स्त्री के हाथ पकड़ कर जोर से भक्कोश। कहा—हाथी !! हाथी !!!

पर स्त्री वहाँ थी नहीं । वह मर चुकी थी ।

मरना क्या होता है ? क्या वह कुछ होता है ? आदमी ने पकड़ कर स्त्री के कन्धे हिलाए, टाँग उपर-नीचे खींची, बिर अकस्मोरा, सुंह से उसके ओढ़ काटे, खुली छाती पर सुकके लगाए, और तरह-तरह की चिंधाड़ें कीं ।

पर स्त्री की काया पथर होती हुई ज्यों को त्यों पड़ी रह गई ।

उस समय स्त्री के साथ का बीता हुआ अतीत काल उस आदमी के उपर सानो सवार हो आया । उसके प्यार में एक पूर आ गया और वह सामने पड़ी उस काया को अपने हाथों के पंजी से नोचने-खोटने लगा । साथ तरह-तरह की आवाजें भी करता जाता था ।

अपनी भाषा में कहें तो वह कह रहा था कि शरी, बोल तो । नहीं बोलती ? ले, अब तो बोल ! कहाँ अन्दर से रोज़ तेरी आवाज़ आया करती थी ! फाड़ कर देखूँ कि वहाँ तुम्हें क्या हुआ है ? बोल, भली मानस, कमबहल ! देख कैसा मोटा हिरन तेरे लिए शिकार में मैं लाया हूँ । वह बाहर पड़ा है और तू बोलती नहीं !

यानी उस आदमी के स्वर की चिंधाड़ में हमारी भाषा जितना जो चाहे अर्थ पा ले । पर यहाँ भाषा की यात नहीं थी । अपने हाथों के पैने नहीं से उसने स्त्री को चीर कर लहू-लुहान कर डाला । चैकरे को दाँतों से काट-काट कर ज्ञात-विज्ञात कर दिया । आसल में उसके ऊपर पिछले दिनों का सारा प्यार इकट्ठा ढोकर सवार हो गया था, सो वह इससे कभ क्या करता ?

पर चीरी-फाड़ी जा करके भी स्त्री को चेत नहीं हुआ कि उसका आदमी मोटा-ताज़ा हिरन मार कर उसके लिए लाया है । आदमी के ताज़े और गर्म प्यार का भी उस पर प्रभाव नहीं हुआ । वह नहीं मुरक्क-राई और बठकर हिरन पकाने के लिए नहीं गई ।

आदमी की यह सब समझ में नहीं आया । प्रेम का भार उससे सहा नहीं जा रहा था सो स्त्री को डाकाकर उसने छाती से लाया और

ऐसे ज्ञार से कहा कि उस अकड़ती काया की हड्डियाँ चर-मर कर उठीं। फिर उसे कन्धे पर लेकर वह अपनी जगह से बाहर निकला और चिंधा-इता हुआ हृष्ण-उधर दौड़ने लगा।

उसकी चिंधाइ सब प्राणी सुनते; वृक्ष सुनते और पहाड़ सुनते और धरती सुनती। वह चिंधाइ गूँजती और खो जाती।

इस भाँति वह आदमी जाने कव तक स्त्री को कन्धों पर रखे चिल्लता हुआ घूमता रहा। शिकार का हिरन अपनी जगह पढ़ा रह गया और आदमी भूखा-प्यासा दाखण विलाप करता हुआ यहाँ-वहाँ डोखता रहा, ढोखता रहा, ढोखता रहा।

पर आसमान नीले से काला न हुआ। धरती इरियाली धाम से हरी बनो रही। पानी कला-कला खिल-खिल हँसता ही रहा। बायु भी उसी भाँति बहती रही। कहीं कुछ न हुआ, कहीं कुछ न हुआ।

लेकिन आसद्ध मेम को लेकर वह मानव उत्कट चीत्कार में अपने हृदय को खाली करता हुआ जंगल और धाटी, पहाड़ और मैदान और जल और थल जाने कहाँ-कहाँ भटकता रहा।

आङ्गिर कन्धों पर सहारी वह मृतक काया गला आई। उसमें गम्भ आने लगी। आदमी के करण का स्वर चीरं से चीरितर होता गया। अब आधाज़ निकल न पाती थी। पैर थक गए। देह में दम न रहा। अन्त में मृतक काया को अपने ऊपर से फेंक कर काला, मैला, शान्त, वह आदमी छुटनों के बल गिर रहा।

आसमान देखा, नीला था। धरती देखी, हरी थी। पानी देखा, हँस रहा था। बायु देखी, वह रही थी। घट्टान देखी, जमी पड़ी थी। कहीं कुछ न था, कहीं कुछ न था।

तब आदमी की ठोड़ी हथेली पर टिक रही। डैंगली माथे पर पहुँची। बाहर देखना उसका बन्द हो गया। सिर उसका सुक रहा। एक भरी साँस उसमें से निकली और अन्दर कुछ उसके होने लगा—

क्या हम उसको कहें : सौच-विचार ?

आप क्या करते हैं ?

जब पहले-पहल दो व्यक्ति मिलते हैं तो परस्पर पूछते हैं, “आपका शुभ नाम ?” नाम के बाद अगर आगे बढ़ने की वृत्ति हुई तो पूछते हैं, “आप क्या करते हैं ?”

‘क्या करते हैं ?’ इसके जवाब में एक-दूसरे को शालूम होता है कि उनमें से एक बकील है, दूसरा डाक्टर है। इसी तरह वे आपस में दूकानदार, मुखाजिम, हँजीनियर आदि-आदि हुआ करते हैं।

एर इस तरह के प्रश्न के जवाब में हक्का-बक्का इह जाता है। मैं डाक्टर भी नहीं हूँ, बकील भी नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं हूँ जिसको कोई संज्ञा ठीक-ठीक ढक सके। बस वही हूँ जो मेरा नाम है। मेरा नाम दयाराम है तो दयाराम मैं हूँ। नाम रहीमबखश होता ही मैं रहीमबखश होता। ‘दयाराम’ शब्द के कुछ भी अर्थ होते हों, और ‘रहीमबखश’ के भी जो चाहे माने हों, मेरा उनके मतलब से कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी हूँ वही यना रहकर दयाराम या रहीमबखश रहूँगा। मेरा सम्पूर्ण और सच्चा परिचय इन नामों से आगे होकर नहीं रहता, न भिज होकर रहता है। इन नामों के शब्दों के अर्थ तक भी वह परिचय नहीं जाता। क्योंकि, नाम नाम है, यानी, वह ऐसी घस्तु है जिसका अपना आपा कुछ भी नहीं है। इसलिए, उस नाम के भीतर

सम्पूर्णता से मैं ही हो गया हूँ ।

लैर, वह बात छोड़िए । मुझसे पूछा गया, ‘आपका शुभ नाम ?’ मैंने बता दिया—‘दयाराम’ दया का या और किसी का राम मैं किसी प्रकार भी नहीं हूँ । पर किसी अत्कर्य पञ्चति से मेरे दयाराम हो रहने से उन पूछने वाले मेरे नवे मित्र को मेरे साथ व्यवहार-वर्णन करने में खुभीता हो जायगा । जहाँ मैं दीखा, वही आसानी से पुकारकर वह पूछ लेंगे, ‘कहो दयाराम, क्या हाज है ?’ और मैं भी वही आसानी से दयाराम के नाम पर हँस-बोलकर उन्हें अपना या इधर-उधर का जो साल-चाल होगा बता दूँगा ।

यहाँ तक तो सब ढीक है । लेकिन, जब वह नवे मित्र आये घढ़-कर पूछते हैं, ‘भाई, करते क्या हो ?’ तब मुझे मालूम होता है कि वह तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या ! कहूँ ? ‘क्या कहूँ’ का प्रश्न तो मुझे अपने पण-पण पर आगे बैठा दीखता है । जी होता है, पहूँ, ‘क्या आप बदाहृष्टगा, क्या कहूँ ?’ मैं क्या-क्या बताऊँ कि आज यह-यह किया । सबैरे पौँच बजे उठा, छः बजे घूमकर आया; फिर उच्चे को पदाया; पिछे अखबार पढ़ा; फिर बगीचे की क्यारियाँ सौंची; फिर नहाया, नाश्ता किया—फिर यह किया, फिर वह किया । हूँस तरह जब तीन बजे तक कुछ-न-कुछ तो मुझसे भोता ही रहा है, आनी मैं करता ही रहा हूँ । अध तीसरे पहर के दीन बजे यह जो मिले हैं नए मित्र, तो उनके साथ ल पर क्या मैं हूँहें सबैरे पौँच से अब तीन बजे तक की अपनी सब कार्रवाहयों का बखान सुना जाऊँ ? लेकिन, शायद, वह वह नहीं चाहते । ऐसा मैं कहूँ तो शायद हमारी उमती दुर्द मित्रता सदा के लिए वहीं अस्त तो जाय । यदि उनका अभिप्राय वह जानना है जो उनके प्रश्न पूछने के समय मैं कर रहा हूँ, तो साफ है कि मैं उनका प्रश्न सुन रहा हूँ और ताज्जुब कर रहा हूँ । तब क्या यह कह पहँूँ कि, ‘मित्रवर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और ताज्जुब कर रहा हूँ !’ नहीं, ऐसा कहना न होगा । मित्र इससे

कुछ समझेंगे तो नहीं, उल्टा बुरा मानेंगे। दयाराम मूर्ख तो हो सकता है, पर बुरा होना नहीं चाहता। इसलिए, उस प्रश्न के जवाब में मैं, मूर्ख का मूर्ख, कोरी निगाह से बल उन्हें देखता रह जाता हूँ। बलिक, थोड़ा-बहुत और भी अतिरिक्त मूँह बनकर जाज में सकुच जाता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि 'कृपदा आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ'— याकी क्या कहूँ कि यह करता हूँ ?

किन्तु, यह सौभाग्य की बात है कि मिश्र अधिकतर कृपा-पूर्वक यह जानकर सन्तुष्ट होते हैं कि दयाराम सेरा ही नाम है। वह नाम अख्यारी में कभी-कभी छपा भी करता है। इससे दयाराम होने के लाते कभी-कभी मैं बच जाता हूँ। यह नाम की महिमा है। नहीं तो दिन में जाने कितनी बार सुने अपनी मूढ़ता का समना करना पड़े।

आज अपने भाग्य के चंगम पर मैं बहुत विस्मित हूँ। किस बढ़-भागी पिता ने इस दुर्भागी बेटे का नाम रखा था 'दयाराम' ! उन्हें पा सकूँ तो कहूँ, पिता, तुम खूब हो ! बेटा तो हूबने ही योग्य था, किन्तु तुम्हारे दिये नाम से ही वह भोला, चतुर मिश्रों से भरे इस दुनिया के सामर में उत्तरता हुआ जी रहा है। उसी नाम से वह तर जाय तो तर भी जाय नहीं तो दूसरा ही उसके भाग्य में था। पिता, तुम जहाँ हो, मेरा प्रणाम लो। पिता, मेरा विनीत प्रणाम लो लो। उस प्रणाम की कृतज्ञता के भरोसे ही, उसी के लिए, मैं जी रहा हूँ, जीना भी चाहता हूँ पिता, नहीं तो, मैं एकदम मतिमन्द हूँ और जाने क्यों जीने लायक हूँ ?

पर आपसे बात करते समय पिता की बात छोड़ूँ। अपने इस जीवन में मैंने उन्हें सदा खोया पाया। रो-रोकर उन्हें याद करने से आपका क्या लाभ ? और आपको क्या, सुने क्या—दोनों को आपके लाभ की बात करनी चाहिए !

तो मैंने कहा, 'कृपापूर्वक बताइए, क्या करूँ ? बहुत भटका पर मैंने जाना कुछ नहीं। आप मिले हैं, अब आप बता दीजिए।'

उन नए मिश्र ने बताया कुछ नहीं, वे बिना बोले आगे बढ़ गये।

आप क्या करते हैं ?

७

मैं भी चला । आगे उन्हें एक अन्य व्यक्ति मिले । पूछा, ‘आप क्या करते हैं ?’

उत्तर मिला, ‘मैं डाक्टर हूँ ।’

सुजन मिश्र ने कहा, ‘ओह आप डाक्टर हैं । वडी खुशी हुई । नमस्ते डाक्टर जी, नमस्ते । खूब दर्शन हुए । कभी मकान पर दर्शन दीजिए न ।—जी हाँ, यह लोजिए मेरा कार्ड ।’ “रोड पर...कोठी है ।” “जी हाँ, आपकी ही है । पधारिएगा । कृपा-कृपा । अच्छा नमस्ते ।”

सुके हन उद्गारों पर बहुत प्रसन्नता हुई । किन्तु सुके प्रतीत हुआ कि मेरे दयाराम होने से उन व्यक्ति का डाक्टर होना किसी कदर अधिक ठीक बात है । लोकिन, दयाराम होना भी कोई गलत बात तो नहीं है ।

किन्तु, मिश्रवर कुछ आगे बढ़ गये थे । मैं भी चला । एक तीसरे व्यक्ति मिले । कोठी धाले मिश्र ने नाम परिचय के बाद पूछा, ‘आप क्या करते हैं ?’

‘वकील हूँ ।’

‘ओह वकील हैं । वडी प्रसन्नता के समाचार है । नमस्ते, वकील माहव, नमस्ते । मिलकर भाग्य धन्य हुए । मेरे बहनों का भतीजा इस साल लों फाइनल में है । मेरे लालक लिङ्गमत ही तो बतलाइए । जी हाँ आप ही की कोठी है । कभी पधारिएगा । अच्छा जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते ।’

इस द्योद्यार पर मैं प्रसन्न ही हो सकता था । किन्तु, सुके लगा कि बीच में वकीलता के आ उपस्थित होने के कारण दोनों की मिश्रता की राह सुगम हो गई है ।

यह तो ठीक है । डाक्टर या वकील या और कोई पेशेवर होकर व्यक्ति की मिश्रता की पाव्रता बढ़ जाय इसमें सुके क्या आपत्ति ? इस सम्बन्ध में मेरी आपनी आपाव्रता मेरे निकट हृतनी सुस्पष्ट ग्रक्ष द्वारा है, और

वह इतनी विविध है कि उस बारे में मेरे गम में कोई चिन्ता नहीं रह गई है। लेकिन, मुझे रह-रहकर एक बात पर अवश्य धोखा नहीं। प्रश्न जो पूछा गया था वह तो यह था कि, ‘आप क्या करते हैं?’ उत्तर में डाक्टर और वकील ने कहा कि वे डाक्टर और वकील हैं। मुझे आप आचरण यह कि उन प्रश्नकर्ता ने मुझकर फिर क्यों नहीं पूछा कि, ‘वह तो ठीक है कि आप डाक्टर और वकील हैं। आप डाक्टर रहिए, आप वकील रहिए। लेकिन, कृपया, आप करते क्या हैं?’

सगम में नहीं आता कि प्रश्नकर्ता मिठा ये आपसे प्रश्न की फिर क्यों नहीं दोहराया, लेकिन मतिमृद मैं जाना चाहूँ? प्रश्नकर्ता तो खुफ-जैसे कम-समझ नहीं हुए जाएंगे। हस्तिए, लालटँ नकील बोला जवाब पाकर वह असखी गेहूँ की नात समझ गए होंगे। लंगिल, वह असली बात क्या है?

वैर, हन उदाहरणों से काम की सीधे लोकर में आगे लड़ा। राज में एक सदिगिराय सज्जन गिर्हे गिर्होने पूछा। —

‘आपका शुभ नाम?’

‘दयाराम।’

‘आप क्या करते हैं?’

‘मैं कायद्ध हूँ, श्रीवास्तव।’

‘ती नहीं, आप करते वधा हैं?’

‘मैं श्रीवास्तव कायद्ध हूँ। पाँच बजे उठा था, छः बजे घूमकर लौटा, फिर... और फिर...’

लेकिन, देखता वया हूँ कि वह सज्जन तो मुझे धोखा नहीं देंगे कर आगे बढ़ गए हैं, पीछे घूमकर देखना भी नहीं चाहते। मैंने अपना कपाल ढोक दिया। यह तो मैं जानता हूँ कि मैं मूँह हूँ। बिलकुल निकम्मा आदभी हूँ। लेकिन मेरे श्रीवास्तव होने में बया गलती है? कोई वकील है, कोई डाक्टर है। मैं वकील नहीं हूँ, डाक्टर

आप क्या करते हैं ?

६

भी नहीं हूँ; लेकिन मैं श्रीवास्तव नो हूँ। इस वात की लम्फीक दे और दिला राहता हूँ। अवधार वाले 'दयाराम श्रीवास्तव' छाप तर गिर श्रीवास्तव लोना जानते हैं। अतलव यह नहीं कि मेरी श्री वास्तव हूँ, न यही कि कोई वास्तव श्री सुझमें है; लेकिन वो मेरे पिता थे वही सेरे पिता थे। और वह गुमे अकाला रूप से श्रीवास्तव लोड गए हैं। जब वह नात निळकुला निवियाद है तो ऐसे श्रीवास्तव होने का सत्यता की जानकर नए परिचित वैले ही आश्वस्त वयों नहीं होते दैसे किसी के बचील या डाकटर होने की सूचना पर आशनस्त होते हैं ?

'आप क्या करते हैं ?'

'मैं डाकटर हूँ।'

'आप क्या करते हैं ?'

'मैं बचील हूँ।'

'गुम क्या करते हो ?'

'मैं श्रीवास्तव हूँ।'

मैं श्रीवास्तव लो हूँ सी। हृतमें रत्ती-भर कुछ नहीं है। किर, गंरी तरह का जवान देखे पर बकील और डाकटर भी बेवहूफ क्यों नहीं खाते जाते ?

ये लोग मेरे जैसे, अथर्व बेवहूफ नहीं हैं यद तो मैं छल्की तरह जागता हूँ। तब किर उनके बचील होने से भी अधिक मैं श्रीवास्तव होकर बेवहूफ किस अहाने भगव लिया जाता हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ।

'मूर्ख !' प.० सद्गुरु ने कहा, 'तू युछ नहीं यमझता। और, डाकटर डाकटरी फरता है। तू क्या श्रीवास्तवी करता है ?'

यह वात तो ठीक है कि मैं किसी 'श्री' की कोई 'वास्तवी' नहीं करता। लेकिन सद्गुरु के ज्ञान से सुझमें बोध नहीं जागा। मैंने कहा, 'जी, मैं कोई श्रीवास्तवी नहीं करता हूँ लेकिन; यह बकालात क्या है जिसको बकील करता है ? और वह डाकटरी क्या है जिसकी डाकटर करता है ?'

‘अरे मूढ़ !’ उन्होंने कहा, ‘तू यह भी नहीं जानता । अदालत जानता है कि नहीं ? अस्पताल जानता है कि नहीं ?’

‘हाँ,’ मैंने कहा, ‘वह तो जानता हूँ ।’

‘तो बस’ गुरु ने कहा, ‘अदालत में वकील बकालत करता है । अस्पताल में डाक्टर डाक्टरी करता है ।’

‘अरे तू है मूढ़ !’ उन्होंने कहा, ‘सुन, वह अदालत के नाकिम से बोलता है, बतलाता है, बहस करता है, कानूनी बात निकालता है । कानून में पैसे लोगों की वही तो सार-सेंभाल करता है ।’

‘तो यह बात है कि वह बात करता है, बतलाता है, बहस करता है । कानून की बात निकालता है, उसके सत्राएं आदमियों की मदद करता है । लेकिन, आप तो कहते थे कि वह ‘बकालत’ बहता है । बकालत में बात ही तो करता है । फिर, ‘बकालत’ कहाँ हुई ?... बात हुई । बात तो मैं भी कर रहा हूँ । क्यों जी ?’

उन्होंने भल्लाकर कहा, ‘अरे, हस सव काम को ही बकालत कहते हैं ।’

‘तो बकालत करना, बात करना है । मैं तो सोचता था, न जाने वह क्या है । अच्छा जी, बकालत को करके वह क्या करता है ?—यानी, अदालत में वह बहुत बातें करता है । उन बातों को करके भी वह क्या करता है ?’

उन्होंने कहा, ‘ऐ मतिमन्द, तू कुछ नहीं जानता । बातों ही बा तो काम है । बात बिना क्या ? वकील के बातों के ही तो पैसे हैं । उन बातों से वह जीता है, और फिर उन्होंने से बड़ा आदमी बनता है ।’

उन बातों को करके वह बड़ा आदमी बनता है,—आज मैं सभी गया, जी । लेकिन जो बड़ा नहीं है, आदमी तो वह भी है न—क्यों जी ? मैं दिन-भर सच-झूठ बात कहूँ तो मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊँ ? और बड़ा न होऊँ, तब भी मैं आदमी रहा कि नहीं रहा ?

उन्होंने कहा, ‘तू मूढ़ है । बड़ा तू क्या होगा ? तू आदमी भी

नहीं है ।'

"लेकिन जी, वात तो मैं भी करता हूँ । अब कर रहा हूँ कि नहीं ? लेकिन, फिर भी मैं अपने को निकम्मा लगता हूँ । ऐसा क्यों है ?"

"अरे तू मतलब की, काम की बात जो नहीं करता है ।"

"अजी, तो बात करने का काम तो करता हूँ । यह कम मतलब है ?"

वह बोले, "अच्छा, जा जा, सिर न खा । तू गधा है ।"

अब यह बात तो मैं जानता हूँ कि गधा नहीं हूँ । चाहूँ तो भी नहीं हो सकता । गधे की तरह सींग तो अगर्बते भेरे भी नहीं हैं, लेकिन, इतना मेरा विश्वास मानिए कि यह साम्य होने पर भी गधा मैं नहीं हूँ । मैं तो दयाराम हूँ । कोई गधा दयाराम होता है ? और मैं श्री-वास्तव हूँ,—कोई गधा श्रीवास्तव होता है ? बक्कील डाकटर नहीं हूँ, लेकिन श्रीवास्तव तो मैं हर बकालत-डाकटरी से अधिक सच्चाई के साथ हूँ । इसलिए, इन गुरुजन के पास से मैं चुपचाप खले आदमी की भाँति घिर झुकाकर चला आया ।

लेकिन, दुनिया में बक्कील डाकटर ही सब नहीं हैं । यों तो इस दुनिया में हम उसे लोग भी हैं जिनके पास बताने को या तो अपना नाम है या बहुत से बहुत कुछ-गोन्ना का परिचय है । इसके अलावा जिन्होंने इस दुनिया में हुँक भी अर्जित नहीं किया है, ऐसे अपने-जैसे लोगों की तो गिनती क्या कीजिए । पर सौभाग्य यह है कि ऐसे लोग बहुत नहीं हैं । अधिकतर लोग सम्भान्त हैं, गणनीय हैं, और उनके पास बताने को काढ़ी हुँक रहता है ।

"आप क्या करते हैं ?"

"वैकार हूँ ।—जी हाँ, साहूकार !"

"आप क्या करते हैं ?"

"कारोबार होता है । अमर्है, कलाकारा, हाँगकाँग में हमारे दफ्तर हैं ?"

“आप क्या करते हैं ?”
 “मैं एस० ए० पास हूँ ।”
 “आप क्या करते हैं ?”
 “मैं एस० एल० ए० हूँ,—बाट साहस का कौशिका का बेस्पर हूँ ?”
 “आप क्या करते हैं ?”
 “ओह ! आप नहीं जानते ? हँ—हँ : हँ : राजा चन्द्रचूड़ासिंह
 मुझे ही कहते हैं। गोपालपुर,—दूसरे लाख की संटर, जो हाँ, आपकी
 ही है ।”

“आप क्या करते हैं ?”
 “मुझ राजकि से आप अभिज्ञ हैं ? मैं कविता करता हूँ ।”
 “कविता ! उसका क्या करते हैं ?”
 “श्रीमान् मैं कविता करता हूँ। मैं उसी को कर देता हूँ, साहब।
 और क्या करूँगा ?”

अत्यन्त हर्ष के हामाचार है कि बहुत लोग बहुत-कुछ करते हैं और
 लाभभग सब लोग कुछ-न-कुछ करते हैं। लेकिन, मेरी अमर्त्य में न
 बहुत आता है ज छुछ आता है ।

दूकान पर बैठे रहना, गाहक से मीठी बात करना और पटा लेणा,
 उसकी जेव से पैसे कुछ ज्यादा ले लेना और अपनी दूकान से सामान
 उसे कुछ कम दे देना,—ज्यापार यही रो ‘करना’ है। इसमें ‘किया’
 क्या गया ?

पर क्यों साहब, किया क्यों नहीं गया ? कस कर कमाई जो की
 रही है। एक साल में तीन लाख का सुनाफा हुआ है,—आपको कुछ
 पता भी है। और आप कहते हैं किया नहीं गया ।

लेकिन, दयाराम सब कहता है कि दो रोज़ के भूखे अपने समूचे
 लन को और मन को लेकर भी उन तीन लाख मुगाफे बालों का काम
 उसे समझ में नहीं आता है ।

और साहूकार रूपया दे देता है और ब्याज सँभलवा लेता है ।—

देता है उसी इकट्ठे हुए व्याज में से । देता कम है, लेता ज्यादा है । इससे वह साहूकार होता जाता है और लोटा होता जाता है ।

अगर वह दे ज्यादा और ले कम,—तो क्या हम यह कहेंगे कि उसने काम कम किया ? क्यों ? उसने तो देने का काम खूब किया है । लेकिन इस तरह एक दिन आयगा कि वह साहूकार नहीं रहेगा और निकम्मे आदमियों की गिनती में आ जाएगा ।

तो साहूकारी 'काम' क्या हुआ ? खूब काम करके भी आदमी जब निकम्मा बन सकता है तो उससे तो वही लिछा होता है कि साहूकारी अपने-आप में कुछ 'काम' नहीं है ।

और राजा, राजकवि, कौसिलर, एम० ए० पास,—ये सब जो-जो भी हैं क्या वह मेरे अपने श्रीनास्तव होने से अधिक हैं ? मैं श्रीनास्तव होने के लिए कुछ नहीं करता हूँ । बस यह करता हूँ कि अपने बाप का बेटा बना रहता हूँ । तब, इन लोगों में, इनकी उपाधियों से अपने-आप में कौन सा 'काम' करना गरिमत हो गया,—यह मेरी भगवत में कुछ भी नहीं जाता है ।

मैं भी बात करता हूँ और कभी-कभी तो बहुत बहिशा बात करता हूँ,—सच, आप दयाराम को भूठा न समझें । काम-बेकाम की बातें क्षितिजा भी हैं, अपने घर में मिसे बैठता हूँ जैसे कौसिलर कौसिल में बैठता है, बच्चों पर नवाब बना हुक्मत भी चलाता हूँ, —लेकिन, यह सब करके भी बड़ी आसानी से छोड़ा आदमी और निकम्मा आदमी बना हुआ है । इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ।

फिर बड़ा आदमी पन क्या ? और वह है क्या जिसे 'काम' कहते हैं ? एक किताब है, गीता । उपर के तमाम स-'काम' आदमी भी कहते हुने जाते हैं कि गीता बड़े 'काम' की किताब है । मैं सूख-भृति क्या उसे समझूँ । पर एक दिन साहूल्यवृक्ष उठाकर जो उसे खोलता हूँ, तो बेसा, लिखा है, 'कर्म करो । कर्म में अकर्म करो ।'

यह क्या बात हुई ? करना अकर्म है, तो वह कर्म में कर्यों किया

जाय ? और जब वह किया गया तो अकर्म कैसे रह गया ? जो किया जायगा वह तो कर्म है, उस कर्म को करते-करते भी उसमें ‘अ-कर्म’ कैसे साधा जाय ? और गीता कहती है,—वस अकर्म को साधना ही एक कर्म है,—वह परम पुरुषार्थ है।

होगा ! हमारी समझ में क्या आवे ! हुनिया तो कर्म-युतों की है। आप कर्मण्य हैं,—आप धन्य हैं। तब क्या कृपा कर मुझ दयाराम को भी अपने कर्म का भेद बताएँगे ?

प्रचार

उस दिन गोष्टी में उन सम्मानित अतिथि ने कहा—“मुझे खुल-
कर कहना चाहिए कि प्रचार मेरी प्रेरणा है। मैं नहीं जानता कि दूसरी
प्रेरणा क्या हो सकती है”

अतिथि मासूली न थे। मशहूर थे और चोटी के लेखक थे। अनुभव
की ही बात कहते थे, सुनी-पढ़ी नहीं। इसलिए उसका असर होता था।

उन्होंने कहा—“आचार्य श्री... को आप जानते होंगे। उन्हें मेरी
अमुक रचना औरों से अधिक पसन्द आई। कहने लगे—‘इसमें तुम्हारा
प्रचार का सुर जो नहीं है, इससे कृति अच्छी बन पड़ी है।’ मैं कहूँगा
कि यह प्रचार का अभाव नहीं प्रचार की अफलता का प्रभाव है। उस
पुस्तक में प्रचार मेरी ओर से कुछ विशेष ही है; बल्कि वहाँ यह धोर है।
बेवज्ञ यह है कि उस पुस्तक में मैं ठीक तरह से अपना प्रचार कर पाया
हूँ। प्रचार का ठीक और बेठीक होना ही असल बात है। मैं भानता हूँ
कि मैं प्रचारक हूँ। मुझे इसका गर्व है और मैं नहीं समझता कि समृच्छा
साहित्य ही प्रचार कैसे नहीं है।”

भाई ने आसपास देखा। उस दृष्टि में जीत थी। उस चौहरे पर
उनकी बात की अकाट्यता मुझे प्रकाश की स्वाही में लिखी दीखी।
मैंने अनुभव किया कि सभी उससे अप्राप्ति मैं। बात से न सही, बात

कहने के दंग से लही। असत्तम में प्रभाव शब्द के पीछे के व्यक्ति में से आता है। शब्द के पास अपनी क्या पूँजी है? कोणों को अक्सर क्वाडी के थर्हों सेरों की तोल से बिकते देखा है। शब्द कूड़ा है; आदमी चाहिए कि उन्हीं को हीरा बना दे।

भाई सहज आत्मविश्वास से बोल रहे थे। उनके शब्द-शब्द पर प्रतीति मिल रही थी हम केवल गोष्ठी के सदस्य हैं जबकि अतिथि महान् कलाकार हैं। वह विख्यात हैं और विचक्षण हैं; हम सामान्य और साधारण हैं। मैं जानता हूँ कि वह यह जानते हैं।

योले—“मैं यदि कुछ विचार लेता हूँ तो उन्हें अपने तक रोकने का मुझे क्या अधिकार है? यह स्थाभाविक है कि मैं यह चाहूँ कि वे फैले और दूसरे को प्रभावित करें—एक को, कहुँ को, सब को। यानी, उनके प्रचार से मैं कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। जिसने पाठक मिले उतने ही मुझे कम लगने चाहिएँ... प्रचार और प्रैपरेशन शब्द इटान् अवज्ञा के बनाये जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वह प्रचार जो मालता है उथला है, बेढ़ना है। प्रचार के खिलाफ प्रचार ही है, जिसने उस शब्द को हतका कर दिया है। मैं तो प्रचार को स्पष्ट उद्देश्य नान सकता हूँ। मेरी कृतियों की भूल प्रेरणा लिखत्य ही वह है। विश्वापन कृष्टी कला नहीं है; वह कलाओं की कला है। जिसके पास ऐसे विचार नहीं मैं जिनका वह प्रचार चाह सके, वह फिर लिखता क्यों है, यही मेरी समझ में नहीं आता। मैं कहूँगा कि उसके पास प्रेरणा कृतिम है, हल्की है; कुलभट्टी-सी खिलकर शीघ्र ही वह कुक्क जायेगी। दूसरों के मन छड़ने या उनसे कमाई करने की इच्छा भी प्रेरणा हो सकती है। लेकिन ये चीजें कल तक साथ देंगी? और न इनसे कोई गणनीय साहित्य पैदा हो सकता है!”

भाई कहते हैं और श्रीता पीते रहे। आध घंटा, पाँच घंटा, एक घंटा। धारा-प्रदाता भाई लोलते ही रहे। उसे जो गोष्ठी स्तब्ध थी। सुककर, सामो छपने वालिनल्लूदा के निरापद सीलार में आगे बढ़ कर,

उन्होंने तस्वीर लिंगी और सुंह में पान का बीड़ा लिया। फिर सुसकराये और आनन्दर सिगरेट लेकर सुलगार्द ।

मैं ज्या था और उनके चेहरे की ओर देख रहा था। एकान्त में मैं सोन्न में रहा करता था कि कहानी कैसे लिखो जाती है। ओह, वह भी क्या दिन होगा जब मैं लिखूँगा और छापूँगा ! नहीं नहीं, हनके जैसा नामवर होना तो मेरे भाग्य में हो नहीं सकता। प्रतिभा सबको कब मिलती है। लेकिन हाँ, तो क्या मेरा लिखा छैपेगा ?

मैंने देखा और सोचा, सोचा और देखा, धूम-धूम कर सामने वही शब्द प्रकट हुआ 'प्रचार'। विचारों का प्रचार करना चाहिए। वही सुन्ने करना होगा। तभी दीखा कि लेखक भाई को काम है, वह माझी माँग रहे हैं, बैठते-बैठते डठ रहे और डठते-डठते बैठ रहे हैं। लीजिए वह खड़े हो गये। अब वह जा रहे हैं।

हमारी पूरी गांप्टी खड़ी हो आई है। सब द्वार तक उन्हें पहुँचाने जा रहे हैं। मैं भी खड़ा हूँ और जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि—लेकिन, सोचने की पृक्ष ही बस्तु है, 'प्रचार'।

नहीं नहीं, अब रुकना नहीं होगा, मुकना नहीं होगा। विचारों का प्रचार अवश्य करना होगा। सोचता हूँ और देखता हूँ—अन्दर से दम भरा आ रहा है, छाती फूल रही है। बस अब ठीक है। अब कांति होगी।

सम्पादकीय 'मैटर'

दफ्तर से आदमी आया और भाँगने लगा—लाजूए, मैटर दीजिए !

मैटर भौतिक पदार्थ को कहते हैं। लेकिन वह यात उप वक्त आदमी पड़ी, और मैने जहाँ-तहाँ से आई हुई खोगों की कविताएँ और कहानियाँ उस आदमी को देकर विदा किया।

अब यात यह है कि कविता को मैं नहीं जानता। जाने वह कैसे लिखी जाती है। आखिर की तुक ठोक-ठीक मिल जाय, वह तो विलकुल जादूगरी का काम सुने मारूम होता है। इसलिए कविता पर तो मेरा बस नहीं बल्ता; पर गथ कुछ मैं भी लिखता हूँ। वह लिखने में आसानी नहीं होती। गन की भावनाओं और मन्त्रक के विचारों का पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई। उस काम में जैसे अपना लाहू ही खिंच जाता है।

तिस पर यात यह है कि मेरा गथ-लेख तो विवेचन अध्ययन आलोचना रूप रहता है। पर कुछ लोग कहानियाँ लिखते हैं। उसमें न किसी मन्त्रव्य का प्रतिपादन है, न विवेचन है। उसमें तो प्रश्नान् अभिव्यञ्जना ही है। बाहरी सहारा बहुत कम है; मानो सब-कुछ अन्दर से ही बलाकर दे देना है। मानो वहाँ भाँग है कि आसमा को ही निकालकर उसको शरीर पहनाओ। लाज़िम है कि कहानी-कविता चैतन्य-प्राण हों, नहीं तो कहानी कहानी नहीं, कविता कविता नहीं। जो इस काम को

सफलतापूर्वक कर पाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पर उन पर दया भी करना चाहता हूँ। दया इसलिए कि मैं जानता हूँ कि यह कितना दुःखकर काम है। कलेजी को बाहर निकालकर कागज पर रख देना सुख का काम नहीं है। इसलिए जो ऐसा काम करते हैं, अद्वा से भी अधिक मैं उन्हें कहणा देना चाहता हूँ। ऐसा अनुमान है कि पुरस्कार देने से अधिक उनके साथ रो केना उन्हें ग्रीतिकर होता होगा।

अब सेरे कर्मों का दुर्भाग्य कि दुनिया में कोई और धन्दा मेरे लिए नहीं रह गया। यह अव्वबार की एडीटरी ही किसमत में शेष रह गई है। एडीटरी छोटी छोड़ नहीं है, इसी से दुर्भाग्य कहता हूँ। इस एडीटरी में जगह-जगह से लोग थापने मन की कोमल भावनाओं को छब्दों में सूर्त रूप देकर मेरे पास भेजते हैं कि मैं उन्हें प्रकाशित करूँ। यह ने जो अनुभूति पाई, वह सबको भी मिले। लेखक लोग अपना दुःख-सुख बैट्टने के लिए जो-कुछ चिखते हैं, वह सचमुच बैट्टने में आ जाय, इसके लिए वे प्रकाशक की अत्यन्त आवश्यकता में रहते हैं। कैसी-कैसी भावनाएँ, कैसी-कैसी सूचम अनुभूतियाँ!

पर दफ्तर से आया है कर्कि कि मैटर चाहिए। और मैं उन सारी भावनाओं और सारी अनुभूतियों को सीधा फैलाकर एक चित्र में दबोचकर इकट्ठी कर देता हूँ और जपेटकर दे देता हूँ। कहता हूँ—“लो, यह है मैटर!”

करने को लो यह कर देता हूँ; लेकिन एकदम निर्बुद्ध प्राणी मैं नहीं हूँ। एडीटरी रखकर निर बुद्धि लो रखना शुश्कल तो जरूर होता है, लेकिन गनीभूत यह है कि मैं दफ्तर पुरामा नहीं हूँ। इस कारण जो नित नवीन होती है, उस बुद्धि से भी पूरा दुःखारा नहीं पा सका हूँ। इसलिए जाने कितनों के हृदयों के रस को मैटर बनाकर खोहे की अरतियों में दबाकर छाने के लिए देने के बाद मैं अनुभवी सम्पादक का सरह लिखितगत नहीं हो जाता। और सोचने लगता हूँ कि यह क्या विचिन्ता है कि रवि की आत्मा एडीटर और कम्पोजीटरों के हाथों में

पहुँचकर मैटर बन जाय ! इस तरह तो सभी कुछ गड़बड़ हो जायगा न । किर क्या तो आत्मा, और क्या मैटर ! आत्मा और मैटर की दुई ही यों तो नष्ट हो जायगी ।

ऐसे संसार कैसे चलेगा ? नहीं, यह गलत वात है । कहीं कुछ इसमें गलत है । मैटर मैटर है, आत्मा आत्मा है । आत्मा का प्रसाद वैतन्य है । मैटर का गुण जड़ता है । जो मैटर है वह वाधा है, और आत्मा ही साथ है ।

लेकिन फिर यह क्या वात है कि एक की (कवि की) आत्मा ही दूसरे (कर्मप्रेरणा) के लिए जड़ वस्तु हो जाती है । एक का उच्चावास दूसरे के लिए आङ्‌ख से बुहारने योग्य कैसे हो जाता है ।

जनावर मैं अदना एडीटर हूँ, तो भी दार्शनिक के योग्य यह प्रश्न उठाता हूँ और इसका समाधान माँगता हूँ ।

प्रश्न यह है कि—

(१) आत्मा क्या है और मैटर क्या है ?

(२) क्या वे दो हैं ?

(३) जगत् मैटर है कि आत्मा ? (इतिहास का 'मैटीरियलिस्टिक इण्टरप्रिटेशन'—materialistic Interpretation—होगा या कुछ और interpretation चाहिए ?)

(४) जगत् कुछ हो, व्यक्ति में कौन-सी वृत्ति उचित है ? यह उचित है कि वह वैज्ञानिक वस्तुसापेक्ष (objective) दृष्टि से जगत् पर विचार करें, अथवा यह उचित है कि वह धार्मिक आत्मसापेक्ष (subjective) दृष्टि से जगत् के प्रति आचरण करें ?

(५) जगत् को ह्येय समझें, तो हम जगत् के अंश न होंकर उसके ज्ञाता हो जाते हैं । ज्ञाता के निकट ह्येय निश्चेतन पदार्थ नहीं तो क्या है ।

अगर जगत् अह्येय है, तो हम स्वर्य कुछ नहीं रहते, और इस भाँति जीवन में कर्मप्रेरणा का अवकाश ही नष्ट हो जाता है ।

इससे जगत् को ज्ञेय जानकर वैज्ञानिक उच्छिति करें ? अथवा अज्ञेय मानकर धार्मिकता का प्रचार करें ?

प्रश्न शायद गृह्ण हो गया । मैं छोटे मुँह बड़ी बात करता होऊँ तो आप लहमा करें । लेकिन सच यह है कि कर्मपोजीटर को तीस रुपये वेतन के मिलते हैं, और मुझे उससे बीस रुपये ज्यादा मिलते हैं । मैं इस कारबा यह कभी नहीं मान सकता कि मैं बड़ा नहीं हूँ । बीस रुपये प्रतिमास मैं उससे बड़ा हूँ । और जिस दुनिया में करोड़ों भूखे भी रहते हैं, उस दुनिया में तो मैं आपने बढ़पन का माप कूत ही नहीं सकता । मैं ज़रूर इतना बड़ा हूँ—इतना बड़ा हूँ, कि बेहद । इसमें आपका अधिकार नहीं है । आप इस लेख को पढ़ने जैसे कर्म के लिए फुर्सत पाते हैं, अतः सिद्ध बात है कि आपकी धामदानी सुझसे भी बड़ी है । वह आप खुला-के-खुला सुझसे स्वर्ग ही बड़े हो गए । इसलिए आपको और आपने को बड़ा जानकर मैंने छोटी बातों को पीछे छोड़ दिए प्रश्न सामने लाडे किए हैं ।

वह कर्मपोजीटर तो कुछ नहीं जानता । जी कविता, की कर्मपोज़, और भशीन पर छापकर लुट्ठी पाईं । रोज-रोज यह काम करके तीस रोज के बाद वह आपने वेतन के रुपये पका लेगा और उन्हें पाकर आपने को कृतार्थ समझेगा । भले शांतिको को यह फिल्ड न रहेगी कि जिस बात का यह तीस रुपया पाने का आपना हक्क मानता है, वह आपने-आपमें क्या काम है और कितना भर्याकर है । आत्मा को वह मैटर की तरह-से पन्जे में दबोचपर टाहूप को थहराव-वहाँ जो बैठाता रहता है, वह कैसा धोर अज्ञान का कर्म है, पर तब न तो जर्दी जानता ?

जर्दी जानता, हँसी में रुप लबना । हुश्शा है । जहाँ सो आगले रोज घट्टी ज चुउद्दी जा दूँ भरने दागे । और अपने नामी नाम से आगे बढ़कर वह कवि बनने लग जाय (अर्थात्, मैटर को आत्मा कहने लगे), तब तो परमात्मा ही भासे उठे और हमें बचाए !

कवि जे दिन-भर में छुट्टी पंक्तियाँ कविता की लिखीं । उन पंक्तियों

में उसने अपने मर्म को पाया और दिया। उसमें उसने अपना सत्त-एस ही खींचकर डाल दिया। इस कर्म से डुसे क्या मिला? चैन तो शायद कुछ मिला हो; पर वह चैन किस गिनती की चीज़ है? सबाल है कि ठोस असल में इस कर्म के लिए उसे कुछ मिल सका कि नहीं?

और इधर देखो अपना कम्पोजीट! ‘कविता है मैटर’, यह कहकर उसने कप्तान जो सात-आठ घण्टे मेहरत की, तो दिन में छेड़-दो रुपया लगे हाथ सीधा कर लिया!

कम्पोजीट ही क्यों, क्वीजिए राजनीतिज्ञ को। उसने धर्म को धृग्गूडा दिखाया; नक्षे के देश को देश माना; स्टेटिस्टिक्स (Statistics) के अंकों को बेद-भाषा समझा और इस राह क्या-से-क्या उसने न कर दिखाया। कैंची-से-कैंची कुरसी उसके नीचे देख लो। और इधर अपने कवि लोग और सन्त लोग झंफरी लोकर गाते रहे। यों चाहे अपने पीतम को गाओ, चाहे हैश्वर को रिमाओ। पर उस सबसे होता जाता क्या है? दुनिया में कौन-सा सुधार उससे होता है? और उन्हीं को इससे कौन कुछ आराम मिल जाता है। कुछ मूरख भोजे लोग उस बहक में भले बहक जाते हों; पर राष्ट्र की वास्तविक समस्याओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है!

इसक्षिए क्या यह पक्की बात न समझी जावे कि मैटर सचाई मैं, और हृदय की आवाज़ और अन्तःकरण की कुरेद कोरी भानुकता है।

दिन-दहाड़े जो देखा जाता है, वह तो यही पुकार कर कहता है कि “जगत् सत्य है, क्योंकि मैटर है। समय रहते लूट लो उस जगत् को, जो कि सोना है और सम्पत्ति है और बल है। संशय में रहे कि रह गए। जगत् मैटर ही हीकर कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और अगर कहते हो ‘आत्मा’, तो जाओ, उसमें खुल को खोओ और इस जगत् में भी खोए जाओ। तब जैसे कि जगत् तुम्हारे लिए मिथ्या होगा, वैसे ही ज्ञान जगत् के लिए मिथ्या हो जाओगे। समझे आत्म-वादी जीव, जाओ और अपनी आत्मा के साथ मिलो।”

पर मैं एडीटर हूँ। इसलिए सच यह है कि थोड़ा-थोड़ा मैं भी जानता हूँ कि अपने को जानना कितना ज़रूरी है। और अपने को जानने की जहाँ बात भी सम्भव है, वहाँ अपने को जान सकने बाला 'मै' कुछ लो हूँ ही। यानी मैं आत्मा हूँ। अपने को जड़ मानकर नहीं जी सकता। और सच पूछा जाए, तो जो मेरा खेलन अथवा जो मेरा कर्म आत्म-अभिव्यक्ति रूप है, वही तो सच और प्रभावक मालूम होता है; नहीं तो सब ढक्कोसला ही मालूम होता है।

लेकिन वह बाल तो स्वगत मानी जाय। जगत् की कठोरताओं के आगे वह भला कहीं ठहरती है? क्या मैं देखता नहीं हूँ कि आत्मा मानकर मैं एडीटर हूँ और पचास रूपए पाता हूँ! और शराब को सुख और दौखत को लचाई मानकर एक और व्यक्ति है जो उस पत्र का मालिक, इस कारण मेरा भी मालिक, बना हुआ है।

लेकिन ठहरिए। मैं ज्यादती कर रहा हूँ। ज्यादती गुचाह है। क्या मैं हृदय से कहने के लिए तैयार हूँ कि यह सच है कि पत्र का मालिक आत्मा नहीं मानता और मैटर ही मानता है? सच यह है कि वह आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त से कुछ अधिक ही रस लेता है। परमात्मा का वह पक्षा विश्वासी है और शंका-सन्देह से सर्वथा मुक्त। अपने में वह वेहद विश्वस्त है और नास्तिकता का कष्ट निन्दृक। फिर भी मैं यह क्यों कहता हूँ कि वह हुनिया को मैटर मानता है। शायद यह मैं वाजिद तौर पर नहीं कह सकता। तिस पर वह मालिक है। इससे आप सुने ज्ञाना करें। अपने निज के विश्वास की त्रुटि के कारण दूसरे की आलोचना की वृत्ति मुझमें जगी होगी। और आलोचना हैथ है।

इसलिए यदि मैं यह कहता हूँ कि 'मैटरी'-त्रुटि से मालिक को मालिक बने रहने में सुगमता होती है, तो इसे आप चाहें तो कोरी आलोचना गानिषु। वैसे तो उत्तिष्ठृत सुनिश्चित नहीं यही मालूम होता है।

फिन्टु वह जो हो, किसी-न-किसी का साक्षिक होना ज़रूरी है, और हर एक का मालिक बनना जाज़िया नहीं है और समझव भी नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो तैयार हों कि वे मालिक की सेवा में सेवक बने रहें, तो उन्हीं को अधिकार है कि वे मैटर को भी आत्मा करके देखें।

अपर आ गए प्रश्नों का दार्शनिक समाधान दार्शनिक लोग करेंगे। मुझे तो मालूम होता है कि इसका असल समाधान तो इस बात में पहले ही से हुआ रखा है कि कौन बलशाली है, कौन निर्बल है। बल-बान आद्या को क्यों न मैटर देखे? दूसरे की जानों को क्यों न खिलाऊना समझे? आनंदसा के हित को क्यों न अंकों में नापे? भाव-मायों को क्यों न व्यर्थ समझे? बाहुबल को बह क्यों न निर्णायक नीति दोषित करे? वह क्यों न कहे कि बच्चे में जय है और जो दुर्योग है, वे सबका कुँह का कौर है? बलशाली तो यह कहेगा और यह उसके बल का प्रमाण है।

और जो निर्बल है, वे क्या कहते हैं क्या नहीं, यह कौन सुनता है। सदा से जिसकी वे अपनी बात सुनाते आए हैं, वह राम उनकी बाल सुने-तो-सुने, हम कौन हैं कि उस पर कान भी लावें। हम एडीटर हैं, और खुद निर्बलों में हैं। पर जो हमें बेतन देता है, वह अलघाल है, और हम उसके विपक्ष की बात तानिक-सी भी कोई नहीं सुन सकते।

राम-कथा

एक बार पड़ौसी सज्जन के यहाँ से निमन्त्रण आया। दशहरा पास आ रहा है, दूर से एक विद्वान् पण्डित पधारे हैं, रामायण की कथा होगी,—मैं कृष्ण कर कथा में समिलित होकर उत्सव की शोभा बढ़ाऊँ।

उत्सव की तो शोभा मुझसे बया यह सकती है; लेकिज रामायण कोटि-कोटि भारतीयों को प्यारी है। मैं भी उस प्यार को चाहता हूँ। मैंने रामायण नहीं पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ी है, पर मुझे इस अंग्रेजी की जगह रामायण न पढ़ने पर गर्व नहीं है। कहूँ भौंकों पर जब सहस्रों नरनारियों के समुदाय को राम-सीता के स्तुति-गान पर गङ्गाद्वा जाते देखा है, तब मैं उन सब लोगों को 'मूढ़-मति' कह कर टाल नहीं सका हूँ। मैं यशस्व उनसे प्रभावित ही जाता हूँ राम के प्रति और सीता के प्रति मेरे भन से धद्दा उठती है। मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ और ही सकता है कि बुद्धिमान् के लिए शब्दों की अपेक्षा तर्क अधिक बुद्धि-संगत हो; पर मेरी धद्दा मुझे तुरी नहीं बगती। वह धद्दा अति अनायासभाव से मेरी तर्क-बुद्धि को लोड जाती है। नहीं मानूँगा कि मैं बुद्धिवादी नहीं हूँ; पर, सब कहूँ तो, धद्दा मैं सुझे अपनी बुद्धि की विफलता नहीं मालूम होती, वह स्वप्नादर भी बालूम नहीं है।

रामायण में कई दर्शन हैं, जिनमें से एकत भाव से उन कोटि-कोटि भारतीयों के अनगत धन जागा कहड़ा हूँ तो राम में परमात्मा

देखते हैं और राम-लाभ के स्वरण से जितको लिच-शुद्धि प्राप्त होती है।

भारत दीन है, वह परतन्त्र है। परिचम लड़ रहा है और भारत मूढ़वा में पड़ा है। विज्ञान आविष्कार कर रहा है, भारत धर्म पर माथा टेके बहीं ऊँच रहा है। धर्म भारत का जशा है, वह क्षैत्र है, वह बुद्धिमता है। भारत ऐसे ही तो परतन्त्र बना। परिचम ने उस पर प्रभुरा स्थापित की और भारत पद-दिग्दिश यथा हुआ अब भी अपने धर्म के गीत गाता और अतीत के सपने लेता है। उसे शक्ति चाहिए, शक्ति। उसे चमता चाहिए, बुद्धि चाहिए, विज्ञान चाहिए। उसे धर्म से छुट्टी चाहिए। यह धर्म ही तो उसका रोग है। जिसने उसे विष्णुण् बना डाला है।

ऐसा कहा जाता है। ठीक ही कहा जाता होगा। कहने वाले वासी विद्वान् हैं, वे विज्ञान हैं, वे शक्ति कर्त्ता हैं? वे चाध्यथन तुलनात्मक करते हैं। वे पञ्चहीन बात करते हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान देखा है और विजायते भी देखी हैं। उनकी बात क्यों पुख्ता नहीं होगी? यह किसे की स्पर्द्धा है कि कहे वह बात ग्रन्ति भी हो सकेगी। बात जगकी है, तब क्यों ठीक ही नहीं होगी?

लेकिन मैं जानता नहीं। पढ़कर भी छुछ अधिक नहीं जाना हूँ। तभी तो जन-सामाज्य से मैं प्रभावित होता हूँ। सचमुच प्रभावित होता हूँ। उस प्रभाव से हँकार कैसा? कोटि-कोटि प्रामीणों के प्राणाभ्य उन सीता, राम, लक्ष्मण को तर्क से छिन-भिन करके अपने से दूर सुअले नहीं किया जाता। मैं तो रवयं उनके उस उत्साह में भाग लेने लगता हूँ। सुअले यह सब पष्टनद भी आता है।

तर्कवादी के सम्मुख मैं अपनी इस भावना को लेना नहीं पड़ सकता। मैं जानता हूँ, वह अतर्क्य है। तर्क के सामने वह जुन हो। रहेगी और मैं चिरतर दीखूँगा। मैं तर्कवादी से यही जिवेदन कर सकूँगा कि वह सुअले क्षम्य श्वीकार करें और सुअले इजाजत दें कि मैं पढ़ोसी मित्र की रामायण की कथा में चला जा सकूँ।

मैं कथा में गया। पंडित जी बहुत अच्छा कथा बाँचते थे। सुन्दर

गाते थे और तुलसीदास जी की रामायण उन्हें कश्ठरथ थी। वह गोर-वर्ष सुडौल आकृति के पुरुष थे। कश्ठ सुरीला था। तुल आरम्भ-विश्वास में प्रत्यन्त। इमरथ-हीन चेहरे पर हुँड स्निग्ध आभा थी। अत्यन्त अनुकूल भाव-भंगिमा के साथ वे कथा बोचते थे।

सुन्दरता सभ लगते काम आने वाली चीज़ है। तपस्वी सुन्दर क्यों न हो ? पंडित अपने को सुन्दर क्यों न रखे ? कुछ और गुण यीछे भी दीखें, सुन्दरता तो सामने से ही दीखती है ! उससे काम आसान होता है। सुन्दरता गुण है। चाहो तो वह आयुध भी है। मुझ को ऐसा मालूम हुआ कि पंडित जी हस तत्त्व के तत्त्वज्ञ भी हैं। वे अज्ञान में नहीं हैं कि वे सुन्दर हैं और वे अपने को सुअरनपूर्वक वैसा रखते भी हैं। उन्हें धार्मी युवा ही कहिए, योवन की दीपित उनके आस-पास है।

शताधिक नर-नारी वहाँ उपस्थित हैं और पंडित जी का गदा स्वच्छ है। अब मेरे साथ एक त्रुटि है कि श्री रामचन्द्र की महिमा मुझे हस प्रकार के आयोजन की सहायता पाकर कुछ विशेष उन्नत हो गई हुई नहीं जान पहती है। मैं अपने और राम के बीच में माध्यम अपनी अद्वा का ही पाँक, यह मुझे रुचिकर होता है। जब मध्य में कोई व्याख्या अधिक व्याख्याता उपस्थित हो, तब मेरी अद्वा मेरी ही भीतर सिमिट रहती है और वहाँ आलोचना जागती है। यह मेरे स्वभाव की प्रकृति मुझे बहुत खलती है। आलोचना भलुच्य पर क्यों छाये ? आलोचना सदा बन्ध्या है, वह उपजागित में जाधा है; पर, सोच लिया करता हूँ त्रि पुक बात है—इकिं को विवेक लो चाहिए ही। विवेक में अस्तीकृति अनिवार्य है। अस्तीकृति की शक्ति न हो तो जीवन क्या रह जाय,—विश्वास की सीमा मोम की गाँधि है जो आज्ञा और धारण करने के लिए द्वारा उत्तम वित्त प्राप्ति हो जाता है। पर जीवन में स्वेदहर्ता ही है जो अस्तीकृति की सीमा पायता है। और कहीं वायु की भाँति अवकाशसारी अनावश्यकता नहीं। इन्दिरिय, मैं किंचित् आलोचना नो कथंचित् अपने आप जारी नहीं रखता हूँ।

पंडित जी ने गले में कुछ मालाएँ स्वीकार कीं फिर कुछ पूजन आदि किया, मंगलाचरण किया, और शशचन्द्र के जीवन के इतिहास का संक्षिप्त बख्तान आरम्भ किया। बताया कि अमुक निधि, अमुक धर्षी, अमुक लग्न में अपने पिता राजा दशरथ के अयोध्या के महारों में माता लहारानी कौशल्या की हुक्म से भगवान् ने अवतार धारण किया। इससे आगे वह कुछ और कह रहे थे, तभी मेरा इयान अन्यत्र चला गया।

मनुष्य भी विचित्र प्राणी है। वह क्या विचित्र है! — उसके अन्तर छोटा-सा मन दबकर बैठा रुक्खा है, सारी विचित्रता तो उस मन की है! वह मन न देश की बाधा मानता है, न काल की। इस बहुती यहाँ बैठे हो, तो वह अन उड़कर कहाँ पहुँच गया है, ठिकाना नहीं। उस बरस, जीस बरस, यचास, सौ, लाल, करोड़ बरस पहले कहाँ मन बख्ता गया है, या वह मन लाखों बरस आगे पहुँच गया है,—कुछ भी हिसाब नहीं। यह सारा सफर वह मन छुन से कर लेता है। इसी मन के बूते पर ही तो कवि खोग कह देते हैं कि व्यक्ति असीम है। साडे तीन हाथ का मानव-व्यक्ति असीम भवा क्या? इस अनन्त घोंजनों के विस्तार बाले विश्व में वह नन्हीं दूँद-सा भी तो नहीं है! पर उस नन्हीं दूँद के भीतर नन्हीं से भी जो कुछ नन्हीं चीज़ है, वही कम्बलत तो समीपता में ढैंधकर पला-भर के लिए भी चैन से बैठती नहीं।

और न उस मन के लिए देश की बाधा है। वहाँ भरती पर रक्षी कुर्सी पर बैठे हो, पर मन आलमान में उड़ रहा है। आलामान की, वह सूरज में चला गया है। सूरज को पार कर यह आये फिर यहाँ कहाँ भागा फिर रहा है! उस पर रोक-आस ही नहीं चलती। मध्य ही मन है, उसके लिए कब यह नियम बन सका है? (५८८) फिर दृश्यमान की सुस्वर-कण्ठ-लहरी में गाहै जाती हुई राम-करा से ते रामकर योर कहीं न जा सकेगा। सो मेरा मन और ही तमाशे की ओर चला गया।

तुम्हे रोज पहले की बात है। उसाह-भर हुआ होगा। ऊपर बादल सौ रहे थे। वर्षा दोने बाली थी। मौसम अनुकूल था। उस समय वह कमरा मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ। जहाँ ऊपर सौंबला आसमान तो है नहीं, कोरी छुत है। और जहाँ चारों दिशाएँ भी खुली नहीं हैं, वह चारों ओर से पक्की ढीवारें चिरी हैं। सो मैं कमरे में से चिकलाकर बाहर आया। बाहर आकर देखता हूँ कि हरीश और विमला में कुछ चर्चा चिढ़ी है। वह किसी तर्चे पर उलझते हैं और मेरे बाहर आने का उन्हें पता नहीं लगा है।

हरीश ने कहा—मैं बड़ा हूँ। मैंने ज्यादा आम खाये।

विमला बड़ी न हो; पर लड़की है। उसने ज़ोर से कहा—मैंने खाये!

हरीश—मैंने पाँच खाये।

विमला—मैंने पाँच खाये।

हरीश—मैंने दस खाये।

विमला—मैंने दस खाये।

हरीश—मेरी बात तू क्यों कहती है?—मैंने बीस खाये।

विमला—मैंने बीस खाये!

हरीश—तू भूठ बोलती है।—मैंने जाकीस खाये—मैंने पचास खाये।

विमला को सहसा याद आया कि एक बड़ी बीज होती है जिसका नाम है, 'सौ'। उसने कहा—मैंने सौ खाये।

हरीश—सौ! मैंने पचास सौ हजार खाये।

विमला ने अदृश्य से कहा—मैंने सत्रह खाये!

हरीश ने ताली बजाकर कहा—ओहों जी, सत्रह ज्यादा होते ही नहीं!

तब विमला ने उल्लिखित के बारे दोनों हाथ फैलाकर कहा—मैंने इन्हें खाये।

हरीश एकदम खड़ा हो गया। पंडों के बल सबकर और अपनी दोनों ओर खूब फैलाकर उसने कहा—मैंने हृत्ते सब-के-सब खाये।

विमला ने हरीश को देखकर कहा—नहीं खाये।

हरीश बोला—मैंने खाये। सब के सब, बादल-जित्ते मैंने आम खाये।

विमला—नहीं खाये।

हरीश—मैंने,—मैंने रामजी-जित्ते खाये।

वह कहते-कहते उसका फौफड़ा भर गया, मानो अब हृत्ते अधिक पूर्णता कहीं और नहीं है। मानो फि बस, आब आगे किसी के लिए भी गति नहीं है।

विमला ने हरीश के हुस निश्चिन्त गर्व को देखा। उनकी तमाम गिनती जहाँ पहुँच कर शान्त हो जाती है,—रामास कल्पना, तमाम शक्ति जहाँ पहुँच कर सभास और सम्पूर्ण हो जाती है, वह हैं रामजी ! पर वह रामजी क्या हैं ?

विमला ने कहा—मैंने दो रास जी-जित्ते खाये।

इस पर लनिक गम्भीर सहज भाव से हरीश ने कहा—रामजी दो होते ही नहीं विमला !

विमला आग्रही बन कर बोली—होते हैं।

उस समय गुरुता के साथ हरीश ने कहा—विमला, रामजी दो नहीं होते।

सुनकर विमला चुप हो गई। उस समय उसे यह मालूम नहीं हो रहा था कि वह हारी है; न हरीश को अपने जीतने का मान था, मानो हार-जीत दोनों रामजी में आकर अपना द्वित्य खो बैठे हैं। मानो जीत भी वहाँ वही है जो हार है।

मैं यह सब देख रहा था। मैंने देखा कि रामजी तक आकर वे दोनों परस्पर निस्तब्ध हो गए हैं। वे दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं

पर मैंसे जैसे कि कहीं अन्यत्र पहुँचकर वे मिल गए हों और आपस की पृथकता उन्हें समझ न आ रही हो। मानो कि एक दूसरे को देखते रहने के अविरिक्त और कुछ उनके बीच सम्भव नहीं न हो।

थोड़ी देर बाद हरीश ने कहा—अच्छा बताओ विमला, मैंह कौन बरसाता है?

विमला—बालक बरसाते हैं।

हरीश—बालक नहीं बरसाते हैं।

विमला—तो कौन बरसाता है?

हरीश ने बताया—राम जी बरसाते हैं।

उस सभय सुझसे रुका नहीं गया और चलता हुआ भैं पास पहुँच गया, कहा—कोई भी मैंह नहीं बरसाता जी! हत्ती देर से बालक भर रहे हैं। बताओ, कहीं मैंह बरस भी रहा है? (और मैंने विमला को गोदा में उठा लिया) और क्यों जी हरीश बालू, तुम्हारा रामजी मैंह जलदी क्यों नहीं बरसाता है, क्या बैठा सोच रहा है?

हरीश लाजा गया और विमला भी लाजा गई।

पंडित जी की कथा शुनकर मुझे वह बालकों वाला राम जी बाद आ गया। पंडितजी घाले रामचन्द्रजी, जो बाक्त्रायदा दशरथ के पुत्र हैं और जो निश्चित घड़ी में जन्म लेते हैं, क्या वही हैं जो बालकों का मैंह बरसाते हैं? दशरथ के पुत्र रामचन्द्र जी तो पंडित जी की पंडिताई के मालूम हुए। बालों के ऊपर, आसमान के भी ऊपर, सभी कुछ के ऊपर, फिर भी सब कहीं जो एक अनिश्चित आकार-प्रकार के राम जी रहा करते हैं, मैंह तो वह बरसाते हैं। वह राम जी पंडिताई के नहीं, वह तो बालकों के बालकपन के ही दीखते हैं। मैं सोचने लगा कि पंडित का पाण्डितय क्या सचमुच बच्चे के बचपन से गम्भीर सत्य नहीं है? बालक का राम जो, जिसका उसे कुछ भी ठीक आता-पता नहीं है, उन राजा रामचन्द्र से, जिनका रक्ती-रक्ती ब्यौरा पंडितजी को मालूम है, क्या कभी जीत सकेगा? क्या बालक बालक और पंडित महान् नहीं

है ? लेकिन वहाँ बैठे-बैठे सुझे प्रतीत हुआ। कि दशरथ के पुत्र वाले रामचन्द्र में, जो कि पंडित की ध्यालयाओं में प्रत्यक्षतः अधिकाधिक ठोस होते जा रहे हैं, मेरे मन को उतनी श्रीति नहीं प्राप्त होती है जितनी बच्चों के 'रामजी' में। बच्चों का राम जी कुछ हो, सुझे प्यारा तो मालूम होता है।

तभी पंडित जी की ओर मेरी निगाह गई। उन्होंने सुख पर हाथ फेरा, केशों को तनिक सँवाद, शिखा ढीक की, किंचित् स्मृत से मुस्कराये और अत्यन्त सुरीली वाणी में तनिक अतिरिक्त मिठास के साथ ताल-लय के अनुसार रामायण की चौपाई गा उठे।

उनके निर्देश गायन और पांडित्यपूर्ण वक्तृत्व से प्रभावित ही मैं सोचने लगा कि क्या सच्चमुच हस समय पंडित जी के निकट अपना वाणी-विजास, अपना वाक्-कौशल, अपनी ही सत्ता दशरथ-पुत्र की सत्ता से अधिक प्रभुख और अधिक प्रलोभनीय नहीं है ? सुझ को ऐसा लगा कि युग्यश्लोक रामचन्द्र को तो मैं मानूँ या न मानूँ; पर उनकी कथा को लेकर हून पंडित जी के मुँह से अविराम लिकलाती हुई सुन्दरित वाङ्वादा को तो सुझे प्रामाण्य जानना ही होगा, — कुछ ऐसा जादू पंडित-जी में था। सुझे प्रतीत हुआ कि राम-कथा साधन है, साध्य तो राम-कथा का सुमिष्ट वाचन है। राम तो राम थे, वह कभी रहे होने, पर आज तो देखो, यह पंडित जी उस कथा का कैला सुन्दर पारायण करते हैं ! कहो, पंडित जी श्लाघनीय नहीं हैं ?

सुझ को वे बच्चे याद हो आये जो राम जी की याद में जैसे सुन्दर-बुध विसार बैठे थे। उन के लिए राम जी चाहे कितना ही अरुप-अच्छक हो, पर वह था। उस नाम पर वे उत्साहित हो सकते थे, था कुप हो सकते थे। था तो वह बालकों का बचपन ही, पर फिर भी वह बचपन उनका भाग था। 'राम'—यह भाग शब्द उनके लिए न था, हस्से कुछ बहुत अधिक था, बहुत अधिक था। पंडित जी के दशरथ-पुत्र रामचन्द्र भी कथा देखे उनके निकट हैं ? सुझे जानना चाहिए कि वह

रामचन्द्र अधिक स-इतिहास है, उनका नाम-धारा, पिता-माता, सगे-सस्यवन्धी, तिथि-ठारौरा, उनके बारे का सब-कुछ यह पंडित जी जानते हैं। वह रामचन्द्र जी आवश्यक-रूप में अधिक प्रभाण्युक्त, शरीर-युक्त, तर्क-युक्त हैं। उनके सम्बन्ध में कम वश्व किये जा सकते हैं और लगभग सब प्रश्नों का उत्तर पंडित जी से पाठ्य जा सकता है। लेकिन, क्या इसी कारण वह रामचन्द्र पंडित जी से दूर और अलग नहीं गये हैं? रामचन्द्र दशरथ के पुत्र थे; पर पंडित जी अपने पिता के पुत्र हैं। इसलिए रामचन्द्र जी जो रहे हों रहें, पंडितजी तो पंडित ही रहेंगे। हाँ, राम-कथा करना उनका काम ही गया है, सो वह सुन्दर ढंग से वे उस कथा की कहेंगे। तदुपरान्त, रामचन्द्र अलग वह अलग। उनका जीवन अपना जीवन है। वे जीवन का कोई भाग रामचन्द्र (के आदर्श) के हाथ में क्यों देंगे?

वह सोचते-सोचते मैंने देखा कि राम-कथा-स्नेह से भीगी पंडित जी की तल्लीन इष्टि असावधान और कर्म-कठोर पुरुष-वर्ग की ओर से हट कर, रह-रह कर, धर्म-प्राण, भक्ति-प्रवण अवलाञ्छों की ओर अधिक आशा-भाव से बँध जाती है!

मुझे मालूम हुआ, कि मैं पंडित जी के रामचन्द्र को छोड़कर बाक्सों के राम जी की ओर हस समय उठकर तमिक चला जाऊँ सो यह मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र का अपमान शायद न होगा।

मैं उठा हृतने में पड़ोली सउजन लपक कर पास आये, बोले—
वैष्णिष-वैष्णिष बाबू जी।

मैंने कहा—मैं जाऊँगा जरा—

सउजन ने हाथ जोड़कर कहा—जाइएगा? आप ने बड़ी हृषा की तीजिष, यह प्रसाद तो लेते जाइए।

मैंने प्रसाद लिया और चला आया।

रामनाथ की बात

अभी उस रोज़ एक हितैषी भाई ने कहा—‘कम्युनिझ़म के तुम कायदा नहीं मालूम होते हो।’ फिर दो-तीन किताबें के नाम सुनाते हुए पूछा—‘ये किताबें पढ़ी हैं?’

वे किताबें मैंने नहीं पढ़ी थीं, शायद एकाध उनमें पढ़ भी गई हो। किताबें वे मार्क्स की और लेनिन-स्टालिन की थीं। ‘कैपिटल’ मैंने नहीं पढ़ा है, तो भी दिन हुए मार्क्स का विद्या इधर-उधर का काफी-कुछ मैंने पढ़ा था। याद पड़ता है, स्टालिन की ‘लेनिनिझ़म’ किताब भी पढ़ी थी। पढ़ते चक्क दिमाग पर ज़ोर पढ़ा था। यानी ऐस अनुपात में कम मिला था। पर मेरी अवस्था तब वह थी जब कसरत खुद अपने लिए प्रिय होती है। तब विद्या का मैं आर्थी था। पर विद्या टिकती उतनी है, जितनी अपने में विद्या न रहकर जीवन में हल्का हो जाती है। अपना सब अर्थ ही कोई विद्या में रख बैठे, तो ऐसे वह सहज निकलम्भा बन सकता है। यानी जो तब पढ़ा था, कौशिश की थी कि मस्तक में रहे। इसी से है कि वह जलदी-से-जलदी सुविधा पाकर वहाँ से उतर गया है।

अतः मैंने हितैषी से कहा—‘नहीं, नहीं पढ़ी।’

बोले—‘यह डालो ! ज़रूर पढ़ा चाहिए। तुम्हारी आनित दूर हो जायगी।’

‘आनित ! क्या आनित ?’

‘तुम कम्युनिज़िस के पक्ष में नहीं हो न। इसमें आनित ही लो हुई। पढ़ोगे, तो जानोगे। और जानोगे, तो माने बिना न रहोगे कि जगत् के लिए आशा उसी में है।’

मैं चुपचाप रहा, उत्तर नहीं दिया। सोचा, जानना तो सही ही है और जाने बिना राय रखना या देना ज़रूर ग़लत है।

मिश्र बोलते गए—‘जोग कहते हैं, वह दर्शन नकारवादी है। इससे उसकी नीति भी बकारात्मक है। और उस नीति में से निकली प्रवृत्ति अवंसात्मक होगी। यह अज्ञान है। असल में कुछ अवैज्ञानिक भावुक शब्दों ने हमें पकड़ रखा है। हिंसा शब्द से क्या हमें डरना होगा ? निर्माण के लिए अवंस ज़रूरी है। ढहेगा नहीं, तो बनेगा किस आधार पर ? समाज का हमें क्या नया निर्माण नहीं करना है ? क्या हम कौपेंगे यह देखकर कि मौजूदा सड़ा-गला समाज अस्त-अवस्त किया जा रहा है ? यह सच है कि छोटे दिल वाला कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। जिसकी आपनी जान की या दूसरे की जान की फिक है, उससे फिर अविद्य का क्या भावा होगा ! इन छोटी बातों पर क्या तुम चाहोगे कि हम आटके रहें ? सौ-हजार-लाख आदमी, वे जो भावी को अपनी आसकियों में रोकना चाहते हैं, राह में मिरें और मरें, तो क्या इस पर ठिकना होगा ? तुम गांधी को मानते हो, मैं भी मानता हूँ। वह महामानव था। जाने उसकी अहिंसा क्या थी ? शायद वह हिन्दुस्वान की निहृत्यी हालत में अपनाई गई एक नीति थी। पर गांधी अपना काम कर गया। अंग्रेज यहाँ से गए और बेजोड़ उसने मौत पाई। अब क्या राज्यपुण तुम चाहते हो कि हिंसा-अहिंसा के पक्षे में पड़कर हम रुक जाएँ ? तस पक्ष सहें है, पर यहि नहीं एक सकानी। विकास तो नियत है। विश्व का और वरा नहीं। का तो नह विकास हमसे और हमसे द्वारा हीरा, नहीं तो हमारे नानाघूँद भीगा। यानी हम बाधा होंगे, तो हमने कुछलिए दुएं विश्व जी भीत की आगे बढ़ते जाना होगा।

इससे कहता हूँ, रामनाथ, पढ़ो। किताबें मेरे एक मित्र के यहाँ हैं—उन्हें कह दूँगा।'

मैं साभार सुनता रहा। लेकिन मैं दंग था। ज्ञान हृतला है कि पार नहीं। मेरे बालीस वर्ष निकल गए हैं। क्या उनमें उस अथाह की ऐक वूँद भी मैं अपने में रोक पाया हूँ? जन्म पर-जन्म जोता जाऊँ, तो भी ज्ञान का पहाड़ क्या पड़-पड़कर सुझसे छुकेगा? फिर कौन खताए कि जन्म होते ही हैं। और नित नया ज्ञान अनगिन जिलदों में बैधकर उस पड़ाड़ के ऊपर बराबर बैठता ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपने निपट अज्ञान को लेकर मुझे सचमुच क्या करना होगा, एकाएक सूझ नहीं पाया। मालूम होता है, और सूँदकर पढ़ते ही जाना होगा। ज्ञान ही तो दीप है। और राह अँधेरी है। दीप बिना अँधियारी राह कैसे कठेगी? और यह जो हितैषी मित्र हैं, किताबें के नाम यतज्ञाने के साथ उन्हें पहुँचाने की तैयारी भी जतलाते हैं। तो क्या सब काम छोड़कर उन किताबों को ही पहले पढ़ने में नहीं लग जाना होगा? कारण, साक्षरता अनिवार्य है। तब इस इज्म को, जिस पर अक्षर समाप्त है, जानने से बचने का उपाय कैसे हो सकता है? यों तो सिर रेत में गाइकर कुछ काल जीने का भी एक तरीका है, जो कतिपय जन्म अपनाते हैं। लेकिन इनसान होकर वह तरीका अपने बस का कहाँ है। इस तरह बचाव का उपाय नहीं है। वह इज्म छा रहा है। चीन गया ही और जाने किन-किन की आगे बारी है। सो ज़रूरी है, अपनी स्नातिर और हाँ भविष्य की भी स्नातिर, कि उसे जाना जाय। जानकर यह आप पर है कि बैरीकेड के आप हृधर हों या उधर हों। यानी उस इज्म के प्रचारक हों, नहीं तो उसके शिकार हों। जलदी-से-जलदी आवश्यक ज्ञान पाकर आपको फँसदा कर लेना है। काम में देरी खतरे की हो सकती है।

मेरे असमन्जस को मित्र सहायभूति से देखते रहे। मानो जलदी ही वे मुझे थपकी दे आँँगे, कहेंगे—‘शावाश!’ इससे मैंने धीमे से

शुरू किया—‘किताबें—’

सहायता में लापककर बोले—‘हाँ, किताबें लाइब्रेरी में न मिलें, तो मित्र के यहाँ मिल जायेगी, या मैं भिजवा दूँगा, या मेरे यहाँ कला आ ही न जाओ। पहले स्टालिन की ‘लेनिनिझम’ देख जाना। वह तो शायद मेरे पास भी होगी . . .’। फिर उन्होंने और कुछ कहा, जो उनकी हितैषिता और उच्चता और ज्ञानार्थक-सम्बन्धी उत्तीर्णता प्रकट करता था। अन्त में सुने राह के बीच छोड़ दे चले गए।

इस बात को तीन दिन हो गए हैं। मुझे माफी माँगती चाहिए कि मैं मित्र तक नहीं पहुँच सका हूँ और स्टालिन का ‘लेनिनिझम’ सुनकर तक नहीं आ सका है। प्रमाद ही कहिए, जो सब पापों का मूल है। पर मैं कुछ कह नहीं सकता। आत यह भी है कि पत्नी की तबियत ठीक नहीं रहती है। काम के लिए वे अकेली हैं और खाने के लिए हम साल प्राणी हैं। फिर काम यदि पूरा है, तो दाम एकदम नदारद है। उससे, मालूम होता है, काम की गाड़ी ही आँख जाती है। काम, यानी लेशर। दाम यानी कैपिटल। कैपिटल हूँ इस घर में मैं पति। इससे ‘लेशर’ में हुई पत्नी। किन्तु मैं हूँ बेदाम। अतः पत्नी के लिए है केवल शुद्ध काम। कारण, लेशर और कैपिटल की समस्या, जो विश्व की है और सत्य की समझी जाती है, उसको हल होना है विश्व विश्व में अथवा गूढ़ तत्त्व में। इसलिए उसे ब्रूटें-से अपने घर में और संचित अपने जीवन में हल करने में भद्दा कैसे लगा जा सकता है! आमूलचूल कान्ति से और राज हथियाने से पहले कोई आदमी या घर अपने को ठीक करने में कैसे भूल सकता है!

मित्र बाज़ार में मिले थे। वहाँ उनके शब्द जिस गहन ग्रन्थ और गुरु-कर्तव्य को शेरे समव्य प्रत्यक्ष कर गए थे, घर आते ही वह परोह हो रहा। मित्र ने भोटर में बैठे-बैठे सिगार के धुएं के बीच से जो-जो कहा था, अत्यन्त सारभूत जान पड़ा था। घर आते ही पत्नी ने उसकी निस्सार तुच्छता को दूर भाँति मेरे आगे दाखल कर पड़ा कि जग-

भर तो, निरुत्तर, मैं डिढ़क रहा और फिर ज्ञान-बाद लड़ने को उद्यत हो आया।

पत्नी ने पूछा—‘दवा ले आए ?’

‘दवा—’

इतना मुँह से निकाल आगे किसी अमोशता का डचारण किया चाहता था कि पत्नी ने कहा—‘नहीं लाए, थाँ-आ……?’

मैं हठात् गुस्से में हो आया, बोला—‘तो मँगा क्यों न ली ?’

अचम्भे में वे मेरी और देखती रहीं। उस विस्मय के भाव पर भेरा कोध और उफना, कहा—‘हाँ, क्यों मँगा नहीं ली ? मैं कुछ नहीं जानता—’

पत्नी हँस पर क्या कहतीं। जो था, मैं जानता था। पत्नी उसी निपट यथार्थ को मुझे क्या जतलार्तीं ? घर में न कोई और दवा लाने वाला था, न लाने वाले पैसे थे। हक-बक मेरी तरफ टक बाँध कर देखती हुई उनकी आँखें जैसे और फैल आँहूँ। उस दृष्टि की विवशता को देखकर मेरे अन्दर जाने क्या हुआ कि उपर से मैं फलकना आया। बहक में जाने क्या-क्या न कह डाला, वह वहाँ दौहराऊँगा नहीं। अन-कहनी सब कह गया और फिर धमक के साथ वहाँ से चक्कर अपने कमरे में आया और मोटी-सी किताब खींचकर पढ़ने बैठ गया।

एक शब्द है ‘इस्केप’। मैं नहीं जानता, उसका ठीक-ठीक क्या भत-लब है। अत्यक्तिगत समस्या को नेस्तवाबूद करके उसी के निवेदकिक रूप को मैं उस मीटी किताब की सहायता से अपने मन में उठाने लग गया। तरह-तरह के ज्ञारों से मैंने अनुभव कर लेना चाहा कि समस्या मेरी नहीं है, श्रेणी की है। वह श्रेणीगत विग्रह की है और मुझे उसे हल नहीं करना है, श्रेणी-वितना और श्रेणी-घृणा को चेताने में लग जाना है। मैंने उस रीज खाना नहीं खाया। इयान भी नहीं दिया कि खाना बना है कि नहीं। कमरे से उठकर जलदी लाहूबेरी में आ गया, जहाँ स्टालिन की ‘केनिनिज्म’ लिल्ड मिल गई और मैं उसमें

हूँ गया ।

अब एक और शब्द है 'प्रतिक्रिया' । उसका भी ठीक-ठीक मतलब में नहीं जानता हूँ । वर ग्यारह बजे से पहले नहीं पहुँचा और जाते ही विस्तर पर पड़ किताब पढ़ने में लग गया । उस तरण सुने यह प्रकट था कि विवाह-संस्था बुर्जुआ है, अर्थ-बन्ध पर आश्रित है, और प्रेम को एक के अथवा अर्थ के बन्धन से मुक्त करना होगा । विस्तर पर पड़े-पड़े कब नींद आई, कब सवेरा हुआ, कब पत्नी उठी, बुहारी-सफाई हुई और क्या-क्या कुछ हुआ, सुने पता नहीं चला पता तब चला जब सवेरे सिरहाने आकर कहा गया—'अजी उठो, निशास्ता तैयार हो गया ।'

मैं एकदम नहीं उठना चाहता था । दिन चढ़ आय, नाशता सौ दिने तैयार हो जाय, तो इससे क्या ? यानी तत्काल मैं किसी तरह नहीं उठ सका । लेकिन और उपाय भी क्या था ? आखिर लै-देकर उठा, जो करना था, किया । और चाहता था भपटकर अपने पढ़ने के कमरे में जा पहुँचूँ कि सुना—'लो, आओ न, निशास्ता ठण्डा हो रहा है ।'

झटके से चौका—'क्या ?'

पत्नी ने कहा—'बच्चू, पटड़ा-चौकी डाल दे न ज़रा । आओ, बैठो ।'

कुछ भी और न सूझा । जाने क्या-क्या मनसूने दिल के दिल में रह गए । मेरे सामने-सामने चौकी रखी गई, पटड़ा पड़ा और सुझसे मिथा इसके कुछ न करते बना कि जाऊँ और खिले पटड़े पर जाकर बिराज जाऊँ ।

लीजिए, सब-कुछ हो गया । मालूम होता था, वन घिर आए हैं । ऐसी बिजली कहकेरी कि जगत् पूक बार प्रकाशित ही उठेगा । और किरणों सूखलवार पड़ेगी कि सब गलव हो जायगा । पर वह सब-कुछ जैसे पूँक में उड़ गया । पत्नी ने सुरक्षाकर पूछा—'क्या क्या खाया ?'

उच्चर में मैंने अपने सामने का प्रसाद दिलावर पूछा—'हह सब

कहाँ से किया ?

बोली—‘तुम फिक मत करो । पैसा आना होगा, तब आ जायगा । नाहक क्यों परेशान होते हो ?’

निशास्ता मेरे गले में अटकता मालूम हुआ । मानो आँख गीले थुण्ड की ग्रन्थि बनकर गले में कहाँ उठाते-उठाते अटक गया हो । मुझमे उत्तर नहीं बना । करुण भाव से कुछ मुस्करा ही सका होऊँगा ।

कि पत्नी बोली—‘सोच-फिकर काहे की करते हो ? थोड़ी-बहुत मजूरी तौ मैं कर सकती हूँ । भगवान् ने चाहा, तो सब ठीक हो जायगा ।’

मजूरी ! भगवान् !! ये शब्द गोली की तरह मेरे अन्दर तुम्हें चढ़े गए । जांबूना की तीखी लकीर कलेजे पर खिंच आई और मुझे याद आया : कस्युनिजम ।

पत्नी बोली—‘जो मन हो, किए जाओ । काम से सब ठीक हो जायगा । गरीबी में लाखों जो गुज़र करते हैं । हम कोइ विरले हैं ? तुम मन को ज्यादा आस क्यों देते हो ? इधर-उधर की सोचने से क्या कायदा है ? मुझ पर भरोसा करो । हर हाल मैं तुम्हारी सेवा में हूँ । और इधर तुम अपने तन का खुशाल नहीं रखते हो, यह ठीक नहीं है । मैंने कैसे चलेगा ? तुम मेरी और बच्चों की चिन्ता में क्यों दुखते हो ? सब अपनी किस्मत लाते हैं । तुम खुश रहा करो, वस इतना चाहिए ।’

मैंने अपने साथ जोर-जब करके मुस्कराते हुए पूछा—‘यह सब तुमने कैसे क्या किया ? पैसा तो घर में एक न था !’

बोली—‘किया कुछ, तुम से मतकष्ट—यह छोड़ो नहीं ? आधा गिलास लो था, सब पी जाओ । नहीं, पीना पड़ेगा ।’

मैंने जोर लगाकर कहा—‘वस, आप पीया नहीं जाता ।’

‘पीया नहीं जाता ! ज़रा तो है—नहीं—तो केक दो ।’

मैंने सब पी लिया और कृतज्ञता से इतना विभोग हो जाया कि वहाँ ठहर न सका । कमरे में आकर विना किताब खोले सामने सूनी

दीवार में देखता हुआ मैं बहुत देर तक बैठा रहा। बैठा-बैठा सोचता रहा। नहीं, सोचता नहीं रहा, बैठा ही रहा। लेकिन मैंने पा लिया कि 'लेनिनिझम' की किताब के लिए लाइब्रेरी में या मित्र के यहाँ जाना अब उतना ज़रूरी नहीं रह गया है। इस काम के लिए अब अवकाश आवश्यक नहीं है। जानना यहाँ क्या है? करना जो इतना सामने पड़ा है। करने से अलग होकर जो जानना है, वह न भी जाना गया, तो क्या विशेष हानि होने वाली है?

दीवार में देखते-देखते मालूम हुआ कि मुझे करना होगा। जो बनेगा, कर्हुँगा। प्रेम को सार्थक किए बिना दूसरा चारा नहीं है।... लेकिन फिर मार्क्स और लेनिन और स्टालिन का क्या होगा? और उनकी किताबों का? और चीन पर विजयी बने कम्युनिझम का? और गुगिया और धूरोप में छा जाने वाले उस दर्शन और आन्दोलन का, जिनमें सत्य की घोषणा है और वज्र की टंकार? उन सबका क्या होगा?...ओह, मेरी और से बे हैं, हों, हों, हों। पर प्रेम को सार्थक होना है। सब-कुछ के द्वारा उसी को सार्थक होना है। मार्क्स-लेनिन-स्टालिन द्वारा, और उनके इज़म द्वारा, और मेरे-तुम्हारे द्वारा,— हर तरह प्रेम को सार्थक होना है। और, सब करना-धरना क्या इसी में समाया नहीं है?

सूनी दीवार में देख-देखकर जैसे मैं जानता चला गया कि प्रेम का छून्कार नहीं हो सकेगा। कितने ही हम रुठे और गुस्सा करे और नफरत करें। वह टिकने वाला नहीं है। कारण, वह प्रतिक्रिया है। सारे भभकने और धधकने के बाद उसे प्रेम के छीटे पाकर शान्त हो रहना है। अन्त में उसे पहचानना ही है कि सारा जानना और सारा करना प्रेम को देने और पाने के लिए है। उस इष्ट में सब समाया है। वही सार्थकता रहने वाली है, शेष निरर्थकता मिट जाने वाली है। अपने पर टिकने वाले को नहीं जिता सकेगा।

चीन-चार के बाद अब सात-आठ दिन हो गए हैं। मैं मित्र के यहाँ नहीं गया हूँ और अब इन पंक्तियों के साथ चमायाचना-पूर्वक उन्हें लिख-

दे रहा हूँ कि कश्मुनिझम को मैं जहीं जानता हूँ; पर जानने की स्पष्टी
भी अब अपने पास नहीं रख सकता हूँ। आशा है कि वह और उसके
नायक मात्रर्स, लेनिन और स्टालिन प्रेम की चाकरी में ही अपने को
सफल करना चाहते थे और चाहते हैं। उस राह पर हैं, तो सच है।
उनकी अवश्या दूसरे न मानिएगा।

कहानी नहीं

अभी कहानी की बात न कीजिए । मैं आज ही बाहर से आया हूँ और मेरा दिमाग जिस बात से भरा है वह कहानी नहीं है, इसलिए, खुशनुमा भी वह नहीं है । वह सच्ची सच्चाई है, साक़ है और बदनुमा है । मैं उससे छुट्टी पाना चाहता हूँ । मैं दिमाग साक़ चाहता हूँ । बेमत-लब की कोई बात मैं कहा नहीं चाहता ।

मुझे किसी बहस से क्या बहस है ? मैं आराम से रहना चाहता हूँ । कमाता हूँ, खाता हूँ और चैन से रह सकता हूँ । मुझे किसी के के रोग-सोग से क्या काम है ? मैं खेड़ा नहीं चाहता । ज़िन्दगी मेरी अपनी है । मौज से बिताऊँगा और कुछ आड़े नहीं आते दूँगा ।

अपनी ज़िन्दगी अपने हाथ है । बनाओ, चाहे बिगड़ो । मैं उसे बिगड़ूँगा नहीं । मैं उसे बना-बनाकर ऐसा खूब बनाना चाहता हूँ कि सब डाह करें । देखा तो है लोगों को ! बहक में दूसियों बिगड़ गए हैं । दिल देने में क्या लगता है ? दिल पर काढ़ पाना आना चाहिए ।

यहाँ जो ये-सरे लिखता हूँ, इससे यह न समझना चाहिए कि दिल मेरा कमज़ोर है । बात असल यह है कि जो वाक़िया अभी देखकर आ रहा हूँ उसे कह डाल कर खत्म कर देना चाहता हूँ । उस पर परेशान होना मुझे मन्जूर नहीं । आवश्यक कि यिन्हें और यैक के सुद की आमदानी खाली-चोखी है । लो क्यों न मैं बैठ से दिल कराऊँ ? जितने

दिन हैं उत्तने दिन हैं । उन्हें रोकर बिताओ तो, ऐश में गुजार दो तो । मैं रोने का कायल नहीं । आपनी तो ऐश से बीतेगी ।

लेकिन, ये ऐसे-ऐसे बाक़आत क्यों हो जाते हैं ? होते हैं तो हों, लेकिन हमारी आँख के सामने क्यों आते हैं ? गोया वह हमें डराना चाहते हैं । पर मैं डरना नहीं चाहता ।

जी हाँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ । भजहब की किताबें भी देखी हैं । वक्त पर मेरा दिल भी मुलायम होता है । आईडियल की बात नहीं जानता सो नहीं । साधू-सन्त, फ़कीर-दरवेश, सबकी इच्छादत करता हूँ । क्या नहीं करता ? क्या नहीं जानता ? नेकी का कायल हूँ । हक्कपरस्त हूँ । हक्कीकत पाने की ख्वाहिश ख्वाता हूँ । दान देता हूँ । सोसाइटी में आता-जाता हूँ ।

यह सब सही है । लेकिन, उस सबके बाद यह और भी सही है कि मेरी जिन्दगी मेरी है । किसी और को उसमें उखानाना गवाती है । भजाई करनी चाहिए, लेकिन खुद खटाई में न पढ़ना चाहिए । जो अपने पास है वही अपना है । बाकी सब बेगाना है । जिसने यह पहचाना, वह रहा । जो यह भूला, वह गया ।

लेकिन, सबाल यह उठता है कि वेहूदे बाक़आत हुनिया में क्यों होते हैं ? उनके बाद सबाल यह है कि अगर वे होते ही हैं, तो हम-जैसे खुशबूतों की आँखों के सामने क्यों आते हैं ?

मिसाल के लिए लीजिपु कि हुनिया में गीदड़ होते हैं । इस दिल्ली में कान्फो हैं, नहीं दिल्ली में और भी कसरत से हैं । रात में वे हो-हो-हो हो की आवाज में भूँकते हैं । मैंने अपनी कोठी में हन्तजाम किया है कि पुक आदमी बन्दूक लेकर रात-भर बैठा जागता रहे, हो-हो-हो की आवाज आए और बन्दूक दाग़ दे । यह हन्तजाम पष्का है और मेरी कोठी भी ढेर की बनी है । वह गीदड़ों की आवाज तो होती ही होगी, होती ही है, लेकिन मुझ से वह दूर रहती है । यानी भत्ताश यह, कि हन्तजाम को बीच में डालकर मैंने अपने को उससे दूर बना लिया है ।

अब, जनाब, हसी नहै दिल्ही में वायसराय साहब भी रहते हैं। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह क्रयास किया जा सकता है कि किसी भी हालत में उनकी नींद हराम होने दी जाती होगी? गीदड़ भूँकते हैं तो भूँक, लेकिन, क्या उनको पता भी लग सकता है कि गीदड़ भूँक रहे हैं?

यही उसूल है। बहुत से नाखुश-गधार वाक्यात होते हैं। वे नहीं रक सकते तो न रुकें। उन्हें होना ही है, तो हों। लेकिन, यह तो आम लोगों का फर्ज़ है कि वे हम खास लोगों के सामने न आने दिये जाएँ। और पहले तो उन वाक्यात का ही फर्ज़ है कि वे अगर अपनी बदबूत सूरत नहीं बदल सकते तो हम-जैसे नेकमाश और छुदबूत लोगों के नसीब से तो डरें, और हमारे सामने सुँह दिलाने की जुर्रत न करें।

पर जमाना खराब है और किसी को अपने फर्ज़ का खाला नहीं है। और तो और लैंच-नीच का भेद ही भिटा जाता है। अदना आला होने का दम भरता है और रुल्ये और हैसियत का लिहाज नहीं रह गया है। और, वह छोड़िए। दिन बुरे तो हैं ही। उनका गिला क्या? क्रयामत नजदीक ही है और बदबूतों को अपनी बदबूती का फल चखना होगा। लेकिन, सवाल यह है कि जो हुआ वह हुआ क्यों? और अगर उसे होना ही था तो मेरी आँखों के थागे क्यों हुआ? आप नहीं जानते, यह सवाल कितना अहम है और मुझे कितना तंग कर रहा है। आँखों की राह चीज़ दिल तक चली जाती है तो परेशानी का वायस होती है। यों, कुछ होता रहे, दिल पाक चाहिए। आँखों के अन्दे में यही तो खूबी है। आँखें देखती हैं, पर जो देखती है यह कहीं भी अन्दर नहीं पहुँचता,—वाहर ही वाहर रहता है, न दिसान की हरकत देता है, न दिल पर असर करता है। यौं कहता हूँ कि पेरे लोग दौरत हैं। जी हाँ, गैरत हैं, उन्हीं योंदू हुन्दे य हुर्दू थकसाँ हैं।

मैं उन लोगों में नहीं हूँ। आँख रखता हूँ और उनके पीछे दिलो-

दिमाग रखता हूँ। जो देखता हूँ सो समझता हूँ और उसकी तह में जाता हूँ। जी हाँ, तभी तो मैं इस कदर परेशान दीखता हूँ।

और आप कहते हैं—कहानी कहानी। मैं बाज़ आया आपको कहानी से। कहानी न हो गई बला हो गई। कहानी खेल नहीं है। यूँ कहानी खेल से भी बदतर है। दिलबस्तगी की कहानी चाहिए तो हटिए, मुझे न सताइए।

किसी ने आपको गलत खबर दी कि वह चीज़ मुझे मरवसर है। दिल यहाँ यूँ ही बेकस है। मसले-पर-मसले दरपेश हैं और दिल उत्तमन में रहता है। एक पैंच खुलता है नहीं कि दूसरा पैंच आ लड़ता है। दिमाग बाले की कैफियत बस कुछ न पूछिए।—वह है कि पल-भर चैन नहीं। कुछ-न-कुछ उकड़ा खुलने के लिए सिर पर अड़ा लड़ा है। यही है कि किस्मत ने ज़रा दौजत बरसी है तो दिल-बहाव का कुछ सामान भी हो जाता है और तथियत यूँ-यूँ हलकी कर दिया करता हूँ। नहीं तो दिमाग पर वह जिम्मेदारियों के थोक है कि वहा अफलातून सँभालता होगा।

मैं क्या-क्या ज़िक्र करूँ? एक बात तो है नहीं। दसियों बातें हैं। और वह ऐसी एक-में-एक उलझी हैं कि एक को छेड़ा नहीं कि सब उधड़ पड़ती हैं। तब सम्भालिए,—किसे सम्भालिए? लीजिए, दिमाग में वह जूँ-पै-सी रेंग-रेंगकर किर रही है। और आपने किसी को पकड़ने की कोशिश की नहीं कि वह पन्जे गाढ़ सिमिटकर वहीं चिपक रहती है। अब किए जाहपु कोशिश।—वह वहाँ से उखड़ती ही नहीं। खैरियत यही है कि आप सकून से बैठे रहें और दिमाग के साथ छेड़-छाड़ न करें। वह दिमाग भी क्या अजय चीज़ है! एक बार छेड़ कि भन्ना कर ही दम लेता है, फिर उसे शुप करना मुरिकल है।

सुहा यह है,—यानी, सबाल यह है, यानी—जी, मैं क्या कह रहा था? हाँ यानी—

तो ठहरिये। असली बात याद कर लूँ।—जाने क्या कहना शुरू

किया था ? बताइए साहब—

जी हाँ, टीक ठीक ! अब याद आया । सचाल यह है कि,—जी हाँ, यही है कि—आलीगढ़ का स्टेशन था । मैं सैकिरण कलास में था । एक साहब और थे । वह अखबार में महब थे ।—और टीक वही चीज़ थी, यानी अखबार, जिससे मैं ऊंचा हुआ था । प्लेटफार्म पर बहार थी । मेल-ट्रैन से जाने वाले दोस्तों को छोड़ने के लिए दोस्त लोग आये थे । कुछ दोस्त अपने दोस्तों के हस्तकबाल के लिए आये होंगे । वे ही दोस्त, दो अहाँ चार वहाँ निल बोल रहे थे । सब अपना-अपना ढब और सभी अपने बारे में मुत्तमधन थे । प्लेटफार्म जीता-जागता सैरगाह था और अपनी बहार पर था । खोमचे चालों की बन इही थी और वह आवाजें आती थीं कि चिड़ियाघर भात था ।

लेकिन, क्रिस्मस की भार देखिए कि मैं अपनी सीट पर आकर रेल की दूसरी तरफ भी निगाह डालता हूँ । बोलिए, इसकी क्या ज़रूरत थी ? खाली बैठे सुनें यह क्या सूझा ? यह मेरा अहमक्षयन था कि नहीं ? क्या खुशनुमा था जो प्लेटफार्म पर न था ? इधर निगाह डालने की आविष्कार ज़रूरत क्या थी ? पर गलती की, तो उसका नतीज़ा भी सामने आया । देखता क्या हूँ कि चाल-झैः बडाईगीरें-से खड़के नीचे खड़े गिर्ह-गिर्हाकर पैसा माँग रहे हैं और दुयाएँ दे रहे हैं । दो-एक उनमें लालकियाँ भी थीं । जाने वे कहाँ की पैदावार थे ! आँखें, कान, नाक, मुँह तो इन्सान-जैसे उनके थे, पर क्या वे इन्सान के बच्चे थे ? तौबह ! तौबह ! हुलिए की कुछ न पूछिए । एक-एक के पास कपड़े वह नुमायशी थे कि क्या बात ! अब्बत तो वह इतने मुरहतस्सर थे कि इसमें शक है कि थे भी कि नहीं । फिर नए मकूले के सुताविक उनमें हवा रोकने की खास सिफत थी । फरीखे उनमें काफी रादाद में और काफी कुशाटा थे । दरवे वे धिमा रंगीज की सदद के रियाह थे । लड़की एक पांच वर्ष की ही थीं । धन्दी थी और बीड़ से उच्चंट दूरी से दूरी बाथ की दौड़ डैनियाँ दी । दूरी नहीं आएः अनी रुद रहे भी और एक

लड़का उसका हाथ पकड़कर आगे खींच रहा था । जाने इन लड़कों को हुआपें देना कौन सिखाता है । पैसी हुआपें दे रहे थे कि बेतरतीब, वेसर्हीके ।

एक-एक डिव्वे पर उत्तरते और एक साँस में वहाँ अपनी सब हुआओं का खजाना उड़ेल देते । फिर पैसे माँगते,—हन्सानी कितरंत पर उनका भरोसा अब भी कायम था । ताजुब है, क्यों कायम था, क्यों उठ नहीं चुका था ! वह बिना पैसा पाये आसानी से डिव्वा न छोड़ते थे । हस डिव्वे से वह डिव्वा और फिर अगला डिव्वा और फिर अगला और—

थलब हैरानी तो यह है कि मैं उन्हें देखकर फिर भी देखता ही रह गया । क्यों नहीं उधर की खिलकी चढ़ाकर मैं अपना आँखेजी जासूझी नाचिल पहने लगा ? सबसुब ख्याल आता है कि इतनी झरा-सी समझ मुझे उस वक्त क्यों न हुई । नाचिल भजेदार था और हिज्ज लाईशिप के कल्प का नेंद कुछ हस तरीके से खुलता जाता था कि हर-लेडीशिप परेशान थी और आलज्ज था कि करत्म में मुद्र्दै यानी हर-लेडीशिप की शरकत ही न साबित हो जाय । नाचिल के उस संगीन मामले को छोड़कर हव्वर इन बाहियात भिखरमंगे लड़के-लड़कियों की बदनलीयी देखने में लग जाना सरासर हिमाकृत थी, लेकिन फिर भी मैं उस तरफ क्यों देखता रह गया, यह ताजुब है !

आखिर वे मेरे डिव्वे के नीचे ही आ खड़े हुए । मैंने फिरकर कहा—‘हटो हटो !’

—बाबू, तुम्हारे लड़के-यच्चे जियें ! बाबू तुम्हें राज-पाठ मिले ! बाबू, तुम्हारी नौकरी बढ़े ! बाबू, एक पैसा ।

—मैंने कहा—यह सैकड़ कलास है ! हटो ! हटो !

—बाबू, तुम्हारे औलाद-पुत्र जियें । बाबू, तुम्हें धन मिले । तुम्हें राज्य मिले । नौकरी बढ़े ! बाबू एक पैसा ।

—मैंने फिरकर कहा—क्या है ? भीख माँगते तुम्हें शर्म नहीं

आती है ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो !

इस मुराद में पीछे की तरफ एक लड़की खड़ी थी । उस वरस की उसकी उम्र होगी । वह सबसे डरपोक थी, शर्मिली भी और पीछे-पीछे रहती थी । वह सबसे हुबली थी और आँखें उसकी लबसे बड़ी थीं । वह सुँह से कुछ भी नहीं कहती थी; उस आँखों से देखकर रह जाती थी । ऐसा मालूम होता था कि एक छिपवे के सामने लड़े होकर वह किसी एक आदमी पर आँखें गड़ा लेती थी । जब मुराद चलता वह भी चल पड़ती थी । उससे पहले वहाँ से आँख न हटाती थी । मैंने देखा, उसकी आँखें सुख पर एक-टक गढ़ गई हैं । इतने में अगले, शायद तीसरे दर्जे के, छिपवे से किसी ने उसी लड़की को मुखातिब करके एक पैसा पीछे की तरफ फेंका । पैसा गिरा, कर्ह घच्चे झपटे । लड़की नज़दीक थी और पैसा झटकार उसने उठा लिया । इतने में देखता क्या हूँ कि एक लड़का उस पर झटक पड़ा है और उसकी गत बना कर पैसा उससे ढीन लिया है । बाज उसके और कैल गए हैं, तन पर खरौंच लग गई हैं, लेकिन लड़की फिर चैसी ही गुम-सुम सूनी आँखों से सेरे छिपवे में मुझे देखती हुई वहाँ खड़ी हो जाती है ।

इतने में रेखा चल दी । पहले तो लड़की खड़ी ही रही, फिर दौड़कर मेरे छिपवे के पास आ गई और साथ-साथ भागने लगी ।

—बाबूजी एक पैसा !

वह साथ-साथ भागती रही । लेटफार्म का करीब-करीब किनारा ही आ गया था कि मैंने पैसा निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया—नी हाँ, यह बेबूफी भी की !

वह तो, खैर, हुआ, लेकिन सधार यह है कि मेरी परेशानी का सबब क्या है ? वह सदी है कि भिन्नभिन्न नहीं होते लादिएं । लेकिन, यह सही क्यों है कि अपर भिन्नभिन्न हैं तो जुओं परिवार होता आहिए ? —मेरा क्या जिम्मा है ? तैं तो भिन्नभिन्न नहीं हैं । रेरे बाय तो पैसा है और मैं तो चैन से रह सकता हूँ । फिर रेरे भिन्नभिन्न तो रहें । मेरा

उनसे क्या सरोकार है ? क्या वास्तव है ?

लेकिन सबाल तो असल यही है कि मैं जानता हूँ, ताहम मैं परेशान हूँ । आखिर किस बजह से परेशान हूँ ? सबब क्या ? अलीगढ़ स्टेशन अब कोसों दूर गया । मैं नहीं दिलखी की कोठी में हूँ । यहाँ बीबी है, बच्चे हैं, लालबेरी है, दोस्त-आहयाब हैं, सिनेमा-तमाशे हैं । तब फिर मेरा दिल आराम क्यों नहीं पा रहा है ?

क्या मैं समझता हूँ कि मेरा एक पैसा हालात में कुछ भी फर्क डालेगा ? पैसा न देता तो क्या कोई झास झराबी हो जाती ? ताहम एक पैसा मैंने निकाल फेंका, आखिर क्यों ?

सबाल यही है कि क्यों मैं पैसा दे छूटा ? खिलमंगा मेरा कौन था ? कौन है ? किस इखितयार से, किस हक्क से, वह मेरे दिल के सकून में दखलन्दाज होता है ?

क्योंकर उसे जुरायत है ? क्यों वह मेरे दिमाग का पीछा करता है ? किसने उसे यह इज्जाज़त दी ? क्यों उन्हें कोई जेलखाने में बन्द नहीं कर देता कि मेरी आँखों से दूर रहें । . . . लेकिन, क्या जेलखाने में होकर मुझसे दूर वह हो जाएँगे ? हकीकतन, हो जाएँगे ?

जी हाँ,—सबाल यह है । यह सबाल बड़ा है और मुझे परेशान कर रहा है । यही मुझ में भरा है और इस बक्स मैं आपकी कहानी-वहानी कुछ नहीं जानता ।

सवाल न जवाब

आकारण, अचानक, दो सवाल मानो सामना करते हुए मेरे आगे
आ खड़े हो गए हैं। वे हैं :—

१—अकल बड़ी कि भैस ?

२—साहित्य प्रधान कि राजनीति ?

पहला सवाल एक सज्जन अतिथि ने उपस्थित कर दिया है। वह
अपने को अकलमन्द मानते हैं और अपनी पत्नी को (अन्यथा नहीं,
प्रेम में) भैस कहते हैं। वह अवसर-अनवसर पत्नी के सामने यही
प्रश्न फेंक कर पूछते हैं—‘बीलो, अकल बड़ी कि भैस ?’ उनके प्रश्न
की ध्वनि में ही मानो उत्तर बज जाता है कि भैस देखने में यौं भारी-
बड़ी हो, पर अकल तो मुझ में है। हसखिए असली वडपन भी मुझ
में है, समझी ?

हन्हीं अतिथि सज्जन ने अपनी स्त्री को साहित्यक बातचीत में
दखल देते हुए देख एक उन को उपलब्ध बना कर मेरे सामने
भी सवाल उपस्थित कर दिया है। पूछ रहे हैं—बताहुए साहब, अकल
बड़ी कि भैस ?

यह तो पहला सवाल। दूसरा सवाल हारी लाल से आए एक पत्र
ने उठाया है—साहित्य प्रधान हि राजनीति ? सवाल लटा कर जश
उसे उभार दिया ही धूम नहीं, उसको एकदम चौपट और हल्का

कर डालने का जतन भी किया मालूम होता है। शब्द पर शब्द, कालम पर कालम, पुण्ड पर पृष्ठ। इतना तर्क है कि भीलों राह उक जाय। यह मैं नहीं कह सकता कि उस में क्या कहा गया है, क्यों कि कहा तो बहुत ही कुछ गया है, पर वह क्या है सो जानने के लिए योग्यतर योग्यता की आवश्यकता है। ऊँची कुर्सी साहित्य को दी है या राजनीति को दी है यह भी योग्यता को उचित रीति से पता नहीं चल पाया। जान पड़ता है कि ऊँची कुर्सी को लिखने वाले ने अपने नीचे से नहीं छोड़ा है। साहित्य से हो अथवा राजनीति से हो, वह कुर्सी अगर ऊँची है तो उन्हें अपने नीचे के लिए चाहिए। साहित्य हृस काम में सहायक होता है तो साहित्य ठीक, नहीं तो राजनीति है ही।

ध्रुव पत्र भी तरह-तरह के होते हैं, कुछ विचार-पत्र होते हैं। ऊपर का पथ अपनी सूरत विचारों, यानी विचारकों, यानी सूखे फलों, धौसी रखता है। हराव नहीं, भराव नहीं। न लाहर, न मौज। सदा एक ऊंसा पका रूप। सुर्खी का नाम वहाँ आप को न मिलेगा। याहप छोटा, खूबी अतीनिव्य। दूसरे पत्र जिन्हें समाचार-पत्र कहते हैं नहूँ-नहूँ व्याख्यकताओं से भरे रहते हैं। सुर्खी की वहाँ भरमार पाइयेगा। वे हरकत देते हैं और खुड़ भी थिकते हैं।

खैर, यह बात दूसरी है। ऊपर विचार-पत्र का जिक्र आया। केकिन एक समाचार-पत्र में भी सवाल उठाया गया था कि राजनीति प्रधान है कि साहित्य? वहाँ यह तय पाया था कि देश को आजादी मिलनी चाहिए। और सब बात फिरूज; इनकलाब ही एक चीज सच्ची है। हृसलिए जिससे इन्कलाब हो वह चाहिए। बाकी रिपोर्ट्स हैं। वह इन्कलाब कैसे होगा; कैसा होगा? क्या बुखारिया के नगमों से और प्रियतम की प्रतीक्षा में वह इन्कलाब हो जायगा? हृसलिए, ऐसमझदारों, प्रधान क्या गौण क्या, एक ही धूत जल्दी है। वह धूत है राजनीति।

विचार-पत्र में तो बात स्पष्ट नहीं कही। कुछ हँधर की भी कहो

और कुछ उधर की भी कही। लेकिन बात होती है दो दूसरे। बात समाचार-पत्र की है कि जरा भी दुर्वका नहीं। क्यों न हो। वह देखता सबको एक अर्थ से है। वह बात ऐसी लाफ कहेगा जैसी चौकूट हीट, जहाँ बैठा दो बैठ गई। और ऐसी कल्पकर बैठती है कि वाह क्या बात! क्या हेर-फेर और धुमाव-पिण्डाव? और कैसा किस का लाग-लगाव? बात वह है जो डंके की चौट पढ़े। और समाचार-पत्र छाती की चौट कहता है कि देश आज्ञाद होगा और साहित्य नहीं चाहिए।

सुना है, विचार-पत्र भी ऐसे हो जाते हैं जो चौट का जवाब कम चौट से नहीं देंगे। जी हाँ, विचार मुलायम ही द्वारा के किए नहीं हैं। विचार मेर के लिए सब सेर भी हो सकता है। तुम कहते हो राजनीति, तो हम कहते हैं साहित्य। बहस करना चाहते हो, तो आओ कर जो बहस। तुम जोर से बोलते हो, तो हमारा गला भी बैठा नहीं है। तुम बहुत हो, तो हम एक-एक ही सही। तुम्हारी संघ में जीत है, तो हमारी एकाकीपन की ही साधना है। राजनीति—चीः। वह साहित्य है जो उड़ाए करेगा।

सुना है कि विचार समाचार को भूड़ा करके अपने को सच करने को उद्यत हो गया है। सुना क्यों, ऐसा कुछ देखा भी है। विचार-पत्र हैं जो देखने के नाम बभरते हैं। इस जाति के पत्र भी देखने में आए हैं जो बदायदी में पीछे नहीं रह सकते। जी भर रहेंगे तो आगे। बह डटे हैं अखाड़े में कि कोई आए और दो-दो हाथ कर देखें। हारने की ऐसी-ऐसी। कोई है जिन को बे न हरा दें?

लेकिन दो दें भेंसुट। आएँ मूला तच्च पर। प्रश्न है कि—

१—अकल बड़ी कि भैस?

२—साहित्य बड़ा कि राजनीति?

सवाल दो है। लेकिन दोनों का जिवारा आगर एक और इकट्ठा हो सके तो यह हाति है? इलजित इस दोनों सदाजी को एक करने की छुट्टी लेते हैं। ३०% -पकाएं तो उर न कीदिए। आमज्ञ में दोनों हैं ही एक।

अथ चलिए। प्रश्न है कि अकल बड़ी कि रांग ? लेकिन इस प्रश्न में भी प्रश्न होता है कि क्या ऐसे में अकल नहीं होती ? या अकल होकर भी कोई ऐसे बने से इसमें क्या वाधा है ?

पर सुनिए, यह सूठ बात है कि मेरे सिवाय किसी में साधित अकल हो सकती है। वह अकल ही क्या जो दूसरे को वेअकल न समझे ? अकल है कुछ डेढ़। साधित एक मुझ में है, आदी में बाकी दुनिया है। अकल का यही लक्षण है। वह जिस में होती है वस खत्म होती है। बाकी सब में तो सिर्फ टूट-फूट चूरा-चारा ही होता है। हरेक के लिए अपनी-अपनी अकल ही सब-कुछ है। दूसरे की अकल हर अकल बाले के लिए, बिन खटके और बिन अपवाह, वेअकली और बद्द-अकली होती है। इसीलिए पागल को हक है कि वह अपने सिवाय सब दुनिया को पागल समझे।

अकल का जब यह अहवाल है तो 'अकल बड़ी कि ऐस !' इस प्रश्न का वैज्ञानिक असल दररूप यह हो जाता है कि 'मैं बड़ा कि तुम ?' जरूरी तौर पर 'ऐस' के माने हैं 'तुम' और अकल-वान् से आशय है 'मैं'। सब पूछो तो सच्चा सवाल यही है। उसी सब सवाल का एक बना हुआ (सूठा) चेहरा है यह सवाल कि 'साहित्य बड़ा कि राजनीति ?' पर हम हैं कि सच्चाई के खादिम हैं और सूठ से हमें सरोकार नहीं।

प्रश्न अकल और ऐसे को अथवा साहित्य और राजनीति को आमने-सामने बिठा कर फिर उनके छुट-बड़पन को नापने से सम्बन्ध नहीं रखता। प्रश्न सूत्रतः इस अकाल्य सच्चाई से सम्बन्ध रखता है कि मैं मैं हूँ, इसलिए तुम कोई चीज नहीं हो। तुम हो छोटे, मुझे कहो बड़ा। कोई बहस नहीं कि मैं खुद में क्या हूँ। जो भी हूँ, वही होकर मैं तुम से बड़ा हूँ। मैं साहित्यक हूँ, तुम राजनीतिक हो ! तो साफ-साफ मैं तुम से बड़ा हो गया, क्योंकि साहित्य राजनीति से बड़ा होता है। और अगर तुम कहो कि तुम साहित्यिक हो और मैं राजनीतिक हूँ, तथ तो तुम्हें रक्ष्य

लिंगित होना चाहिए, क्योंकि तुम साहित्य-जैसी व्यर्थता के चक्कर में पड़े हो, जब कि देशोद्धार का इतना काम सामने पढ़ा है। सुनो, मैं राजनीतिक हूँ, इतिहिए मेरी बात तुम को सुननी होगी, और माननी होगी। राजनीतिक महान् होता है।

पर छोड़िए गगड़ा ! राजनीति और साहित्य, इन में दूध किसी में से नहीं निकलेगा। आइये, अपनी भैंस की बात कीजिए ! कृतज्ञ हूँ जिए कि भैंस अकल नहीं देती जो कि कोई किसी से लेना पसन्द नहीं करता, लेकिन दूध देती है जो सब को सब दिन चाहिए।

भाता गैरे को कहा जाता है। और बुद्धि के सुकाबिले में बुद्धिहीनता को रूपक देने के लिए हम लोग भैंस का नाम लेते हैं। फिर भी भैंस है कि चुपचाप अपना दूध हमें दे देगी। हमारे अपमान के उत्तर में गौ से भी गगड़ा दूध वह हमें देगी। इसकिए राजनीति छोड़ो, साहित्य छोड़ो, भैंस की कृतज्ञता को बस याद रख लो।

लेकिन कहा जायगा कि साहश, भैंस के उपकारों को कौन भूलता है ? पर आप अर्थ का अनर्थ न कीजिए। मूल जिज्ञासा यह है कि अक्रज बड़ी कि भैंस ?

वेशक मूल जिज्ञासा से मैं दूर हट गया। जमा करो भाई। और सुनो, जिज्ञासा के लिए यह को फीता, इस में अद्वितीय के नापने के बाकायदा निशान लगे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या ? लो, दोनों को नाप तो डाको। हाथ के हाथ पता चलता है कि अकल में और भैंस में क्या समता है और कौन बड़नी है।

गौलिल गिरासु बोले कि आप तो मजाक करते हैं। भैंस और अकल कर्ता एक अनह नया गफकी हैं ?

तो लदा कि अगर एक जाति नहीं व्य सकती तो भाई, बताओ, कैसे काम चलेगा ? फैसला करना है तो जापना तो वैसा ही।

उन्होंने किर कहा कि आप तो हँसी करते हैं।

मैंने कहा कि अगर वे दोनों आपस में नप नहीं सकतीं तो मुझ से

यह मानने को किस आधार पर कहते हो कि भैंस से अकल बड़ी होती है। मेरी अकल में तो अपनी अकल का कोई विषयन जम कर नहीं देता। तब यताओ, ख्वाह-म-ख्याह भैंस को मैं छोटी कैसे कह दूँ? कितना ढील, कितना डौल; ऐसा काला रंग कि अंधेरे में भी चमके; इतने बन-फीट की ठोस मांसला सत्तामक सत्ता; ऐसे पैने सींग कि क्या छुल्दि पैनी होगी। इस सब को मुझ से छोटा कहने को कहते हो? तब फिर इस विषयन के फीते से दोनों का नाप नापकर अपना जाँच-फल मुझे बताने से सकुचाते क्यों हो? मैं तो तुम जानो विज्ञानवादी हूँ। बिना परखे अकल तो क्या ईश्वर को भी मानने वाला नहीं हूँ। और तुम्हारी सकुचाहट का असली भैद भी मैं जानता हूँ। वह यह कि तुम खुद जानते हो कि अकल तो जय कोई चीज़ ही नहीं है (बोलो भला, वह कहीं भी, कैसी भी, कुछ भी है?) तब भैंस हेटी-से-हेटी कई भन पक्की लोक लो। अकल होने से बच्चा भी इनकार कर सकता है। पर कोई है जो भैंस को इनकार करे? करके देखे तो—

उन्होंने कहा कि अजी, देही बात छोड़िए। सच कहिए कि क्या आप भैंस को अकल से बड़ी कह सकते हैं?

मैंने कहा कि सच-सच सुनना चाहते हैं, तो सुनिए। अपनी अकल से तो मरते दम तक भैंस क्या हाथी को और किसी को भी बड़ा नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कि वह अकल है, बल्कि इसलिए कि वह मेरी है। और मेरी छोड़ आप की अकल की बात कीजिए, तो उससे तो चींटी भी बड़ी है, साहब, चींटी। उस की साफ बजह यह है कि वह आप की है।

मौलिक जिज्ञासु ने कहा कि ठड़े की बात नहीं है। पुकार-म-तत्त्व की बात है।

मैंने कहा कि ठड़े की बात किलकुल नहीं है। कलशन लाल की बात मैं कह रहा था।

बोले कि—अच्छी बात है, भैंस को छोड़िए। अब यह बताहए कि

आज के दिन साहित्य प्रधान होना चाहिए कि राजनीति ?

मैंने कहा कि एक बात मैं जानता हूँ। वह यह कि मेरे सिवाय प्रधान कोई दूसरा न होना चाहिए। कुर्तौं में मेरा कुर्ता प्रधान, नीतियों में मेरी नीति प्रधान, हुनिया में सेरा नाम प्रधान। मेरी तुदि मुझे यही कहती है। इस उत्तर में क्या कोई उत्तर आकी रह गया ?

“जी नहीं”, उन्होंने कहा—“आज के दिन जब कि जीवन जटिल है, भारत में स्वराज्य नहीं है, समस्याओं पर समस्याएँ हैं, भूखे भूख और विजासी ऐश में विलख रहे हैं, तब—”

“जी हाँ तब—प्रधान मैं—”

“शाप की बात नहीं—”

“ओह, मेरी बात नहीं ! उस हालत में मेरा उस बात से बास्ता ? साहित्य बड़ा ठहरे कि राजनीति, हम को तो हम ही रहना है। किसी को शिरा कर कोई उस की छाती पर चढ़ जाय, तो मेरा उस में क्या आता-जाता है ? मरने वाला न साहित्य है, न राजनीति। जो हरेगा वह व्यायामपूर्वक काफी मजबूत अपने को बना कर प्रतिपद्धी को फिर चुनौती दे सकेगा। लड़ाई होगी तो एक को मजबूत और एक को कमज़ोर होना ही पड़ेगा। मसल है—एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। सो यहाँ थह बात है कि जंगल एक है और शेर दोनों हैं। दोनों को अमरता का शाप भी है। तब यही होनहार है कि या तो पटका-पटकी होती रहे, नहीं तो दोनों मिलकर थैठें, मिलकर—”

जिजासु बोके कि मेरा की बात कैसे हो सकती है ? क्या दोनों में निरोध नहीं है ? साहित्य नज़ारा की बात कहता है, राजनीति द्वयंगपन चाहती है। साहित्य कहता है कि आपने को अत्र मानो, राजनीति कहती है कि राजनीति का भाँति डरवहार करो। राजनीति कहती है कि कर्म के द्वारा सामान में घुस कर छवन्दणड मफूष करो। साहित्य सुझाता है कि एकान्त में अपने को छूँको। यह चिरोध क्या शाश्वत नहीं है ?

मैंने कहा कि एकदम शाश्वत है। इसलिए खूब लड़ना चाहिए।

वह शीर क्या जो पूँछ जंगल में दो रह जायें ? ऐसी तो खेड़े होती हैं । इसलिए सब ठोक-कर कोर्ह दो लड़े, इसी में उनके लुट-बड़पन का फैसला होगा ।

ऐसे इधर-उधर की बातचीत करके मूल जिज्ञासा के विषय में और भी सप्रश्न होकर वह मौलिक जिज्ञासु भेरे घट (घर) में से चले गए । मैंने सोचा कि राजनीति और साहित्य तो गहन विषय हैं, लेकिन मैंस—

पर तनिक सोच में दिन-धौले बिना बुद्धि की वह भैस बहस बन आई । और तथा वह बहस के इतने किनारे आ उतरी कि मुझे मालूम हुआ कि बहस और भैस में मौलिक अन्तर नहीं है । दोनों सगी-सहेली हैं । बहस करना ही भैस होना है । जैसे एकाएक ही ज्ञानोद्योत हो गया । आँखें ऐसी खुलीं कि बाह ! मानो भैस शब्द की मूलात्मा ही मेरे हाथ आ गई हो । भैस का बीज है बहस । ज़खर यही उसकी व्युत्पत्ति है । भाषाशास्त्र और शब्द-विज्ञान की दृष्टि से इसमें किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं हो सकता । जब तक मैं बहस नहीं करता भैं भैस भी नहीं हो सकता । भैस नहीं हूँ, इसी के अर्थ हैं कि मैं अकलमन्द हूँ । अहस कर पड़ता हूँ तो स्पष्ट है कि भैस की भाँति मेरी अकल चरने चक्री गई है ।

इसलिए साहित्य बड़ा कि राजनीति, इसका जवाब देने के लिए अगर बहस में पड़ना पड़ता है तो इस से वह हर शब्दस बचेगा जो भैस कहलाना नहीं चाहता । और मेरी बात तो आप जानते ही हैं । मैं ठेठ वह व्यक्ति हूँ जिसके बाँटे कुल छेद अकल में से सावित एक अकल आई है और शेष खंडित आधी में बाकी सब दुनिया को जुका दिया गया है । इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और मूर्ख के अस्त्र मैन की भिजा चाहता हूँ । न सदाल खेता हूँ, न जवाद देता हूँ ।

दही और समाज

मसियों के दिनों में दूध अच्छा नहीं लगता है, दही अच्छा लगता है। साथ ही खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा लगता है। इससे सबै-शाम जो दूध आता है सो जमा दिया जाता है। फिर उस जमे पदार्थ को पाने लायक बनाने के लिए उसमें किलुना ही पानी ढालना जरूरी है।

एक रोज श्रीमती ने दूध-वाले को ऐसा सुनाया कि क्या पूछिये ! कहा कि दूध लाते हो या तमाशा करते हो ? दूध में उंगलों डालकर, फर्श पर बूँद टपकाकर दिखाया कि यह दूध है, या पानी है ?

दूध वाले ने नम्रता से कहा कि आजी दूध तो खालिस गाय का है।

श्रीमती ने सूचना दे दी कि और दो-चार रोज देखते हैं। दूध ऐसा ही आया तो दूसरे से लोना शुरू कर देंगे।

मैंने भी देखा कि दूध एकदम तरल है। वहाओ तो वह जायगा, छुलकाओ तो छुलक जायगा। पर शाम के इसी दूध को देखा तो सबै चकत्ता जमा हुआ है। हँडिया को हिलाते हैं, छुलाते हैं, पर उस पत्थर से जमे दही में कँप-कर्पी भी नहीं होती।

अब लोग हैं जो कहते हैं कि अजी अकेले भजा क्या किया जा सकता है। चना अंकला भाड़ का क्या बिगाड़ेगा ? एक के बदलने से क्या होता है। बदलनी तो बुनिया है। समाज नहीं बदले, और

परिस्थिति नहीं बदली, और मूल्य नहीं बदले तो किसी एक अकेले के बदलते की कोशिश करने से क्या होना जाना है। अजी साहच, समाज-ध्यावस्था का ढाँचा ही बदलना होगा। व्यक्ति जो अपने को बदलना और इसलिए अपने बदले जाने में जो सन्तोष मानता है, उस में है। यह तो कूप-मङ्गुड़कता है। आपने खद्दर पहन लिया, चरखा लला लिया, और समझ दैठे कि शोपण आपने दूर कर दिया। बस पूँजीवाड़ी जीवन-नीति का यही ढकोसला और यही छल तो है। धर्म कर लिया और मन को बहला लिया। केकिन साहच, व्यक्ति इस तरह अपने को बदलता और चैन भानता है तो इससे यही बड़ा नुकसान होता है कि उस ध्यक्ति में जो सामाजिक असन्तोष होना चाहिए वह नहीं रहता। प्रथमति की सम्भावना उसमें से नहीं हो जाती है। वह गङ्गा-भगत बन जाता है। पूँजीवाड़ी विधान को अनजाने वाले भजवृत्त करता है। यह जो आपको अपरिग्रह और अहिंसा है न, इसमें यही खतरा है। आदमी अपने सुधार के घटकर में पढ़ जाता है और समाज को अनसुधार रहने देता है। धर्म की व्यर्थता यही तो है। बताहये भला कि व्यक्ति की भी कोई सत्ता है। व्यक्ति परिस्थितिओं की उपज है। आप स्थिति बाहर निकल ही नहीं सकते। धर्म का बात और आत्म-सुधार की बात तो बचाव जैसी है। सामने कर्तव्य की लुनौती है और आप धर्म में मुँह गाड़ते हैं। चाहिए तो यह कि क्रान्ति की तैयारी करें, और आप भलाई सिखाने की सीख देते हैं। लुरे विधान के नीचे भला होना समझद ही नहीं है। भले बनने की कोशिश पहले ही से बेकार है। वह बाबक के अँगड़ा चूसने जैसी है। अपने अँगड़े में इस लेते रहिए और बाहरी बगल के लिए मूँह बने रहिए। जो नहीं, व्यक्ति नहीं बदल सकता। समाज बदले तभी व्यक्ति के बदलने की सम्भावना है।

पूँजीवाड़ी समाज-ध्यावस्था के बहवृक्ष कुछ ऐसी व्याप्ति मिले। साथी थे, इधर आठ-एक बरस में साथ छुट गया था। क्रान्ति की रागत उनमें पहले से कम नहीं पाई। पूँजीवाड़ी विधान के ग्रात्रि क्रोध कुछ अधिक

ही उत्कुद्द दीखा। पहले गाँव-गाँव डोलकर किसानों का काम करते थे। लेकिन शायद उन्होंने पा लिया कि ऐसे हुछ न होगा। असल चोज पूँजीवाद है। उस पूँजीवाद से खुद उसके अधों से ही लड़ा जा सकता है। पूँजीवाद की जगह समाजवाद चाहिए। समाजवाद के प्रचार के लिए पूँजी चाहिए। इसलिए समाजवादियों को पहले पूँजी बनानी होगी, तभी पूँजी और पूँजीवादियों को छुनोती ही जा सकेगी। साथी समझदार थे, और समझकर उन्होंने यह सत्य पाया और गाँठ थोड़ लगी। अब देख रहा है कि एक हंश्योरेन्स कम्पनी के प्रधान आर्गनाइजर हैं। मोटर उनके पास है, दूसरे दर्जे में लफर करते हैं। उनसे सुने मालूम हुआ कि क्रान्ति होगी, और जलदी होगी। गाँधीजी का चर्चा उसे नहीं रोक सकेगा उन्हीं से यह मालूम हुआ कि समाज बदले तभी व्यक्ति बदल सकेगा, और कि उन दिनों गाँव-गाँव भटककर उन्होंने अपनी जिन्दगी बदलाव की थी। अब देखिये कि कोई चार दर्जन अपने कार्य-कर्त्ताओं को मैंने काम से लगा दिया है। नाम कम्पनी का, काम समाजवाद का। साथी अब खुद किसी लायक अपने को पा रहे हैं। पहले क्या था? पूँजीपतिर्य के हाथ की कठपुतली ही हम थे। अब पूँजीपतिर्यों के घर में दाखिल होकर अन्दर से सेंध लगा सकते हैं। पाँच सौ माहवार मिलते हैं, मोटर मकान का भत्ता अलग। अब पूँजी-पति नहीं कह सकता कि हम हुछ नहीं हैं।

धीरे, आप कहेंगे कि मैं समाजवादी नहीं हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप समाजवाद जानते ही नहीं। भाई, दुनिया आदर्श नहीं है। चलना चलने के ढंग से होता है। समाजवाद में लूटी है तो यही कि वह व्यावहारिक आदर्श है। पहले भी नहीं भी था। गंधी के जाम पर नंगे पाँच गाँव-गाँव चूखता रहिता था। पर उससे क्या हुआ? मैंने क्या पाया? दुखिया ये क्या पाया? अग ईक्सिएटि में हुए हैं, और दो चार का भत्ता जर लकड़ा है। समाजवाद यही कहता है कि निजी आदर्श के लिए न पड़ो। हम आधिकर क्या कर दोगे? रेल है, ताक

है, तार है, पैसा है। इन सबके ऊपर सरकार है, तब-तक और भी सब-कुछ उसके सुतायिक है। काम असल है उसको बदलना। उसके लिए फिर ताकल चाहिए। इसलिए हमारा प्रोग्राम पहला हो सकता है Capture of power। फिर जो काम बरसों में न हो, वह ज्ञाणों में हो जायगा।

मेरे साथी-मित्र बड़ गये हैं। भगवान् उनका भला करे। लेकिन शाम का पानी-सा दूध यह जो सबेरे अचक पत्थर-सा हो गया है, सो कैसे?

पर आदमी की बात के बीच ये दूध-दही प्रचिस विषय है। आये दूध, कृषि होगी, और पी लिया जायगा। गर्भ के दिन हैं तो दही मथ कर लासी के आई जाय। तब उसके साथ न्याय किया जायगा। पर चर्चा बास्तविक यह है कि आदमी अकेला ज्या कर लेगा? हरिश्चन्द्र ने सत्यवादी होकर क्या कर लिया? युधिष्ठिर धर्मराज होकर हिन्दुस्तान को कौन तार गये? और हिमालय की कन्दूराओं में जो ऋषि महात्मा सुने जाते हैं उन्होंने हमारा कौन दुख हर लिया है? बाँस अपनी जगह लम्बे-से-लाम्बा हो जाय, तो क्या इसी कारण उसके आगे सिर झुकाएँ, और अपनी बुद्धि को गवाँ हें?

बात पक्की है। समुद्र में खूँद क्या बनाए? शर्यत की खूँद ढालिए, समुद्र क्या मीठा हो जायगा? वह खूँद सोचा करे कि मेरी मिठास समुद्र को मीठा कर रही है। पर वह बिचारी नहीं जानती कि समुद्र के खारेपन के बीच उसकी मिठास निरी व्यंग है। वह अपने को मीठी जानती है तो अपने को नहीं जानती।

बात कुछ ऐसे फौलादी तर्क की है कि जवाब नहीं बन सकता। इसलिए अगली शाम जब दूध आया और गर्म करने के बाद जमागा जाने लगा तो मैंने श्रीमतीजी को पकड़कर कहा,—‘मुनो डी, बताओ, तुम किस जाहू से पानी-टूँड्र की चकना दही कर देती हो।’

श्रीमती ने कहा नजाक का जवाब तो देखा करो। छोड़ो, मुझे काम

करने दो ।

मैंने स्त्री की मति पर चाहा कि माथा ढोक लूँ । यहाँ गहन जिज्ञासा है और यह ठठोली समझती है । उन्हें कब पता चलेगा कि उनसे बाहर भी कुछ दिलचस्पी के लिए हो सकता है । वेशक किन्हीं (विशेष कर हमारी) श्रीमती का माहात्म्य कम नहीं है । उनके कारण मैं पति और पिता बनने के अवन्तर निकम्मा तक यना हूँ । लेकिन... और, उत्तर में मैंने कहा, 'ठठोली न जानो, सच यतोथो कि तुम यह करती क्या हो ?'

इस बार उन्होंने हँसकर कहा—'अच्छा, अच्छा, वस मुझे यह दही जमा लेने दो ।'

मुझे उनके हँसने पर बड़ा गुस्सा आया । क्या मैं कोरा पति ही हूँ, तात्त्विक विलक्षण नहीं हूँ ? मैंने कहा—'सुनो जी, तुम्हारी नहीं, दही की बात है । वह कैसे जमता है ?'

बोली—“देख लो, जमा तो रही हूँ !”

मैंने देखा । देखा कि वह अन्दर से चिपिया में रखा जामन लाई । जामन आनी दही की फुटक । दूध था ढाई सेर । दही की मात्रा इतनी कि एक फूँक मारो तो हजरत हजार में हवा हो रहे !

श्रीमती जी उस दही को डंगलियों पर लेना ही चाहती थी कि मैंने झपटकर उस चिपिया को छीन लिया । कहा—'उहरी जी, गजब किये डाला रही हो !'

श्रीमती जी ने ग्रसन्नता दाढ़कर कहा—'यह तुम्हें कभी क्या हो जाता है ?'

मैंने मन में कहा कि हाय, दही से या दुनिया की किसी चीज से कोई श्रीमती अपने को बढ़कर मानना क्या कभी नहीं छोड़ सकेगी ? सचसुच, क्या कभी भी नहीं ?

बोला—‘देखो, आज एक पुराने साथी मिले थे । समाजयाद का तुमने नाम सुना होगा ! पर तुमने क्या सुना होगा, यह गहरी चीज है । उन भिन्ने ने उमर्हा धाह ली है । वही आज मिले । इसी से तो

कह रहा हूँ कि तुम आज दही नहीं जमाने पाओगी। पहले मुझे तुम अपनाजादू समझाओ।... और नहीं, आँख का जादू तो मैं जानता हूँ। नहीं-नहीं, वह जादू आँख में लेके मुझे न देखो, दुर्जाह तुम्हारी। आज तुम दही न जमाओ। मुझे गताश्रो—मैं जमाऊँगा।'

यहाँ जरूरी है कि श्रीमती की कथा को आद दें। वह घर की निजी बात है। परिणाम-भर कह दें। सो यह कि श्रीमती का अभाव पाकर चिपिया में बैठे उस नन्हे-से दही से मैंने सीधी बात-चीत शुरू की। कहा—‘हजरत, सच कहिए कि वह आप हैं, जो इतने दूध को कुछ धंटे में दही कर देते हैं? यूँ तो आप पर मुझे तरस आता है। क्या तो जनाब की हैसियत! क्या दीला-डौल! बदलाह! लेकिन श्रीमती कहती है कि यह उनकी खिलत नहीं, आपका तुक्कैल है। यकीन तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भी मौका है कि आप अपनी कैफियत दें।’

दही साथ कुछ नहीं बोले। ऐसा मालूम हुआ कि शरम के मारे वह कुछ और सफेद पड़ गए हैं।

मैंने कहा—‘घबराहूये नहीं। श्रीमती जी के अलावा मैं और किसी से बेजा सत्तूक नहीं करता। कुछ गुन हो आप में तो बैसा कहिए। और जो नाहक गुनहगार आपको माना जाता हो तो वह साफ कह दीजिए। तब आपको दूध के अन्दर नहीं ढाला जायगा, बल्कि आराम के साथ पानी में तैरा दिया जायगा।

दही महाशय इस पर भी गुम रहे तो मुझे सैष आया। मैंने कहा कि ‘देखिए जनाब! आपकी नन्हीं-सी जान है, इसलिए इस बार आपकी गुरुत्वाली माफ करता हूँ। आप तो ही सकते हैं नाचीज़, लेकिन मेरे सामने गहरा सवाल है। इसलिए मैं आपसे सच्ची कैफियत चाहता हूँ। अबान कीजिए कि किस तरह इतने दूध को आप दही की शक्ति देने के द्वारा रखते हैं।’

आखिर मेरी धर्मकिञ्चों से हज़रत को चेत हुआ। पर वह कुछ बोल नहीं सके। उबडब्ब पानी भर लाए।

मैंने कहा—‘ए भाई, यों पानी क्यों होते हो ? घबराओ मत । वेकसूर हो तो एकदम कह दो । मुझे तुम्हें दूध में फेंकने की ज़िद नहीं है । तुम्हारे कहने की देर है कि तुम बरी हो । तब श्रीमती को कहूँगा, इस विचारे दही पर अपनी बला क्यों टालती हो । जादू तुम में है और खता इस विचारे दही की बताती हो । बात यह है भाई, कि विचरी समाज को हमें ठोस शक्ति देना है । अब उस उस्तुल की ज़रूरत है जिससे यह काम हो । मुझे एक शास्त्र के शास्त्री ने ज्ञान दिया है । इसलिए मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारी श्रद्धना हैसियत में वह दम क्या हो सकता है । यकीनन श्रीमती के हाथों की सिफ्रत है । उनके हाथ का ज्ञार जानता हूँ । बच्चे के गाल पर पड़ जाता है तो आध घंटे तक दूसरी तरफ का गाल लाल गज़र आता है । उस हाथ की पावर की करामात से ही दूध ठोस बन सकता होगा । क्या मैं चाशे तरफ पावर पोक्षिटिक्स देखता नहीं हूँ । करामात जहाँ है, ताक़त की है । ‘पाओ ताक़त’ (Capture of power) से दूसरा विज्ञान इस हुनिया में हो क्या सकता है । पर मैं जानता हूँ श्रीमती का छुला । अपना बल मेरे हाथों आने देने वाली वह नहीं है । तभी तो तुम विचारे को मेरे आगे कर दिया है । कह गई हैं कि सब करनी तेरी है । घबरा रहीं, भाई । पानी-पानी मत हो । तेरी शक्ति से देख रहा हूँ कि तू होना है । तुम्हाँ क़छु नहीं है । कहाँ है तुम्हें शक्ति ? तू क्या जानता दोसा विज़ पौवर वगैर इस था उस पौवर कभी कुछ हीता जाता है ? भोके लोग हैं जो दैश्वर की मानते हैं । पर लो, तुमसे भी मैं क्या कहने बैठा हूँ । पानी हुआ पत्ते पर ढरता तो तू जा रहा है । तू विचारा क्या समझेगा । अब कह दे भाई ! ताकि मैं तुझे छुट्टी दूँ और श्रीमती को तुवाक़र कहूँ कि यो जादूगरनी, ले यह दूध, और कर दें दश पानी को अपनी शक्ति के जान से पथर । सुना भाई, तू सब कबूल दे और तुम्हें छुट्टी है ।’

आखिर बात शास्त्रीय ही सब दिक्षिती न ! मुझसे गशी-गशी सुनी तो दही यिहिणिया आया । मेरे देखते-देखते वह कर्पा, हिला और आँख

की भाँति पत्ते से वह निकला। आले में रखे पत्ते पर से बहली वह धार फर्श पर टपटप टपकने लगी। मुझे बेहद करुणा आई। मैंने उससे जमा माँगी। कहा कि भाई, मेरा तुम कसूर न मानना! पत्नी नाम की स्वामिनी जो ऐरे ऊपर हैं, वही अपने को बचाकर तुझे मेरी हिरासत में दे गई है। लेकिन तू निर्दोष है यह मैंने अच्छी तरह देख लिया है। वे भाई, मुझे जमा कर और अब तू जा।

यह कहकर आँसू की धार में टपटप टपकते ऊस दही के पत्ते को आहिस्ता से मैंने जहली मोरी में छोड़ दिया। वह पत्ता कृतज्ञता में भीगा मोरी के पाली की लहरों पर जावता हुआ गया।

मैं अपने से खुश था। निर्दोष को बन्धन-मुक्त करने की खुशी कैसी होती होगी, इसका मैं तब अनुभव कर रहा था। कि हाथ, तभी आ पहुँची सिर पर श्रीमती! बोलीं, ‘अब तक क्या हो रहा है? तब से दूध नहीं जमा?’

मैंने कहा, ‘जाहूगरनी तुम हो!’

बोलीं, ‘क्या क्षो रहा है तुम्हें आज?’

मैंने कहा, ‘छोड़ी, तुम नहीं समझोगी। आज शक्ति को मैंने पहचाना है। जोग जानते होंगे कि दही दूध की जमता है। पर वे तुम लोगों को जानते नहीं। राज्य शक्ति से चलते हैं, क्रान्ति शक्ति से होती है, और दूध शक्ति से जमता है। तुम जाहूगरनी हो। लो, यह दूध जमाओ।’

मेरे आकस्मिक बोधोदय और मोहावेश को किंचित् मन्द बनाकर वह बोलीं, “दही का पत्ता कहाँ है?”

मैंने कहा, ‘क्यों मुझे छलती हो, रानी? यह सब तुम्हारी ही माया है। दही को तो मैंने छुट्टी दे दी है।’

बोलीं, ‘तुम्हारा सिर! सच बोलो, दही कहाँ है।’

लेकिन मैं तो शास्त्रीय रहस्य को पा गया था। इससे मरन भाव से श्रीमती की कीड़ा देखता रह गया।

जितनी वह कल्पता है, उतना ही उनके शक्ति के जादू में मेरा विश्वास अटल होता गया ।

बोलीं, “थब इस वक्त कहाँ से मैं जामन लाकर पठकूँ । मेरे करम कूटे हैं । अताते क्यों नहीं कि इस वक्त कहाँ से जामन आयगा ! दही क्या अपने सिर से जमा लूँ !”

किन्तु उनके समस्त रोष को मग्न भाव से मैंने ग्रहण किया। कि हा, “जो कही आधी रात करते को मैं तैयार हूँ । जामन के नाम पर जो मँगाती हो वह यह लाया । पर जामन विचारा कुछ नहीं है । सब तुम्हें हो, क्योंकि शक्ति ही सब है ।”

श्रीमती ने कहा, “हृतने वडे हो गए फिर भी तुम्हें . . .”

पर हाथ, श्रीमती जादूगरनी हों कि देवी हों, खी तो हैं ही । इससे वह क्या जाने । अपने-ही-अपने को वह तो देख सकती हैं । पर मैं तो एक महा रहस्य की बात जान गया हूँ । वह यह कि दही की एक किटक सेरों दूध को नहीं जमाती । अह तो श्रीमतियों की छुलना है कि लोग ऐसा समझते हैं । लोग तो ऐसा भी समझ लिया करते हैं कि आमुक एक आदमी ने इतिहास बदल दिया, या असुक ने एक नथा युग बा दिया । पर वह तो सब कहने की बात है । न दही दूध जमाता है न ज्यक्ति समाज बनाता है ।

समाज का शास्त्र है तो समाज की असत्तियत समाज में नहीं शास्त्र में है । उस शास्त्र से सिद्ध है कि धरवाली घर के दूध को अपने हाथ के जोर से जमाती होगी । भावार्थ, पहले सब कहीं जोर को हाथ में लेना होगा । चाहे बात घर की नी, भूमा भी हो, समाज लरकार भी हो । सच्चा लिए बिना कुछ न होगा । लेना, यानी दीन लेना । वह जयरत्न स्त काम छूल के बल, या बल के लूल ऐ भी हो सकता । भूमारी श्रीमती में ज़खर छूल है, यही तो बल है । इसी से यो उनके अपने दूध प्रियारद दही कैसे न हों रहेगा ।

खैर, श्रीमती की बात रखने को जामन मैंने ला दिया। पर मैं जानता हूँ कि जामन का नाम था, काम तो श्रीमती का था कि दही-जैसा कल भिला, वैसा आज भिला, और आगे उन छुला-बद्दा-भाजिनी की मुरक पर दया-माया रही तब तक भिलता रहेगा।

बाजार-दर्शन

एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए तो ये कोई एक नामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत-से बगड़त पास थे।

मैंने कहा—यह क्या?

बोले—यह जो साथ थीं।

उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं क्रायज़ हूँ। आदि काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रसु-खता प्रमाणित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। खी माया न जोड़े, तो क्या मैं जोड़ूँ? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्त्व की महिमा सविशेष है। वह तत्त्व है मनीषेग, अर्थात् पैसे की गरमी या एनर्जी।

पैसा पावर है। पर उसके सबूत में आसपास माल-टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है! पैसे को देखने के लिए बैंक-हिसाब देखिए, पर माल-आसबाब मकान-कोड़ी तो अनदेखे भी दीखते हैं। पैसे की उस 'पर्चेज़िंग पावर' के प्रयोग में ही पावर का रस है।

लेकिन नहीं। लोग संयमी भी होते हैं। वे किजूल सामान को किजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और उद्दिगान् होते हैं। डुड़ि और संयमपूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे

की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है।

मैंने कहा—यह कितना सामान ले आए !

मित्र ने सामने भवीषण फैला दिया, कहा—यह देखिए। सब उड़ गया, अब जो रेल-टिकट के लिए भी यचा हो !

मैंने तब तथ माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी 'पर्चेज़िंग पावर' के अनुपात में आया है।

लेकिन ठहरिए। इस सिलसिले में पुक और भी महत्व का तत्त्व है, जिसे नहीं भूजना चाहिए। उसका भी इस करतब में बहुत-कुछ हाथ है। वह महत्तर है, बाज़ार।

मैंने कहा—यह हतना कुछ नाहक ले आए !

मित्र बोले—कुछ न पूछो। बाज़ार है कि शैतान का जाल है ? ऐसा सजा-सजाकर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फैसे।

मैंने मन में कहा, ठीक। बाज़ार आमन्त्रित करता है कि आश्री मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है ? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो, तो भी देखने में क्या हरज है। अजी आश्री भी।

इस आमन्त्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगता है। लेकिन जैसे बाज़ार का आमन्त्रण सूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में रखे होकर आपसी लो लगने जागता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है। और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अनुग्रह है। ओह !

कोई अपर्ण को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से चिक्का बना छोड़े। चिक्का क्यों, पागल। असन्तोष, तुष्णा और ईर्ष्या

से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है।

एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गथे-गये बाजार से कहीं शास्त्र की वापिस आए। आए तो खाली हाथ !

मैंने पूछा—कहाँ रहे ?

बोले—बाजार देखते रहे ।

मैंने कहा—बाजार का देखते क्या रहे ?

बोले—क्यों ? बाजार—

तब मैंने कहा—आए तो कुछ नहीं !

बोले—हाँ। पर यह समझ न आता था कि न लौँ तो क्या ? सभी कुछ लो लेंगे को जी होता था। कुछ लेने का भतलाव था शेष सब-कुछ को छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका ।

मैंने कहा—खूब !

पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते ही तो सब और की चाह तुम्हें देर लेगी। और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म ।

बाजार में पुक जादू है। वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रुप का जादू है। पर जैसे चुम्बक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी सर्वादा है। जेव भरी हो, और मन साली हो, ऐसी दालत में जादू का असर खूब होता है। जेव खाली पर अब भरा न हो, तो भी जादू चल जायगा। मन खाली है तो बाजार की झनेका-लेक चीजों का निमन्त्रण उस तक पहुँच जायगा। कहीं हुई उस दक्ष लेक भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लौँ, वह भी लौँ। सभी सामाज ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की लघारी उत्तरी कि पता चलता है कि फैस्ती-चीजों की बहुतायत आराम में सदृश नहीं देती, बल्कि खलखल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वामिमान को ज़रूर

सेंक मिल जाता है। पर इससे अभिमान की गिरफ्ती को और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी?

पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा-सा उपाय है। वह यह कि बाज़ार जाओ तो मन खाली न हो। मन खाली हो, तब बाज़ार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला-का-फैला ही रह जायगा। तब वह धाव बिक्कुल नहीं दे सकेगा, बस्ति कुछ आनन्द ही देगा। तब बाज़ार तुम से कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ-न-कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना।

यहाँ एक अन्तर चीम्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भन बन्द रहना चाहिए। जो बन्द हो जायगा, वह शून्य हो जायगा। शून्य होने का अधिकार अस परमात्मा का है जो सनातन भाव से सम्पूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बन्द नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लीये, यह मूठ है। और अगर 'इच्छानिरोधस्तपः' का पेसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप मूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। डाट देकर मन को बन्द कर रखना जब्ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? पेसे क्या लोभ मिट जायगा? और कौन कहता है कि आँख मूटने पर रूप दीखना बन्द हो जायगा? क्या आँख बन्द करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन-भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बन्द कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकार्य है। यह तो हठवाला योग है। शाश्वद हठ-ही-हठ है, योग

नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाय और पीछा और अशक्त जैसे विद्रान् का ज्ञान। वह सुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट् की जगह छुद होता है। इसलिए उसका रोम-रोम झूँदकर बन्द तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिज्ञ हम महाशून्य ही न होते? अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा हसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की कूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है।

पढ़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बैचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने छः आने पैसे से उदादे नहीं कमाये। चूरन उनका आसपास सरनाम है। और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते! क्या कुछ उनके पास न होता! इधर दूस वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों-हाथ जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बैचते हैं। पेशगी आर्दर कोई नहीं लेते। बैंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते-देखते छः आने की कमाई उनकी तो जानी है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन में भी अधिक शायद वह भगतजी के प्रति अपनी सदूभावना का देय देने का उत्सुक रहते हैं। पर छः आने पूरे हुए नहीं कि भगतजी शाकी चूरन बालकों को उपत बाँट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें पच्चीसवाँ पैसा भी दे सके! कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है।

और तो नहीं, लेकिन इतना सुने लिश्चय मालूम होता है कि हर चूरनवाले भगतजी पर बाजार का जादू नहीं खा सकता।

कहीं आप भूल न कर बैठियेगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जो नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचियेगा। यह समझियेगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ यताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उल भोले आदमी को अचर-जान तक भी है या नहीं। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम-आप न जाने कितनी एदी-बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह सो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज़ आदमी हो। लेकिन आप पाठकों को बिडाल् श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है उसपर बाजार का जादू बार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है, और उसका मन आडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख तक माँगता है कि सुनें लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर दशा नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलासता ही छोड़ देता है। पैसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यङ्ग-शक्ति हुब्ब भी चलती होती है? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलउज ही न हो जाती होती?

पैसे की व्यङ्ग-शक्ति की सुनिष्ट। वह दारण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल डालती गिरल गई मोटर। वह क्या निकली मैं रक्खेजे को कौथरी एक कठिन व्यङ्ग की लीक ही आर-से-पार हो गई। जैसे किसी ने आँखों में डंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर, और तुम उससे बचना हो। वह सुर्ख अपनी ऐसी विडम्बना मालूम द्वाती है कि अस पूछिये नहीं। मैं सोचने को ही आता हूँ कि हाथ, ये ही माँ-बाप रह गए थे जिनके यहाँ में जन्म लेने को था! क्यों न मैं मोटरवालों के यहाँ हुआ! उस धर्म में इतनी शक्ति है कि तुम न मैं तुम्हें अपने सभी के प्रति कृतज्ञ कर सकती है।

तैकिन क्या लौकवैभव की यह व्यंजन-शक्ति उस चूरन वाले अकिञ्चित्कर मनुष्य के आगे चूर-चूर होकर ही नहीं रह जाती ? चूर-चूर क्यों, कहो पानी-पानी ।

तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंजन के आगे अजेय ही नहीं रहता, अदिक सानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिछला देता है ?

उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वरतु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव पाण्डापूलता है । वह कुछ अपर जाति का लत्तव है । लोग स्थिरिषुश्रुत कहते हैं; आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं । सुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अन्तर देखूँ और प्रतिपादन करूँ । सुझे शब्द से सरोकार नहीं । मैं विद्वान् नहीं कि शब्दों पर आटकूँ । लेकिन हृतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का दीज नहीं है । बलिक यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर वात की जाय तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्वलता ही प्रगाणित होती है । निर्बल ही धन की ओर सुकता है । वह अवलम्बन है । वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन पर जड़ की विजय है ।

एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दीख गए । सुभेद्रैखते ही उन्होंने जय-जयराम मिथा । मैंने भी जयराम कहा । उनकी आँखें बन्द नहीं थीं और व उस अमर वह बाजार की किसी भाँति कोख रहे मालूम होते थे । राह में बहुत लोग, बहुत आलाक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे । भगत जी ने सबको ही हैंनकर पहचाना । सबका अभिवादन खिला और सबको अभिवादन दिया । इससे तनिक भी वह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक-बाजार में सौकर उनकी आँखें किसी से भी कम सुखी थीं । लेटिन गैंतके तो रहने की जायारी उन्हें नहीं थी । अवधार लें न-रोकें उन्हें नहीं था और जोरें-मे लड़े नहीं वह रह जाते थे । भाँति-सौहिंदे दीपिया भान्द से चौक रहा पर । उस सबके प्रति आप्राप्ति इस भगत के सब में

नहीं है। जैसे उस समूचे माला के प्रति भी उनमन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई इक भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मन, वह चौक-बाजार में से बलते चले जाते हैं। राह में बड़े-बड़े फैसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी पन्सारी की ढुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो-चार अपने काम की चीज़ लीं, और चले आते हैं। बाजार से हठ-पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है; लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक-बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है, जब तक वहाँ जीरा मिलता है। झंखरत-भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर साथ चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा-नमक। वह हस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चाँदनी चौक का आमन्त्रण उन पर वर्धमान होकर बिखर रहता है। चौक की चाँदनी दाएँ-चाएँ भूखी-की-भूखी फैली रह जाती है; क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने-वाली पन्सारी की ढुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। हसके आगे आस-पास अगर चाँदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुरी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं।

वहाँ सुने ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी 'पर्वेजिंग पार्कर' के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विजाशक शक्ति—शैतानी-शक्ति, दयंग की शक्ति ही बाजार की देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दें सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। हस सद्भाव के हास पर आइसी आपस में भाई-

भाईं और सुहृद् और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कांरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। मानो दोनों एक-दूसरे को लगने की धात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दीखता है और यह बाजार का, बल्कि इतिहास का; सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान-प्रदान नहीं होता; बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडम्बना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थ-शास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी (Capitalistic) शास्त्र है। वह अर्थ-शास्त्र अनीति-शास्त्र है।

जड़ की बात

उस रोज़ देखा कि सड़क के किनारे खूप में एक आदमी पड़ा हुआ है। हड्डियों का ढाँचा रह गया है और मिनटों का सेहतान है। चलती सड़क, काफी लोग आ-जा रहे थे। वे उसकी तरफ देखते और बढ़ जाते थे। मैंने भी उसकी तरफ देखा और बढ़ गया।

उस दृश्य पर आने से कुछ पहले उसी सड़क पर मैंने देखा कि एक मोटर चलते-चलते रुकी। उसमें से दो व्यक्ति उतरे और नीचे कुछ देखते हुए पीछे की ओर गये। आखिर कुछ दूर चलने पर एक रुपया उन्हें पड़ा हुआ मिला। वह शाथद उन्हें मोटर से जाते हुए दीखा होगा। उसके लिए ही वे मोटर से उतरे थे।

कल्पना कीजिये कि उस आदमी की जगह तांबे का एक पैसा पड़ा होता, तो क्या उसको पड़ा रहने दिया जाता? जखपती भी होता तो शाथद उसे देखते ही उठा लेता। रुपये की तरफ उन मोटर वालों की सावधानता देखी ही जा सकती है। इसी तरह धन का प्रतिनिधि एक भी सिक्का कहीं पड़ा हो, तो किसी के देखने की देर है कि वह धूल से उठाकर छाती के पास की जेब में रख दिया जाएगा।

लेकिन आदमी की दूसरी बात है। आदमी अरने के लिए आदमी की ओर से हुड़ी पा गया है। कारण, पैसे की कीमत है। आदमी की कीमत नहीं है।

दया आदि की बात छोड़िये। किसी को फुर्रत क्यों कि दया में पड़े? दया का दाचा नहीं हो सकता। मरज़ी है कि दयावान दया घरे। मरज़ी नहीं है तो दया न करने के लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। अर्थात् यह प्रश्न नहीं है कि दया आदमी में क्यों नहीं रही। आप मानते हैं कि किसी के दिल में दया होती तो वह उस अधमरे आदमी का कुछ उपचार करता। परं सुन्दे इससे सन्तोष नहीं है। उस आदमी के उपचार के लिए दयावान व्यक्ति की जरूरत हो और हममें से हर कोई उस तरह के उपचार में सचेष्ट न हो, यह स्थिति ही मेरी चिन्मा का विषय है। इस स्थिति में जरूर कोई बड़ा दोष है। दयालु होने के कारण ही मैं उस गरीब के काम आ लकवा हूँ, समझदारी के कारण नहीं, आज का यही हाल है। उस गरीब को बचाकर क्या होगा? सैकड़ों-हजारों मरते हैं। अजी छोड़ो, अपना काम देखो। इस फेर में लगोगे, इतने कुछ और कमाई का काम ही न कर लो। यह आदमी मर जायगा तो किसी का क्या लुकाना होगा? इससे समझदारी यह है कि दया में न पढ़ा जाय।

यह सच ही है और मैं इससे सहमत हूँ। जहाँ दया और समझ का विरोध हो वहाँ मैं समझ के पक्ष में हूँ। दया कच्ची भावुकता है। समझदारी वह जूमीन है जहाँ पैर टिकता है। हम नहीं माँग सकते कि हर कोई दयावान हो। परं समझदार हर किसी को होना चाहिये। दया में गिरकर लोग फ़कीर हो गये हैं। बर-बाट के नहीं रह गये, बरह-बाट हो गये हैं। कोई भला ऐसे बना है? सब चिगड़े ही हैं। महा-पुरुषता का लचाण गदराई से ऐसे तो दया से चाहिए आदया (गिस्पृहा) न। यह उत्तमी ही पात्रता है जिसमें समझदारी में निरन्तरी है।

मैं आमतः दया का दख्खाई देता हूँ कि दया की प्रेरणा सुन्दे लचाण प्रेरणा नहीं मायूस होती। और अगर उस भूखे, कंकाल इन्सान के बड़ी सुन्दे लंग धूल में पड़े रहने का कारण सिर्फ़ इतना होता कि आदमी में दया नहीं रह गई, तो सुन्दे यह लेख लिखने की प्रवृत्ति न

होती। पर आज तो सुरक्षा इसी पर विस्थय है कि समझदारी हमें यह समझाती मालूम होती है कि हमें, ज़िन्दा आदमियों को, उस मरते हुए प्राणी के अंगठ में नहीं पड़ना चाहिए। समझदार वेशक दयालु नहीं हो सकता। उसे दयालु नहीं होना चाहिए। दया का मतलब अहसान होता है। वेशक अहसान मूठ है। इससे दया भी मूठ है। पर समझ को तो समझदार होना चाहिए और आज का समझदार आदमी अगर अपनी राह चलाता चला जाता है और उसने बाले को सङ्क किनारे पड़ा रहने देता है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी ख़राबी है। उस ख़राबी का नाम दया की कमी नहीं, अर्थात् दया की कमी को अथवा कि उसके अभाव को हम ख़राबी नहीं कह सकते। वह ख़म्म बात है। एक तरह से उचित बात है। नहीं, उससे कोई बहुत बड़ी ख़राबी मैं मानता हूँ। और उसी ख़राबी को पाना चाहता हूँ।

पड़ा पैसा धूल में से हर कोई उठा लेता है। बच्चे को भी कहना नहीं पड़ता, धूल फ़ाइकर वह उसे जेब में रखता है। ज़रूरत नहीं कि हम समझाएँ—‘देखो बेटा, पैसा मिले तो उस पर दया करना, उस विचारे को धूल में पड़ा मत रहने देना।’ यह सब ज़रूरत इसलिए नहीं रहती कि पैसे से उसका हित जुड़ गया है। इसलिए युक्ति स्वाभाविक है कि पैसा दीखे और उसे उठा लिया जाय।

वया साँस लेता आदमी ताँबे के युक्ति पैसे से भी कम कीमती है? मैं चाहता हूँ कि विज्ञानवेत्ता से पूछकर बता सकूँ कि मेरे आदमी तक में से कितना फ़ॉस्फोरस और कितना क्या-क्या मिल सकता है। फिर, मेरे और जीते की तो तुलना क्या। जीतन आदमी में अगणित सम्भावनाएँ हैं। आद्या में क्या नहीं है? हस तरह जब कि मुरदा आदमी भी जाने इतने धन्तगिरी वेसों से ज्यादा कीमती है, तब जीते हृत्सान का तो पूछना क्या?

पर आँखों देखी बात है कि पैसा उठा लिया जाता है; हृत्सान को छोड़ दिया जाता है। उसकी कीमत पैसे की नहीं है। मैं जानना चाहता

हूँ कि यह अवश्य कैसे होने में आया ? क्यों यह ज़रूरी नहीं है कि जैसे पैसे की तरफ प्रीति का हाथ बढ़ता है, वैसे ही बलिक उससे भी अधिक इन्सान की तरफ हमारा प्रेम का हाथ बढ़े ? क्यों यह ज़रूरी है कि आदमी दया की प्रतीक्षा करे और तब तक उस ओर से अपने को अद्भुता बनाए रखे ? क्यों नहीं यह आदमी के स्वार्थ में शामिल हो कि वह दूसरे की मदद करे ? उसे दूसरे की मदद ही क्यों समझा जाय ? पैसे को उठाते हैं, तो यह हम अपनी मदद करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में भी I help myself to it.—यह बाक्य-प्रथोग इन्सान के बारे में नहीं होता। वह मदद दूसरे की है इसलिए दया भाव से ही की जा सकती है—यह बैवधूकी हम में क्यों घर कर गई है ? अगर पैसे को धूँ करने से उठाकर जेब में रखना उस पर उपकार करना नहीं है, तो रोगी को सङ्क पर से उठाकर अस्पताल में रखने में भी उपकार की कहाँ आवश्यकता आ जाती है ? मैं मानता हूँ कि जब तक उपकार और दया की आवश्यकता ऐसे कामों में मानी जायगी, अर्थात् जब तक उन्हें शुद्ध खौलिक हित और समझदारी का काम ही नहीं माना जायगा, तब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। यह हम में से हर एक के लिए स्वाभाविक होना चाहिए कि हम मृतप्राय को जीवनोन्मुख करें। एक आदमी जाता है तो क्या हस्ते मरुष्य जाति को पूँजी कम नहीं होती ?

कहा जायगा कि मृत्यु है और रहेगी। मैं मानता हूँ कि उसे रहना चाहिए। मैं आदमी की अमरता में विश्वास नहीं करता; क्योंकि आत्मा की अमरता में विश्वास करता हूँ। इसलिए सचमुच इस बात पर मुझे दुख नहीं है कि कोई भर जाता है। पर मरने वाला कैसे मरता है, यह विषय मुझे अतिशय चिन्ता का मालूम होता है। हमें हक्क नहीं है कि किसी को ह्रेष से, धूँगा, दोँड़ा या गिरावट से नहो दें। इससे मानव-जाति का बन्धन फ़ड़ा दे। पुरुष भी आदमी इसारी उपेक्षा पर, हमसे तिरस्कार वाकर मरता है, तो वही हमारे माथे पर कलंक का टीका बनता है। सचमुच उस विचार सङ्क के किनारे पड़े आदमी पर दया की ज़रू-

रत नहीं है। वह तो सरकार कुछी पा जायगा, पर के जो अपेक्षे सरकारी दफ्तर हैं और जुँगी-दफ्तर और सभा-समाजों समितियों और महालों में बसने वाले लोग और बोलने वाले गिरा और लिखने वाले लेखक और छापने वाले अखबारी—इन सब पर उत्तर नहीं की ज़रूरत ज़रूर है। वह जो सड़क पर पड़ा है, युद्ध में कुछ नहीं है। वह हम सब अहंसन्यों की अहंसन्यता की आलोचना है, अनुष्ठ पर चर्चा है। वह हमारी शर्म है। जितनी देर वह ज़िन्दा लाश वहाँ पड़ी है, उतना ही हमारा पाप बढ़ता है। उसके पर जाने से वह पाप कायम धोला है।

मानव-जाति की व्यवस्था के काम में करोड़हास-करोड़ रुपया एक जगह जमा होता है और उससे कौज और अचारण, किले, अदालतें, दफ्तर और सरकारें बनती हैं। वह शासन की सत्ताएँ सुधारवस्था के लिए हैं। इसलिए हैं (यानी दोनों चाहिए) कि सब आदमी जिएँ और एक-दूसरे का भला आहे हुए सरे। अर्थात् वे सत्ताएँ आदियों के लिए हैं। सत्ता के लिए आदमी नहीं हैं। पर आज अन्धेर है तो यही कि उस सत्ता की रक्षा के लिए आदमी के अस्तित्व को भाला जाय। आदमी यहाँ इसलिए है कि वह मेरे और सत्ता जिये। वह ईश्वर है कि सत्तावालों की रीटी पके। अर्थात् उनका प्रश्न नहीं है जिनकी सुधारवस्था के लिए सब-कुछ है, बल्कि भानो व्यवस्था (Law and Order) ही वह देवी है जिस पर बलिदान होना चाहिए कि व्यक्ति के सार्थकता है। सरकार ईश्वर है और आदमी उस महाप्रभु (सरकार) का सेवक हीने के लिए है। फलतः सरकारी अमन सब कुछ है और आदियों का मरना-जीना कुछ नहीं है। सुशासन के लिए आदियों को मारा जा सकता है।

यही तो है जहाँ खेरावी है। आदमी एक गिरती हो गया है। वह आत्मा नहीं है, पवित्र नहीं है। उसमें अपने-आपमें कोई कीमत नहीं है। दफ्तर चल रहे हों, और सरकार की मशीन चल रही हो। जब वह चीज़ ठीक चल रही है, तब दो-चार या सौ-हजार आदमी भूखे और

नंगे मर जाँच तो क्या हुआ ? सुशासन की आरती तो अखंड चल रही है, उसका रिकार्ड दफतर में बराबर तैयार हो रहा है। यह जो आदमी सड़क के किनारे पढ़े भिनकते हुए मर रहे हैं, यह तो आपने कर्मों का फल पा रहे हैं। वाकी हमारा बजट देखो, हमारी रिपोर्टें देखो, हमारे कारखाने में चलकर उसका इन्तज़ाम देखो। तब तुम्हारी आँखें खुलेंगी कि सम्यता और उचिति कहाँ पहुँच गई है ! उस घृणित और सड़ी लाश को क्या देखते हो !

हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि क्रीमत आसला को छोड़ गई और नकल पर जा चढ़ी है। आदमी का बचाना आसल प्राण का बचाना है, इसी से वह निष्फल है। और पैसे का बचाना वहाँ सफल है। आज की क्रीमतों की यही सबसे बड़ी आलोचना है। नहीं सवाल है कि तुम्हारी छाती कितनी बड़ी है। सवाल है कि उस पर लटकी तुम्हारी जेव कितनी भरी है। अन्दर से बाती चाहे पिचकी हो और छुट हो और उसमें और किसी के लिए समाहूँ न हो, पर उसको ढकने वाली जेव अगर गर्म है, और चौड़ी है और मोटी है, तो सब ठीक है। नहीं चाहा जाता आज कि तुममें मनुष्यता हो। उसकी जगह तुम्हारे पास धन की पेटी है, तो अच्छा है। अथोल मूल्य आज हमारे डलाटे हैं। हीरा आज फिक रहा है और कौड़ी को बटोरा जा रहा है। तभी तो देखते हैं कि पैसे पर हाथ लपकता है और आदमी पर लात चलती है।

अपर देखा, और वैज्ञानिक सत्य है, कि मुद्रा आदमी भी क्रीमत से खाली नहीं है। लोग मुद्रा हड्डियाँ बटोरते और बाहर भेजते हैं। व्यवसायी उनमें से लाभ लेते और आविष्कारक तथ्य निकालते हैं। विवेकी के हाथ क्या चौड़ा उपयोगी नहीं ? विष्टा भी वहाँ खाद है और गुड़-कर्कट में से काश्च अनहा है। तो भी सड़क पर पढ़े आदमी से उब आँख मोहकर लें गये, जैसे कि उसको लेकर कोई लाभ का स्तो दृष्टि ही नहीं लगता।

मैं कहना चाहता हूँ कि वह स्थिति सदौघ है, जहाँ आदमी को बचाना किसी भाँति लाभ का सौदा नहीं रह जाता। वह लाभ का सौदा नहीं है तभी तो हर कोई आदमी उस तरफ नहीं मुड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे दृश्य हमारे देखने में न आयें, तो कुछ ऐसा प्रबन्ध करना होगा कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी और रोगी को उपचार देना हममें से हरएक के लिए लाभ का सौदा बन जाय। पुरानी क़ीमतें तो बदल गई हैं, क्योंकि ईश्वर बदल गया है। पहले ईश्वर भक्तवत्सल था और दूसरे जनम में नेकी का इनाम मिल जाता था। इससे नेकी हर किसी के लिए लाभ का सौदा था। पर अब सिंहासन पर सरकार है और स्वर्ग-की जगह तरह-तरह की सरकारी पदवियाँ हैं। स्वर्ग नेकी से मिलता था, पर रायवहारुसी धन से मिलती है। ईश्वर औरों की सेवा से खुश होता था, सरकार अपनी सेवा से खुश होती है। इसलिए पहले का लाभ का सौदा अब आकर टोटे का हो गया है। इससे कोई उसके फ़ंसठ में नहीं पड़ता।

ओह, आप मोटर से उतरे हैं; आप रायसाहस्र हैं; अजी आपके कपड़े और शङ्क बतलाती हैं; आहए, आहए, घन्घ भाष्य ! तशरीफ़ लाइए, और तुम हटो, निकलो ! ये दामीले कपड़े लेकर कहाँ तुम्हें चले आ रहे हो ? क्या—? बीमार ! सदक !—तो मैं क्या जानूँ, उस ग़रीब को उठाने में कपड़े मेरे खराब होंगे। बस, बस, बको मत; चलो, हटो !

हमारा व्यधहार ऊपर के मानिन्द है। और उससे देखा जा सकता है कि मनुष्य के लिए मनुष्यता लाभ का सौदा नहीं है, बल्कि किसी क़दर अमनुष्यता इस वक्त सौदा है।

क्या कहा ? आप नेकी की और उसके नेक फल की और ईश्वर की और जगत् की भलाई की बात करते हैं ? आप भोले हैं। आप ख़बाब में रहते हैं। युग दुष्क्रियाद का है और आप में दुष्क्रि नहीं है। आप भावुकता के कारण आप सीधी उत्तिकी सधक पर

से हटकर किसी सेवा-बेवा के चक्कर में पड़ना चाहते हैं तो पछिए। पर हम बताते हैं कि वह लाभ का सौदा नहीं है।

और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब-तक हमारे मानसिक और सासागिक मूल्य ऐसे नहीं हो जायेंगे कि आदमी का लाभालाभ ही मनुष्यता के पैमाने में गापा जाय, अर्थात् जब-तक आदमी धन से नापा जायगा, धन से नहीं, तब तक हमारी जड़जा और गलानि के दश्य हमारी आँखों के सामने आते ही रहेंगे।

वह आलीशान म्युनिसिपैलिटी की हमारत खड़ी है। उसके चारों तरफ बगीचा है और सुलिस के सन्तरी हैं। लेकिन उसके बाद मरभुखों की पाँव अपने दारिद्र्य और अपने मैल को खोले पड़ी है। म्युनिसि-पैलिटी के महल के लिए क्या यह दश्य कलंक का नहीं है? और हम म्युनिसिपैलिटी के उस मेम्बर को सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो सबसे अच्छे कपड़े पहनता और सबसे अच्छा बोलता है। नगर-पिता हम उसे बनाते हैं, जो सेवा की बकवास करता है कि सेवा का काम न करना पड़े।

पर सच यह है कि मनुष्य का लाभ मनुष्यता का लाभ ही है। इससे वह कुछ भी लाभ का सौदा नहीं है, जिससे मनुष्यता की पूँजी लुटती है। इस बात से आँख बचाकर जो लाभ के सौदे के फेर में पड़े हैं, वे अपने को भुलावा दे रहे हैं। वह दिन आने वाला है कि हम देखेंगे संचित धन आदमी का गौरव नहीं, वह आदमी का कोड़ है। और मालदार बनने की इच्छा मनुष्यता की निधि में नक्कल लगाकर चोरी करने की इच्छा से कम या भिन्न नहीं है। आज हम अपने लाभ को दूसरे के अलाभ में देखते हैं। हथारी जेव में जो आता है वह दूसरे ही की जेव में से तो आता है। किसी को दरिद्र रखे या अनाए बिना हम मालदार इह या बन नहीं सकते। निषट दरिद्रता की तस्वीर से हम डरते हैं; तो अपनी धनाव्यता की आंकड़ा से ज्ञामें डरना होगा। नहीं तो अपने ही रोग का दूसरा पहलू हमारी आँखों के आगे आने से बच

नहीं सकता। धनी धन में बद्द नहीं हो सकता। और कितना भी बद्द रहे, अपनी आत्मा के दैन्य के आलुभव से वह नहीं छूट सकता। आदमी लाचार है कि मेरे और लाचार है कि जाने कि धन साथ नहीं जाता। इसी तरह वह लाचार है कि पाये कि धन बटोरना बखेड़ा ही बटोरना है और एक जगह धन का हृकटा होना शरीर में खून के हृकटा होकर गिर्लटी बनने के समान है।

तो भी हम अम को पोलते हैं। क्योंकि चारों ओर से उसकी सुविधा है। आसपास हमारे सब के मनों में सोने की छुट्टी बस गई है। उससे आदमी को नापा जाता है। हममें उस रोग का शीज है ही। पढ़ौसी से अपने को बढ़कर मान सकें, तभी हमें सुख मिलता है। अपने को घटकर मानने को लाचार हैं, यही दुःख का कारण है। बस, इस तरह मेरे-तेरे की तराजू में हम लटके रहते हैं। वह तराजू है ही राग-द्वैष की। उसकी छरड़ी अहंकार के हाथ में है। उसके बाट सोने-चाँदी के हैं। और बस, उन्हीं बाटों पर अपना लाभाकाभ तोलकर हम चला करते हैं। पर तराजू ही वह खोटी है। क्योंकि मेरा-तेरा ही गलत है। पढ़ौसी से बड़ा अनकर जो सुख मैंने माना है, वह सुख मेरे हाथ में कहाँ, वह तो पढ़ौसी की मुट्ठी में है। अपने को वह छोटा न माने तो मेरे बड़प्पन का सुख भी किरकिरा हो जाता है। इससे मेरा अलग सुख तो पढ़ौसी को सुखी बनाने में है। क्योंकि यह सुख मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। इस ढंग से देखने पर जो जितना लाभ का सौदा समझा जाता है, वह उतना ही तुकसान का हो जाता है। क्योंकि अहंकार का फूलना आत्मा का छीण क्षीना है। अभिमान आत्मा का शत्रु ठहरा। धन अभिमान की गाँठ है। धन की छुनियाँ में सबसे बड़ा सत्य इज़ज़त है जो कि खुद झूठ है। इज़ज़त में तुलनात्मक भाव है। मेरी नाक ऊँची होने का मतलब ही यह है कि वह दूसरे से ऊँची है। संसार ऐसे ही चलता है। पर मुक्ति ऐसे थोड़े ही मिलती है।

मैं मानता हूँ कि परस्पर की सहायता की भलाई की कोटि से

उत्तर कर स्वभाव की कोटि तक हमें लाना होगा। भलाई मानो एक आनिरुद्ध वस्तु है। मानो वह कोई उपकार है। यानी हम उस पर गर्व कर सकते हैं। पर, यह तो दड़ी भारी शूल है। मैं जानता हूँ कि अभिमान को जो उससे एक प्रकार की सेंक मिलती है, उसके कारण बहुधा उपकार कर्म किया जाता है। इसीलिए मैं यह कहता भी हूँ कि भला काके दूसरे से ज्यादा हम अपना भला करते हैं। हससे भलाई का श्रेष्ठ कैसा ?

शुरू में मैंने यही बात उठाई थी कि भलाई जब तक हमसे दूर की वस्तु रहेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। हमसे से अपने को भला आदमी कहने को शायद ही कोई तैयार हो। पर समझदार अपने को सब मानते हैं। हम सब स्वार्थी हैं कि नहीं, अपना नका-नुकसान देखते हैं। हम सब समझदारी में समान हैं। मैं यही कहता चाहता था कि जिसको जैकी कहकर सामान्य से ऊँची कोटि दी जाती है, वह समझदारी (Common-Sense) की बात होनी चाहिये। अर्थात् सामान्य बुद्धि की दृष्टि से नेकी का काम हमारे लिए लाभ का सौदा भी होना चाहिये।

यहाँ आकर मैं मानव-समाज के व्यवस्थापकों को दीप देता हूँ। वे इन प्रकृत मानवीय मूल्यों के विकास में सहायक नहीं हो रहे हैं। वे जिस दृंश में अपने को शासक मानते हैं और सेवक की भाँति व्यवहार नहीं करते हैं, उनने ही अंश में बे सदोष हैं। उनने ही अंश में वे सूठी लीभर्टों को भजदूत करते हैं और असली लीलरों को उभरने से रोकते हैं। वे हमारा को हमारा बनने की ओर ब्रेझियर्स तरते, बहिरु उसमें बड़ा बनने, कँचा और अमीर बनने की तालिसा पैदा करते हैं।

मैं मानता हूँ कि आदमी में आदमी के प्रति जो कुत्सा, ईर्षा, उपेक्षा और अधघेलना के भाव देसने में आते हैं, वे बद्रतः इसी आहंप्रेरित अद्विन-व्यनि के दातान उन्हें के दातान बनते हैं। इन्हाँ अधिकारी उसी पर लट्ठी हत्ता हैं। अद्विन्यों में आदमी की दृक्षि की गूल थे नन्हे

करने में शासन-सत्ता का हित नहीं है। इससे जनता के प्रेरणा से उसे डर लगता है, क्योंकि जनता का अनैक्य शासन का समर्थन है। शासन का मन्त्र है, भेद डालो और राज करो। जन-दमाज़ में शेषियाँ डाल कर शासन चलाया जाता है। ऊँच और नीच, आगेर और गरीब, इस तरह के भेद सत्ता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि उस भेद के कारण सत्ता अनिवार्य बनती है। दो लड़ें तो वीच-बचाव का काम हाथ में लेने के लिए तीसरा आ दी जाता है।

इसी से हितों की अनेकता पैदा करके शासन-सत्ताएँ मञ्चवृत बनती हैं। सब को अपने-अपने स्वार्थ की पड़ती है। इस स्वार्थ की वृत्ति को गहरा करके भाजन-जाति के व्यवस्थापक अपनी कुर्सी को निश्चन्त बनाते हैं। पर यह भी निश्चित है कि इस तरह यह अपनी कुर्सी को कालंकित करते हैं। भेद पर बली व्यवस्था टिकने वाली नहीं। आदमी के भीतर स्वार्थ है तो निस्वार्थता भी है। बाची स्वार्थी आदमी में ही यह ग्रतीति नियास करती है कि दूसरे की हानि पर पल्ले वाला स्वार्थ मेरा सच्चा स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ मेरा ही वह है जो दूसरे के स्वार्थ के साथ अभिन्न है।

इस तरह यह हालात बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है कि लोग सड़क के किनारे पढ़े जीते कंकाल को देखते हुए निश्च जाँचें। जल्दी वह समय आ जायगा कि जब अपने व्यवस्थापकों से हम पूछेंगे कि क्यों तुमसे इतनी चूक हुई कि वह आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है? तुम हक्कमत के लिए हो, व्यवस्था के लिए नहीं हो। तुमको हाथ का हुनर तो कोई आता नहीं था, तुमको और कामका न जाने कर वह काम सौंपा गया है। पर तुममें यह पुरानी वृ अबतक भौजूद है कि तुम अपने को अफ-सर समझो और उसमें भूल जाओ? ध्यान रहे कि तुम सेवक हो, तुम मालिक के विश्वास को खो नहीं सकते। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसमें चूकते हो, तो जाओ, अपना रास्ता देखो।

आप सोचिये कि जब लड़ाई हो रही हो, तो बालू तो अरवाद

करने वाला आदमी कितना गुनहगार है। ईश्वर की सृष्टि में हर आदमी बालूद के गोले के मानिन्द्र हैं। उसे बरबाद होने दिया जा सकता है; उससे मौत का काम लिया जा सकता है, या उससे जिन्दगी का काम लिया जा सकता है। मनुष्य-जाति के व्यवस्थापकों का न्याय एक दिन इसी तराजू पर किया जायगा कि उन्होंने ईश्वर की पूँजी का क्या बनाया; कितना खोया, कितना कमाया? आदमी-आदमी में जितनी एकता, निस्वार्थता बढ़ेगी वह कमाई है। जितना उनमें अनैक्य और स्वार्थ बढ़ेगा, वह हानि है। अन्त में देखा जायगा कि आदमी का व्यवस्थापकों ने क्या उपयोग किया है? कितनों की सम्भावनाएँ नष्ट होने दीं या प्रस्फुटित होने दीं? कितनों को ईश्वर की समता में लिया जायगा? और कितनों को अवश्य रखा? आदमी के अन्दर कितनी हिंसा (स्वार्थ), को पोषण दिया और कितना उसमें अहिंसा (सेवा) की शक्ति को जगाया?

शक्ति एक शक्ति का पुनर्ज वै। व्यवस्थापक का काम है कि उस शक्ति का अधिकाधिक उपयोग करे। उससे इसी का हिसाब मिला जायगा! यह जो सङ्क पर आदमी पड़ा है—किस हक से उसे वहाँ पड़ा रहने दिया गया है? सदा से तो वह ऐसा न होगा। किसी माँ का वह बेटा होगा, कभी जवान रहा होगा, मन में उमंग और आशा होगी। किसी के लिए उसमें प्रेम होगा। चाहता होगा कि मैं अपने को दे डालूँ।.....वही आज यहाँ क्यों है? उसकी जवानी और उसका प्रेम और उसकी मनुष्यता क्यों हवा में उड़ जाने दी गई? क्यों वह आदमी सफल और सार्थक नहीं हो सका? क्यों वह यहाँ सङ्क पर मनुष्य का तिरस्कार पाकर और शपने मन में मनुष्ण के लिए तिरस्कार शरकर रोग की गाँठ के मानिन्द्र यहाँ पड़ा हुआ है? क्यों जो मैं निहीर्ण वर सकता था धूखा फैला रहा है? कौन उसके मन की जानता है? शायद कोई उससे जितनी धूखा करते हैं, उससे कहीं तीव्र धूखा उनके लिए उसमें है। इस तरह उस पड़े हुए आदमी को केन्द्र घनाकर यह धूखा का चक्र

लाए वायुमण्डल में फैलता जा रहा है। जो प्रीति दखेने के लिए हृष्टवर की ओर से यदौँ आया है, वही आदभी जय नक्षरत की गन्दीली गाँठ बनकर आम सड़क पर पड़ा दृश्या है, तब हमारे व्यवस्थापक कैसी सुध्यवस्था और शासक कैसा शासन कर रहे हैं? क्यों न कहा जाय कि वे कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वस टौग और धौर आड़-उड़ कर रहे हैं!

नये-नये अस्पताल खुल रहे हैं और फरड ही रहे हैं। अच्छा है कि वह सथ हो। पर महाप्रलय और महाघाति का नीज जो वृश्चा है और जिसके कीटाणु उस व्याधि के विषय रोगियों में से फूट कर चारों ओर फैल रहे हैं—उसकी ओर भी किसी का ध्यान है? विलिक मुझे कहने दीजिए कि व्यवस्थापकों के खुद के रवैये से वे कीटाणु बढ़ते और फैलते हैं। व्यवस्थापक अभिमानी है और अभिमान नीची शेरी के आदमी में असन्तोष और द्वेष पैदा करने का कारण होता है। इस तरह व्यवस्थापक अस्वस्थ है और वह अस्वस्थ पैदा करता है।

हम न जानें, पर सभ्यता के वैभव के नीचे यह कीड़ा लगा हुआ है। हम क्या हृधर-उधर की बात करते हैं। छोटे-मोटे रोगों के शमन का उपाय करते हैं। वह करें, पर अपने बीच के उस महारोग को भी तो पहचान लें। वही है जो आदमियों की शक्ति को आपसी सहयोग में समृद्ध नहीं होने देता और आपसी स्पर्धा में वरयाद कर देता है। वही है कि जिससे विषमताएँ पैदा होती हैं; विभाद, कलह, आनदोलन और दुर्दृढ़ पैदा होते हैं, जिसके कारण एक ओर भूख और दूसरी ओर गुश देखने में आता है; जिसके कारण एक रक्त ही तो दूसरा राजा है।

मैंने कहा कि मौत में मुझे भय नहीं। वह तो जरूरी है। पर यदि हमारी व्यवस्था सच्ची हो तो कोई मौत वृश्चा का संघार करने वाली न ही। विलिक वह ग्रेम का संचार वरे। सड़क पर पड़ा आदमी मरेगा तो अपने चारों ओर वृश्चा का एक दलय छोड़ जायगा। वह कटुता के क

जायगा और सबके लिए बदहुआ छोड़ जायगा । मैं मानता हूँ कि वह बदहुआ हमारे सिर हटेगी । न सोचिए कि उसमें शक्ति नहीं है । इतीम ने कहा तो है कि निर्वल को न सताना, कर्त्तोंकि डसकी मोटी हाय है । मुझे खाल की सौस से क्या लोहा भस्म नहीं हो जाता ? और मैं मानता हूँ कि इस जगत् को चलाने वाली मूल शक्ति का नाम प्रेम है । जितनी प्रकार की और शक्तियाँ हैं, सब उसकी रूपान्तर हैं । वही शक्ति आदमी की करनी से रुद्र और जुध द्वारा घृणा बन जाती है । उसको अशक्ति मालना हमारा बड़ा भासी भ्रम है । वह घृणा संघर्षित होकर जाने क्या नहीं कर सकती ? ताज उससे धूख में गिर गये हैं और तछत उल्ट-पुल्ट हो गये हैं । क्रान्ति और नाम किसका है ! आदमी की छाती के भीतर से, जैसे मानो धरती के गर्भ में से, हुंकार भरती हुई जब वह शक्ति उभर कर फूटती है, तब कौन उसके आगे ठिकता है ? इससे न समझा जाय कि प्रभुता की ही सत्ता है, त्रास की सत्ता ही नहीं है । रुँध कर, इकट्ठा होकर वह कभी ऐसे प्रवल और अतक्षर देग से फूटता है कि ठिकाना नहीं ।

शक्ति नष्ट नहीं हीती । नष्ट कुछ नहीं होता । या तो वह उपयोग में आती है, नहीं तो आरो-ओर को खाने हौंडती है । आदमी सबसुच बारूद का गोला है । वह जिन्दगी में अगर करने लायक कुछ नहीं कर जाता, तो न करने लायक यकृत-कुछ कर जाने को वह लाचार है । काम से नहीं तो सोच-विचार से करता है । अह या तो अपने जीवन से प्रकाश देता है या फिर अन्धकार और घृणा कैलाता है । प्रथेक आसफल जीवन अपनी जड़ों आरो छोड़ जाता है, जो मनुष्य-जाति के विकास पर बेही की तरह काम करती है ।

हम भीले तें शगर मानते हैं कि मूलक पर मरने को लुले पहे आदमी से हमारा कोई वारदा नहीं है । इस उम्मीदोंवालीकर या अकर्त्ता है, यह समझना भूख है । अपनरथा न समझता कि उस रुक्षगणे को भूख से मरने के लिए छोड़कर वह स्वर्ग भुरचित रह जाती है । तरा जांचे होकर उसे

मरने के लिए छोड़ दें, पर वह यरकर हम ज़िन्दों को नहीं छोड़ेगा। क्यों कि ईश्वर के कानून में शक्ति नष्ट नहीं होती और उस मरने वाले की छाती में जितनी धूणा भर गई थी, वह भी व्यर्थ होने वाली नहीं है।

धूणा उसी तरह शक्ति है जैसे प्रेम। उलट चला प्रेम धूणा है। दो हजार सरस नहीं हुए कि ईसा मरा। मरना सब की है। पर ईसा की छाती में मरते समय जो प्रेम भरा हुआ था, वह क्या व्यर्थ गया? नहीं, व्यर्थ नहीं गया। ईसाइयत उसी का नहीं तो किसका परिणाम है? ईसा की सृष्टि में से और उसके उपदेश में से और उसके प्रेम में से वह रौ आई कि मनुष्यता मिलती चली गई और सत्ताएँ उखड़ती चली गईं।

हम कहते हैं कि ईसा की मृत्यु आदर्श थी। विचारा सङ्क पर मरने वाला क्या यातना पायेगा उसके मुकाबले जो कि ईसा ने पाई। किर भी ईसा की मृत्यु आदर्श थी और उस मुखमरे की मृत्यु कलंक होगी। कारण, मरते समय ईसा की आत्मा में से मुहार छूट रहे थे, उधर वह आवारा मरेगा तो उसमें से धूणा के छींटे ही चारों ओर उड़ रहे होंगे।

मैं चाहता हूँ कि इसी बात को हम पहचानें। सङ्क पर पड़े उस पिखारी को उपकार के स्वयाज से बचाने के लिए हम न ठहरें। अलिक देखें कि वह तो आग है, जिससे हमारा दामन बढ़ा नहीं रह सकता। आग ठहरे तो सब भस्म हो जायगा। हस्से हम खुद बचें नहीं, न व्यवस्थापक को बचाने दें। व्यवस्थापक हमारा भूला है। दफ्तर की काइजों में वह अपने दिल को खो बैठा है। हमारा काम है कि हम उसको चेताएँ। कहें कि ओ दफ्तर के मेरे भाई, तुम्हारा कलंक सङ्क पर पड़ा हुआ तुम्हारी शर्म को उघाव रहा है। और नहीं, तो अपनी शर्म को टक्के का गञ्च लो करो। कहाँ है तुम्हारा अस्पताल और मन्दिर नन्द यादी? तौरन मेजो और फौरन दूस्तज्ञाम करो। काइल थोड़ी दूर के लिए छोड़ दी।

इस अपने घर में लगी आग को बुझाने में एक मिनट दे दोगे तो फिर पीछे तुम्हीं चैन से रहोगे। नहीं दोगे तो फ्राइलों-समेत अपने घर में ही तुम जल सरोगी।

जो वृणा और अपमान की आग से कुँक रहा है, उसको बुझाने में देर करना उस आग को ब्यौता देना है। इसमें उपकार की बात नहीं है, एकदम स्वार्थ की बात है। सङ्केत पर पड़े पैसे को उठा लेने में एक जगह हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ हमारा स्वार्थ है। पर उससे कहीं धनिष्ठ स्वार्थ सङ्केत पर पड़े आदमी के साथ हमारा वाबस्ता है। एक बार पैसे को तो न भी उठाएँ, पर आदमी को तो उठाने की सोचना ही पड़ेगा।

मैं व्यक्ति की दिक्षकृतें जानता हूँ। व्यवस्था का द्वितीयांश है। काम वहाँ का दफ्तरी है। व्यक्ति की सद्भावना का असर वहाँ नहीं पड़ता, या बहुत देर से पड़ता है। अकेले आप उस ज़िन्दा जाश को कैसे उठाइए? मदह किसकी लीजिए? ऐसुखेन्स कहाँ से मँगाइए? अस्पताल की परेशानियाँ और ज़िल्हत कहाँ तक केलिए? इत्यादि। और यह सब सोचकर मानो मन पर पथर रखकर आप उस जीवित मौत को देखते हुए निकल जाते हैं। और हैल्थ-अफसर या सिविल सर्जन या और अधिकारी व्यवस्थापक इधर से गुज़रते हैं, तो अधिक सम्भव तो यह है कि वह मोटर में गुज़रे और किसी अश्विकर दश्य के क्षिण खाली ही न हों। या आँखों वह दश्य पड़ भी पाय तो उनके संवेदन को कूँन सके—क्योंकि वह आदमी सशकारी है।

पर मैं नहीं जानता कि बिना कष्ट उठाए कोई आग कैसे बुझ सकती है। यह सही है कि कष्ट उसी की उठाना पड़ेगा कि जिस की आँख आग देखती है और जिसका मन उसकी भुखस पाला है। और जिसको भुलस लगती है वह अपनी खातिर कष्ट उठाएगा ही। वह किर उत्कार और दशा धारि की बातों के लिए खाली ही कहाँ रहेगा?

पर जो कहना है वह यह कि व्यवस्था अव्यवस्थित है और शासन

बहु अष्ट है कि जहाँ ऐने दृश्य मिलते हैं। व्यवस्थापक और शासक अगर पहले इस तरफ़ ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपनी-अपनी तनखाहों और भत्तों की आर उन्हें उससे पहले सूझती है, तो वे अपने अधिकार के पात्र नहीं।

पैसा : कमाई और भिखाई

हमारे घरों से यच्चा कभी पड़ने के बजाय खेलता है तो श्रीमती गुस्से में आकर कहती है “दुष्ट, पड़ता क्यों नहीं है ?” वही गुस्सा स्थायी होने पर दुश्चिन्ता का रूप ले लेता है। तब माँ कहती है, “मेरा क्या, खेलता रह, ऐसे तू ही आगे भीख माँगता फिरेगा। पढ़ेगा-लिखेगा तो हाकिम बनेगा, नहीं तो दर-दर भटकेगा।”

लड़का भीख माँगते या पढ़-लिखकर अफ़सरी करने के आनंद को न समझता हुआ भरता कर कह देता है कि “हाँ, हम माँगेंगे भीख !”

माँ कहती है, “हाँ, भीख ही तो माँगेगा। इन लाच्छों और तुम्हसे क्या होगा ? बेशरम, बेशज्जर, हुष्ट !!” साथ दो एक चपत भी यच्चे की कनपटी पर रख देती हैं।

इस पर बालक का नियम बँधा हुआ नहीं है कि वह क्या करेगा। कभी रोकर बस्ते में सुँह डालकर बैठ जायगा, तो कभी सुँह उठाकर चलता बनेगा और बस्ते को हाथ न लगायेगा। कभी विरोध में भाग कर धूप में और भी जोर-जोर से गुच्छी-डण्डा लेता लग जायगा। और कभी “आपाथ, उसके मन का टिकाना नहीं है।

आइये उस भिखमंगे की यात्रा को ही कहाँ सलाह दिल्लीके होने की सम्भावना से माँ जरनी और नाज़क की डराती है। उस दिन अखबार में पढ़ा कि एक प्रादूरी पकड़ यात्रा। वह येरह-तरह के किसी कहकर

स्टेशन पर यात्रियों से माँगा करता था। ज़रुर उसमें अभिनव की कुशलता होगी। विद्यार्थी अपने की कहता था, तो विद्यार्थी लगता भी होगा। इसी तरह अनाथ बालक, संकटापन्न पिता, भटका यात्री, सम्भान्त नागरिक आदि-आदि बताकर सुना गया कि वह हर रोज खासी 'कमाई' कर लेता था। उसके डेरे पर पाँच हज़ार की जमा मिली।

बहु ऐसे पाँच हज़ार जमा कर पाया। सुनते हैं दस-बारह वर्षों से वह यह व्यापार कर रहा था।

हमारे पड़ोसी ने पाँच वर्ष व्यापार किया और ढाई लाख रुपया पैदा किया।

पर भिखारी जेल में है और पड़ोसी लाला रायबहादुर है। कारण, भिखारी की कमाई कमाई न थी और लाला की कमाई कमाई है। भिखारी ने ठगा और लाला ने कमाया। तभी पहला कैदी है और लाला मजिस्ट्रेट की कुरसी पर है। यानी भीख और कसाई में फ़र्क है।

अगर हाथ फैलाने वाले ने अपने पीछे कुछ जोड़ रखा है, तो उसका हाथ फैलाना धोखा देना है। तब कानून उसे देखेगा।

सज्जा मिलने पर जब हम ऐसे आदमी के बारे में सोचते हैं, तो दया नहीं होती, गुस्सा आता है। हम उसे धूर्त (दूसरे शब्दों में, चतुर) मानते हैं। हमें उत्सुकता होती है कि जाने उसने कैसे हृतना रुपया जमा कर लिया होगा। बदमाश अच्छा हुआ पकड़ा गया और सज्जा मिली। हो सकता है कि उसकी सज्जा पर हमारे सन्तोष का कारण यह हो कि हमारी भरी जेब पर से हस तरह एक खतरा दूर हुआ। और कुँफ़लाहट का यह कारण हो सकता है कि पाँच हज़ार रुपये उसके पास क्यों पहुँचे, जो कहीं हमारे पास आते।

अब दूसरे भिखारी की कल्पना कीजिए जो सचमुच असहाय है। जितने दाने उसके हाथ पर आप डाल देंगे, उतने से ही वह अपनी भूख मिटाने को लाभार है। इस आदमी को पकड़ने के लिए कानून का सिपाही कष्ट नहीं करता; क्योंकि आसानी से लात-घूँसे मारकर या

मनुष्यता हुई तो धेला-पैसा फेंककर उते अपने से टाका जा सकता है।

अब मन की सब बात कहिए। वह चतुर ठग और वह निपट खिलारी, दोनों में आपको कौन कैसा लगता है? चतुराह के लिए आप एक को जेल होंगे और सोहलावपन के लिए दूसरे को दवा। यानी एक की व्यवस्था करेंगे, दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ेंगे। सब पूछिए तो दीन खिलारी से आपको कष्ट और असीर खिलारी से आपको गुस्सा होता है। अर्थात् जो डगी से आपनी सहायता कर लेता है, वह आपको दाहम आदमी मालूम होता है। पर जो उतना भी नहीं कर सकता और निपट आपकी दवा पर निर्भर हो रहता है, वह आपकी आँखों में उससे गया-बीता है। मालूम हो जाय कि यह जो सामने आपके हाथ फैला रहा है, झोली में उसी के हजार रुपये हैं, तो आप उसे शौर से देखेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे। अपनी कज्जा से उसे एकदम अलग और तुच्छ नहीं मानेंगे।

पर वह खिलारी जो काया से सूखा है और पेट का भूखा, आप चाहेंगे कि वह आपकी आँखों के आगे पह ही जाग, तो गलड़ी-से-जलड़ी दूर भी हो जाय। आप यथाशीघ्र पैसा फेंककर या रमता आटकर उससे अपने को निर्धनक बना लेना चाहेंगे। अर्थात् रङ्ग-रुद के खिलारी को आप सह सकते हैं, सचमुच के खिलारी को नहीं सह सकते। दूसरा हमें अपनी ही लज्जा मालूम होता है।

अब एक बात तो साक है। वह यह कि पैसा चाहिए। पेट को अन्न चाहिए और अन्न यथापि धरती और मिहनत पर होता है, पर मिलता वह पैसे से है। पैसा पहना नहीं जाता, खाया नहीं जाता, उससे किसी का कुछ भी काम नहीं निकलता। तो भी हर एक को हर काम के लिए चाहिए पैसा ही। यानी पैसे में जो ताँबा है, उसे खाओ तो चाहे वह किसी कदर ज़हर ही सावित हो, फिर भी पैसे की कीमत है। ऐसा इसलिए कि वह कीमत उस (ताँबे) की नहीं, हमारी है। हमने वह कीमत दी है, इससे हम तक और हम पर दी नह आगढ़ है।

पैसा क्या रुपया केंकिए कुत्ते के आगे, वह उसे सूंवेगा भी नहीं। शोटी डालिए, तो आपकी इस उदारता के लिए जाने कितनी देर तक अपनी पूँछ हिलाता रहेगा। यानी, कर्जी के सिवा शोटी से अधिक पैसे में मूल्य नहीं है।

पैसे के मूल्य को हम कैसे बनाते हैं और हमीं उसे कैसे थामते हैं, यह एक दिलचस्प विषय है। लोग कहेंगे 'आर्थ-शास्त्र' का, पर ऐसे पूछिए तो यह काम-शास्त्र का विषय है। काम का अर्थ यहाँ कामना विद्या जाय। कामना के बारे व्यक्ति चलता है। इस तरह पैसा अलग मानव-शास्त्र का विषय है। व्यक्ति के मानस से अलग लोंबे के पैसे की अठखेलियों को समझना विजली के बटन से अलग उसके विशाग को समझने जैसा होगा। कठपुतली खेल कर रही है, बाच-कूद दिखाती है, पर पीछे डसका तार थमा है बाजीगर की डॅगलियों में। पर वह तार हमें दीखता नहीं, बाजीगर दुष्करा है और सामने कठपुतलियों का तमाशा दीखता है। यद्यपै तमाशे में मगन होते हैं, पर समझदार तमाशा देखने या दिखाने के लिए कठपुतलियों से नहीं बाजीगर से बात करेंगे। पैसे के बारे में भी यही मानना चाहिए। उसका व्यापार आदमी के मन के व्यापार से दैरे ही दूर है, जैसे आदमी की डॅगली से कठपुतली या विजली के बटन से लट्टू दूर है। यीथ का तार दिखता नहीं है; इसलिए वह और भी अभिज्ञ भाव से है, यह अद्वा रखनी चाहिए।

पर कहीं यह अर्थ को लेकर अनर्थ व्यापार न समझा जाय। हम शास्त्रीय अर्थ नहीं जानते। किन्तु देखा है कि अर्थ-शास्त्र सीखने वाला उस अर्थ-शास्त्र को सिखाने वाला ही बनता है। उस शास्त्र-ज्ञान के कामण कभी अर्थ-स्वामी तो बनता दृश्या वह पाया नहीं गया। अपने अर्थ-शास्त्र को पढ़वाने के लिए ऊपर का अर्थ-स्वामी ही अर्थ-शास्त्रियों को अपने अर्थ में से बेतन देने का काम ज़रूर करता रहता है। इससे प्रकट होता है कि अर्थ का भेद अर्थ-शास्त्र में नहीं है, अन्यन्त है।

थोड़ी देर के लिए पैसे का पीछा कीजिए। इस हाथ से उस हाथ, उस दूसरे से किर तीवरे, किर चौथे, इस तरह पैसा चक्कर काटता है। उस बेचारे के भाग्य में चक्राना ही है। कहीं वह बैठा कि खोग कहोंगे कि क्यों ऐ, तू बैठा क्यों है, चल, अपना रास्ता नाप। किन्तु पैसे को अपनी यात्रा में तरह-तरह के जीव भिजते हैं। युह उसे छाती से चिपटा-कर कहता है कि हाथ-हाय, मेरे पैसे को छोड़ो मत, मेरी छाती के नीचे उसे सोने दो।

पर, पैसे बेचारे की क्रिस्तमत में आशम बढ़ा हो तो सभी कुछ न रुक जाय। इससे यदि उन प्रेमी का प्रेम दैसे की काया को छोड़ना नहीं चाहता तो उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। यह तो बही बात है कि खून हमारे अद्वन में दौड़ रहा है और कोई अबगय कहते लगे कि सू कहाँ जाता है, यहीं मेरे पास रुक जा। फोड़े जो अद्वन में हो जाया करते हैं, सो क्यों? किसी खाल जगह खून की गर्दिशा ठीक नहीं होती, इसी बजह से तो। यह छुदा बात है कि फोड़े भी होते असल में शरीर की स्वास्थ्य-इच्छा के निमित्त हैं। ऐसे ही कौन जाने, समाज के शरीर में कंचन की काया के प्रेमी भी किसी अच्छाई के निमित्त बनते हों। पर फोड़ा फूटता है, और कंचन-धेन भी फूटता ही है। ऐसे, पैसा बीच में थककर बेचारा सर्द सोने को रुके, तो बात दूसरी; वैसे किसी के आलिंगन में गाढ़ी नींद सोने की उसे इजाजत नहीं है। इस निरन्तर चक्कर से बेचारा पैसा घिस जाता है, मूरत और हरुक उस पर नहीं दीखते, तब मुँह छिपा-कर जहाँ से आया वहीं पहुँचता है कि फिर उसे धुनर्जन्म मिले।

आभी थोड़े दिन पहले रात्रि का रुपथा बिंच गया। आब आपकी गाड़ी के नीचे कोई रात्रि का शिशंका गोया मिल जाय, तो क्या आप समझते हीं कि रात्रि आमे को छोड़े पूँजी? अबी, राम का नाम लीजिए। सिंधके में झीमत लाये भी। ऐसे दासी गई थी वैसे वह क्रीमत खींच ली गई। अब रात्रि के सिंधके काम हीं, उनठन गुपाज है। बस मूरत देखिए और मन भारिए।

इस पैसे की यात्रा का वर्णन कोई कर सके, तो वहाँ अच्छा हो। शास्त्रीय प्रतिषादन नहीं, वह तो आडम्बर है और बेजान है। वर्णन, जैसे कि आपनी यात्रा का हम करते हैं; यानी, सचित्र और जीवन की भाषा में। मैं भावता हूँ कि पैसे के तथ्य का किसी को यदि अनुभव हो और उसके पास कल्पना भी हो, तो वह पैसे की असलियत पर एक अत्यन्त सुन्दर उपन्यास हमें दे सकता है। पर पैसे के साथ हुआग्रहण खागा है। वह कमशुल्क है शक्ति। जिसने भी उस शक्ति को समझा, वही उस शक्ति को बटोरने में लग गया। अब कहा जायगा कि इस जीवन में शक्ति का संग्रह भी न किया जाय तो आखिर किया क्या जाय? कुछ कहेंगे, धर्म का संग्रह किया जाय। और सच ही कुछ जैसे सामाजिक बटोरते हैं वैसे पुण्य भी बटोरते देखे जाते हैं। पर हाय, धर्म का संग्रह ही किया जा सकता, तो क्या बात थी! तब क्षमिता जटी न बनाकर गोदाम बसाते। और, वह तो स्वर्ण की जगह श्वास के संग्रह के उपदेश जैसा है। अर्थात् अपने दो लुटाओ, इसी में धर्म का अर्जन है। अब इस बात को काहूँ कैसे समझे और कैसे समझाए?... पैसा झरते बिना कभी जुड़ता है? और जो हपथा लोड सकता है, वही अशारकी जोड़ सकता है। यह क्या हम रोज़ आँखों नहीं देखते कि जिसकी जहाँ सुट्टी बँधी कि वह सुट्टी उतनी ही भर रह गई। हपथे पर सुट्टी लाने के लिए पैसे पर उसे नहीं बँधने देना होगा। अर्थात् लाखों की कमाई हजारों लगाए (गँवाए) बिना न होगी। इसी तरह धर्म की कमाई धन उजाड़े बिना न होगी। बात यह है कि धर्म है प्रीति और प्रीति और शक्ति में शत्रुता है। शक्ति के ज्ञार से और सब हो जाय, प्रीति नहीं होती। इसलिए जो प्रीति कमाए, वह शक्ति खो दे।

पर यह मैं क्या कह चला? कह रहा था कि पैसे का उपन्यासकार चाहिए। वह पैसे की काया पर न रीके। न उसकी शक्ति पर जूझे। बल्कि उसके सत्य में ही वह तो अपनी आँख रखे। पैसे की शक्ति जित-काहूँ तो भला क्या जतलाया? वह तो भावा बतलानी हुई। उस

पैसे की अकिञ्चित्करता दिखलाई जा सकेगी, तभी मानो उसकी सत्यता प्रमाण होगी। वैसे कि आदमी प्रेम में अपने को खोकर पाता है, वैसे ही लिकमा दिखलाकर पैसे के असली मूल्य को पहचाना और बताया जा सकेगा।

मेरे हाथ में मानिए कि रूपये का एक नया सिक्का आया। वह कहाँ से आया? मैंने कुछ मिहनत की, उस मिहनत का किसी के अर्थ में उपयोग हुआ। उपयोग के रास्ते मेरी मिहनत में से अपना रूपया, और ऊपर से कुछ और भी अतिरिक्त, पाने की उन्हें उम्मीद है। इसलिए अपनी मिहनत का फल उन्हें देकर वह रूपया ऐवं पा लिया। अब आता हूँ पर। वहाँ श्रीमती जी बोलीं कि माथे की बिन्दी को कब से कह रही हूँ, जाये? शानी आगले दिन मेरे हाथ से वह सिक्का बिन्दी बाले के यहाँ पहुँच जाता है।...इसी तरह हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वह आदियों की आवश्यकताएँ पूरी करता हुआ परस्पर के आदान-प्रदान का काम चलाता है।

अब परस्पर का आदान-प्रदान पैसे के माध्यम से होता है, पैसे के उद्देश्य से नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति अपने सर्वस्व का दान कर देता है। प्रेम वह है, जहाँ देने के जवाब में लेने की भावना ही नहीं। अर्थात् मैं वहाँ चांदी के एक सिक्के की खात कर रहा हूँ; प्रेम के जण में लाखों निन्द्रावास कर दिये गये हैं। अर्थात् पैसा जो यहाँ से वहाँ वृमता किर रहा है, वह अपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे मन की ताकत से। यह नहीं कि भन में ताकत नहीं है। ताकत तो है, पर ऐसा के हँजन-सी ताकत है। अब हँजन क्या अपने-आप चलता-फिरता है? यह कहना कि पटरी पर हँजन चलता है, ठीक है। पर हिन्दुस्तान की रेलों का हूँतज्जाम जिन सरकारी सेवाओं साथ के ऊपर है, सैकड़ों-हजारों हँजन और उनके चलावे बाले और उनके कठा-पुर्जे गम्भीरनाले अपनी हरकत के लिए उनके हशारे हैं। और वह नेश्वा लदात्यभ दृग्गिर पर नहीं, बल्कि कुछ और ही गहरी नद्द पर निगाह रखते हैं। पर....सबसी गाड़ियाँ और

मालगाड़ियाँ जाने कितने न हजार लाख टन सामान और इन्सान की खींचती हुई दिन-रात इधर से उधर आ जा रही हैं। अपने दफ्तर में बैठे मेम्बर महाशय की कथा कहिए, उस रोज़ उनसे डबल वज़न का आदमी इंजन के नीचे आ गया था। उसका द्वाल अपनी आँखों कथा आपने देखा नहीं था? अजी, आदमी और आदमियत का तो वहाँ पता-निशान बाही नहीं रह गया था, यहाँ-वहाँ बिसरा मांस ही दीखता था।...हाँ यह है, पर दूसरी बात भी है। इंजन की ताकत सच है, पर उन मेम्बर साहब की ताकत उस सच का भी अंदरूनी सच है। उन्हीं की कलम लो थी जिससे यात्रा इंजन बेचारे बच्चे में बन्द होकर बिलायत से हिन्दुस्तान लड़े चले आये और चालीस इंजन, जो मानते थे कि हम में अभी सिसकने लायक कुछ जान है, उनकी एक न सुनी गई और अंजर-पंजर तोड़कर उन्हें लोहे के देर पर फेंक दिया गया।

चाँदी का सिक्का जैसा सच है, लोहे का इंजन भी बैसा ही सच है। फर्क हटना ही है कि सिक्का छोटा और हल्का होने से सचाई में इंजन की विस्थित बड़ा और भारी है। इंजन इटना बोलता है कि उसी से वह सचाई में हल्का है। तभी तो चाँदी के रूपये और सोने की मोहर से काशी नोट कीमती होता है। कारण, बड़े चाँदी-सोने से हल्का की ओर सटी वस्तु काग़ज का बना है। अर्थात् नोट में आपनी असलियत उतनी भी नहीं है, जितनी सिक्के में है। लगभग आपनी ओर से वह शून्य है। हम उसमें डाकते हैं तभी कीमत की सचाई उसमें पड़ती है। इसलिए जैसे-जैसे उन्नति होगी, काशी की सिक्का बढ़ेगा, धातु का सिक्का बेकार होता जायगा। सिक्के में कीमती धातु की ज़रूरत अविश्वास के कारण है। यानी वह भूठी कीमत है। फिर भी वह कीमत इसलिए है कि सच्ची कीमतों का अभी निर्माण नहीं हो पाया है उदाहरण लीजिए, दस्तावेज़। वक्त झूठा है, तभी दस्तावेज़ की सचाई दरकार है; कौल सच्चा हो, तो दस्तावेज़ बेकार हो जाना चाहिये।

इस सबका मतलब यह कि पैसे की कीमत और शक्ति आदमी की

भावना की कीमत और शक्ति से अलग नहीं है। अर्थ-शास्त्र के नियम जीवन-शास्त्र के नियम से भिन्न नहीं हैं। यदि वे भिन्न से लगते हैं तो इस कारण कि मनुष्य ने कामना में अपनी स्वतन्त्रता देखी है, जब कि वह स्वतन्त्रता गिरामता में है। जो वह चाहता है और जिसको सुख का नाम देता है, उसका है उसकी कुंजी 'स्वर्ण' है। जैसे प्यासा हिरन रेगिस्तान पर की लू की फलकलाहट को पानी समझता है। पर स्वर्ण में सुख होता तो स्वर्णधियों के पास वह दिखाई देता। किन्तु पूछकर देखिए। मालूम होगा कि लाख के बालू करोड़ और करोड़ के बाद अरब पर आँख गड़ाए वे भागे जा रहे हैं, तो इसीलिए कि लाख में जो समझा था वह वहाँ नहीं मिला और फिर करोड़ में जो समझा वह करोड़ में भी नहीं मिल रहा है।

हमने ऊपर देख लिया कि सिक्के में अपने आप में दम नहीं है। अगर एक में दम नहीं है, तो करोड़ में भी नहीं ही सकता। जिसमें आन्तरिक कुछ ही ही नहीं, उसके पहाड़-जैसे ढेर में भी कुछ कहाँ से आ जायगा? मरीचिका में कुछ है तो यही कि वह सुगतृणा को प्यासा-का-प्यासा ही रखती है। घन भी जमा होकर अपनी इस सचाई को उजागर कर देता है कि सुझमें अपना कुछ नहीं है। मेरी काया में तुम्हारी ही तृणा भरी है। तुम अपनी ओर से तृणा न डालकर सुझ में कोई हृतसरी भावना डालोगे, तो फिर वह भी मेरी सचाई हो सकेगी। पर तृणा की राह से लोगे, तो सिवाय इस तृणा के मैं तुम्हें और क्या खोया सकूँगा? सुझसे तुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे मुझे प्यार करके भी तुम सुझे कोसते हो। पर कोसो मत, क्योंकि मैं खोखला हूँ। तुम जो भरते हो, उसी से मैं भर जाता हूँ। इससे मैं दूर जागक नहीं हूँ कि सुझसे तुम कुछ चाहो या कुछ ही चाहो। क्योंकि तुम्हारी ही भूखी चाह मैं तुम्हारे आगे कर सकता हूँ। इससे तुम्हें सूख नहीं होता, नहीं होगा। पर तुम मानते हो कि अभी तर्निक परिमाण में कमी है, इससे सुझे और जोड़ते हो। सुझे ही जोड़ते, फिर भी सुझे ही कोसते हो।

मैं बताता हूँ कि मैं अन्दर से रीता हूँ। मेरा सारा देर रीता है। जो तुम चाहते हो, वह मैं हूँ नहीं। मैं उसका द्वारा ही सकता हूँ और प्रार्थना है कि मुझे तुम द्वारा ही समझो, अधिक न समझो। दरवाजे को ही जो तुम मंज़िल समझोगे, तो दरवाज़ा इसमें क्या करेगा? मंज़िल की दरक वह तुम्हें बड़ा सकता है। पर तभी, जब तुम उससे पार जाओ।

आज के ज्ञाने में बुद्धि इसी भूल में पड़ गई है। लिङ्गांक को उसने खत समझा है। इससे खत नहीं पढ़ती, लिङ्गांक की ही देखती समझ भली रह जाती है। इसीसे शाव्वा-विज्ञान बहुत बन गए हैं, और बीच का मेरु-दण्ड सूखते रहने को छोड़ दिया गया है। आनी विद्याएँ बहुत हो गई हैं, पर जो इन सब विद्याओं का आधार होता चाहिए, अर्थात् 'सर्वभूतात्मरूप ब्रह्म', वह उपेक्षा में रह गया है। परिणाम यह है कि अध्ययन सब पकड़ते हैं और हृदय को सब छोड़ते हैं। इस प्रकार की खण्डित विद्या क्या अविद्या नहीं है? क्या उस अविद्या का ही परिणाम आज के युद्ध की भीषणता नहीं है?

पर हम दूर आ गए। वात कमाई और भिन्नाई से शुरू हुई थी। कमाई किसे कहते हैं? धन अपने चक्रकर पर धा-जा रहा है। जैसे नदी बहती है; कुछ उसमें नदरते हैं, कोई उससे खेत के लिए पानी लेते हैं, कुछ उसको देखकर ही आनन्द प्राप्त करते हैं। नदी अनेकों के अनेक प्रयोजन पूरे करती हुई समुद्र में मिलने के लिए बहती ही खड़ी जाती है। ऐसे ही धन अपने बहाव में सब के प्रयोजनों को पूरा करता हुआ अलते चले जाने के लिए है। इस प्रक्रिया में कमाई क्या है? सब कहूँ तो उस कमाई का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। हरिद्वार की गंगा प्रयाग आई; जो पानी हृष्टे पहले हरिद्वार था, अब प्रयाग आ गया। क्या इस पर प्रयाग यह सोच सकता है कि हरिद्वार से हमने हृष्टे गंगा के हृतने पानी की कमाई कर ली? प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता।

पर हम ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। मेरी

दिजोरी में आज दस हजार रुपये हैं। बाजार में बैठा था, तब गाँठ में क्या था ? यही सौ एक रुपये होंगे। तीन साल में दस हजार रुपये की मैंने कमाई की ! बाह, क्या बात है। मैं अपने से ज़्याद़ हूँ, कुनवे वाले ज़्याद़ हैं, और सब जानते हैं कि मैं होनहार और कर्मण्य हूँ। यह कमाई है।

अब चलिए, मैंने तो बाजार में तीन साल लगाए और धूमा-फिरा और मिहनत की। पर वह देखिए, क्या भाग्य का सिकल्दर आदमी है ! लड़ाई आई कि रंग में दो दिन में पन्द्रह हजार पैदा किए ! हलदी लगी न छिटकरी और देखते-देखते मालामाल हो गए ! लचमी की लीका जो है। अब सब उस भाग्य के बली और लचमी के बरदु पुत्र की ईर्धा करते हैं। यह कमाई है।

एक मञ्चदूर टोकरी ढो रहा है। जेठ आ रहा है; लूचल रही है; पसीना बह रहा है और वह टोकरी ढो रहा है। सूरज छिप चला; यक गया है; घर पर इन्तजारी होगी, पर वह टोकरी ढो रहा है। आखिर चाला को देखा आई है। उन्होंने छुः आने दिये। यह छुः आने की कमाई है !

एक मिश्र हैं। उनकी खूबी यह कि वह अपने पिता के पुत्र हैं। उनके पिता की खूबी थी कि वह अपने पिता के पुत्र थे। और पीछे चलें तो पाँच पुरुष पहले बंश में एक पुरुषार्थी पुरुष हुआ था। उसने सामन्ती ज़माने में अपना गिरोह हृकट्ठा करके एक नगर जीता और काढ़ा किया था। उसने अपने राजुओं पर विजय पाई, यानी उन्हें यमराज का घर दिखाया था। उस शब्द पुरुषार्थ के कारण उस पुरुष के पुत्र और उसके पुत्र और उसके पुत्र, हृस तरह उस परम्परा के अन्तिम पुत्र होने की खूबी से ऐसे दिन दी ज्याई गई थीं हजार रुपये साल की है। वह कहाँ से हैं, कहाँ आगदान और ज़मींदारी कहाँ-कहाँ है, हृथोदि मिश्र को पूरी तरह पता नहीं है। पर कमाई उनकी तीस हजार है !

एक और भाई साहब हैं। अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि, और उदार और शाली और सुशील। वह कलाकार कहलाते हैं। उसका काम है कलाकारी। उनकी कमाई है पचीस हजार रुपया साल।

और एक वायसरायगीरी करते हैं, जो बेहद ज़िम्मेदारी का काम है। उनकी कमाई की खुसें कृत नहीं। वह भी खासी होनी चाहिए, यद्योंकि पर्सीने की वह नहीं है। पर्सीने की कमाई ही इतनी कम हो सकती है कि पेट न भरे। यद्योंकि पेट भरेगा तो मेहनती मिहनत से जी चुरायेगा। इससे अकल की ही कमाई को हक्क है कि वह लम्बी-चौड़ी हो। मिहनत की कमाई अधिक होगी, तो उससे मिहनती का लुकसान न होगा।

खैर, ऊपर लरह-तरह की कमाईयाँ शिखाई हैं। इन सबमें दो बात सामान्य हैं, जिसकी वजह से वे सभी कमाई लहलाती हैं। एक तो यह कि कमाई करने वाला जेल नहीं जाता, इस कारण उसको चुराई या कागाई हम नहीं कह सकते, कमाई ही कह सकते हैं। दूसरा यह कि हर कमाई, जिसकी वह समझती जाती है, उसकी जेब (वैक दिसाय) में आकर पढ़ती है।

इस पर से दो व्यूल सिद्धान्त समके ला लक्से हैं:—

१—कहीं से चलकर जो रुपया हमारी जेब या लिजोरी में आये वह हमारी कमाई है।

२—शर्त यह कि उसमें हमें जेल न हो, यानी वह बैध हो।

अर्थात् वह सब रुपया हमारा कमागा तुम है, और उस सब रुपये पर खर्च करने का हमारा हक है, जो इस उद्देश से न हो। उल तरह से, इस जेब से या उस जेब से, हमारी सुट्टी तक आ जाता है। सीमा यह कि इस तरह खर्च करने वाला खुले समाज में हो, नह जेल में न हो।

हीमा की शर्त बहुत ज़रूरी है। कमाई और उमाई में बही ऐद डालने वाली रेखा है। जेल पा गये, तो तुम्हारी कमाई कमाई यारी मानी जायगी। जेल पाने से बचे रहे, तो बेशक तुम्हारी कमाई कमाई

है। और तब अपने धन के परिमाण में ही उन्हारी ऊँचाई की नाप होगी।

यह तो हुआ; पर भीख से पैसा पाने की विधि को मैं कहाँ रखूँ? उसमें भी पैसा आता है और जेल बची रहती है। भिखारी जेल पा गया तो गया। पर जेल के बाहर भिखारी के पैसे को कमाई का पैसा कैसे न आना जाय, यह मेरी समझ में किली तरह चहों आता है।

आप कहेंगे भेरी भाषा में व्यंग है। पर मैं सच कहता हूँ कि कमाई अगर सच्ची हो सकती है तो मुझे लगता है वह भीख की द्वी कमाई है, नहीं तो कमाई शब्द ही एकदम झूठ है।

पैसा सेरी जेब में आना कमाई है। वेशक सिफत यह कि जेल मुझे न मिले। अब सबाल है कि दूसरे की जेब से, या मिहनत से, सेरी जेब में पैसा आता कैसे है? इसके कई तरीके हैं।

स्वभाव का पहला गुण लोभ कहा जा सकता है। दूसरिए अपनी चीज के लिए दूसरों में लोभ पैदा करना कमाई बढ़ाने का पहला उसुल है। विज्ञापन और विक्री की कला यही है। लोभ हुआ कि काम आगा। तब उस जेब का पैसा लिकलकर आपकी जेब में आवे से रुकेगा नहीं।

हृसरा तत्त्व है गरज़। अकाल है और लोग भूक्षे हैं। सबको आज आहिए। आम जिसके पास अच्छा है, उसने दाम बढ़ा दिये। इस तरह विचक्कर पैसा आ गया।

तीसरा है डर और अविश्वास। आगे का क्या ठिकाना, जाने कब भौत आ दूटे। तब बाल-बच्चों का क्या होगा? आग है, रोग है, चोर-बाकू हैं। हमसे लाइये हमसे पास बच्चा-बच्चाकर जगा करते जाहये। हम अपर से ब्याज़ और जाने कितना और देंगे। यह भी पद्धति है निमं डाक्टर और कमाई दोनों साथ हीते हैं।

या बद्द है गिरफ्तारी है दस्ती (भीमोद्योग) है। हँड़ारों मेहनती और भीमाकार अन्न। मेहनती गोपनीय करते हैं, गम्भीर बल्लारे हैं, और कमाई लोटी दोती हैं। इसका सहस्र लघोग की भीमता में है। भानी

हजारों का श्रम वह कर एक केन्द्र कुँड में पड़ता है। एक की एक-एक दूँद बचे तो हजारों हो जाती हैं। और बूँद-दूँद से घड़ा भरता है तो हजार-हजार दूँदों से क्या नहीं होता होगा।

या जोर-जबरदस्ती है, लेकिन उसके पीछे कोई कानूनी बल चाहिए। जैसे जर्मीनी, अफ्रिकी इत्यादि।

एक तरीका जो बारीक है, लम्का नाम सदा है। वह खेल समझ-जाओं पर चलता है। उसमें भी तुष्णा उक्त्या कर जेबों का पैसा निकाला जाता है और वह बिनी-तुनी जेबों में निकुद्ध आता है।

एक आम तरीका है, जिसको नौकरी कहते हैं। इसमें सुखाज्ञि भ पैसा खींचता नहीं, पैसा पाता है। यानी उसके इस्तेमाल से पीठ पीछे थैंडा हुआ दूसरा कोई आदमी, जो पैसा खींच रहा होता है, वह नौकर को ज़िन्दा और काम लायक रखने के लिए उसे खाने-पीने को कुछ देता रहता है।

इनके बाद कल्पणा के जौर से भी किसी जेब से पैसा निकलाया जा सकता है। दान और भिज्जा में अधिकतर यही वृत्ति रहती है।

रुपथा फिर प्रीति के नाते भी हस्तान्तरित होता है। जैसे मित्र की सहायता, परिवार का पालन आदि। वहाँ रुपये के लेन-देन में किसी मुक्ति का भाव नहीं रहता।

इन सब पद्धतियों में रुपये का आना-जाना जहाँ थें के कारण होता है, उसको मैं सबसे उचित समझता हूँ। उसमें न देने वाले को देने का, न लेने वाले को ही अपने लेने का पता रहता है। गान्धी अपने सम्बन्धों के बीच पैसे की बहाँ किसी को सुनहरी नहीं है। पैसे का यह आदान-प्रदान बन्धन नहीं पैदा करता, दोनों और आनन्द की ही सुषिं करता और उनके बीच बनिष्ठता लाता है। पर, इस कोटि के आदान-प्रदान में कमाहूँ शब्द काम में नहीं आ रहता। पिता ने पुत्र को सौ रुपये दिए तो इनमें पिता को सौ का बाटा हुआ और पुत्र को मौ का लाभ हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। हूँसे की जेब से निकलकर

अपनी जेब में आता कमाई है, पर वहाँ दो आलग-आलग जेब ही नहीं हैं।

नव पूँछये तो मैं वही स्थिति चाहता हूँ जहाँ कमाई स्रत्स हो सुकी है। जहाँ जीवन की आवश्यकताएँ ही पूरी होती है। न आने वाले पैसे के प्रति लोभ है, न उसके आने में चतुराई का प्रयोग या अहसान का अनुभव है,

उससे हटकर कमाई की जो और कोटियाँ हैं, उनमें करुणा की प्रेरणा से जहाँ पैसा आता-जाता है, वह सद्यतर मालूम होता है। वह है दान, भिजा। करुणा प्रेम से भिजा है; करुणा में बन्धन है और आत्मा पर दबाव है। उसमें दयावान् और दया-पाव में कला-भेद हो जाता है। आनी उससे दो व्यक्तियों के बीच समत्व सम्बन्ध का झड़ होता है। इससे करुणा-प्रेरित दान अन्त में सामाजिक विधमता और जड़ता उत्पन्न करने का कारण होता है। उससे दोनों और आत्मा को प्रसार और विस्तार नहीं प्राप्त होता, बल्कि कुण्ठा और संकुचन होता है। मानो भिजा देने वाला भी भिखारी के सामने धृष्णने को किंचित् लजिज्जत अनुभव करता है। अर्थात् पैसे का इस प्रकार आदान-प्रदान भी इष्ट और उत्कृष्ट तो नहीं है। अर्थात् यह कोटि पहली से उत्तरती हुई है, पर तीसरी कोटि से अच्छी भी ही सकती है।

तीसरी है नौकरी और मज़दूरी की कमाई की कोटि। विज़कुल है सकता है, और शायद है, कि नौकर जिसकी नौकरी और मज़दूर जिसकी मज़दूरी करता है, उसके प्रति अन्दर से वह एकदम अत्रज्ञा के भाव रखता है। तब जो उनके बीच ध्रम और वेतन का आदान-प्रदान है वह दोनों और हीनता और दूरी व द्वेष पैदा करने का कारण होता है।

चौथी अथवा अन्य कोटियाँ जहाँ लोभ, भय, अविश्वास उकसा कर या केन्द्रीकरण द्वारा लात किए जाता है, सबमें प्रचलित और सबसे बैध है। पर मुंह वाल निष्टुष्ट मालूम नहीं है।

पाँचवाँ है साचारा से साम। यह भिज्जत है और डानूनन उस पैद-

रोक थाम भी की जाती है।

जिना मिहनत अमुक के पुत्र और पौत्र होने के बल पर जो बड़ी-बड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती है—उसका भी औचित्य विशेष समझ में नहीं आता। ज़रूरी नहीं है कि युक्त प्रतिभाशाली पिता के पुत्र को अपनी पैत्रिक प्रतिष्ठा से हीन रखा जाय। पर स्वयं कर्म-हीन होकर वह अपने पिता की प्रतिभा के फलों को बैठा-बैठा खाया करे, यह उचित नहीं मालूम होता।

इन सबसे परिणाम निकलता है कि उत्कृष्ट स्थिति वह है, जहाँ परस्पर में लेन-देन की भावना ही नहीं है, एक-दूसरे के हित के काम आने की भावना है। इन सम्बन्धों पर आश्रित परस्पर का व्यवहार ही सच्चा व्यवहार है। अपने को और समाज को हमें उसी तक उठाने का प्रयत्न करना होगा।

पर, उससे उत्तरकर आदमी-आदमी के बीच कहणापूर्ण व्यवहार तुम्हें पसन्द है। अर्थात् कमाई की रोटी नहीं, दान और भीख की रोटी तुम्हें पसन्द है।

इस बात पर तनिक रुककर तुम्हें अपने को साफ़ करना चाहिए।

मैंने पुस्तक लिखी और प्रकाशक से रूपये पाये। आब दो बात हैं: या तो मैं उसे अपनी कमाई कहूँ, या जिस मैं उसे प्रकाशक की कृपा कहूँ। मैं दूसरी बात पर कायम हूँ। कमाई मायावी शब्द है। उस शब्द के सहारे माया जुड़ती है और भीतर की सचाई नहीं जागती। सचाई है प्रेम। लेकिन कमाई शब्द मुझमें ऐसा भाव भरता है कि प्रकाशक को प्रेम देने में मैं असमर्थ हो जाता हूँ। मानो कि मैंने किताब लिखी, तुमने पैसा दिया। वह अब हम दोनों खुकता है। मानो कि एक-दूसरे को समझने की आवश्यकता और एक-दूसरे के लिए सुकरने और काम आने की भावना से ही हम ऐसे खुकता हो जाते हैं। यानी हमारा आदान-प्रदान एक-दूसरे को दो किनारों पर डाल देता है और वह स्पष्ट ही आकर बीच में खाई बन जाता है। नहीं, मैं उस स्पष्ट को

अपनी कमाई नहीं, दूसरे की कृपा मानूँगा। आप कहेंगे कि तुम हो भोले। प्रकाशक बाजार में बैठता है और किसी को एक देता है तब, जब कि उसके दी वस्तुता है। तुम्हारी किताब छापकर तुम्हें जितने दिये हैं, उससे चौगुने दाम अपने खरे न कर ले तो प्रकाशक कैसा? तुम कृपा कहते हो, पर वह ठगी है। चार में तुम्हें एक देकर तीन अपनी जेब में ढाले हैं। तुम्हें आँखें हों तो तुम्हें कभी सन्तुष्ट न होना चाहिए। अभी एक मिलता है, तो झरूँ लेलो; लेकिन बाकी तीनों पर अपनी निगाह जमाए रखनी चाहिए। आपकी यह यात्रा सही हो सकती है। पर, फिर भी मैं 'उनकी कृपा' की जगह 'अपने हक्क' के शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दो व्यक्ति अपनी सीमाओं पर कौटे के तार लड़े करके मिलें। ऐसे बे कभी एक-दूसरे में बुल नहीं सकेंगे और न उनमें पृथक उत्पन्न होगा। वैसे आपस में वे सदा करते रहेंगे और फल उल्का बैर होगा।

इस तरह मैं अपनी कमाई का जाता हूँ—इस भूठे गर्व से मैं मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अगर ईश्वर है, तो मेरा-तेरा भूठ है। अगर ईश्वर की यह दुनिया है, तो उसकी अनुकम्पा पर ही हम जीते हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी अनुकम्पा भी सब में है और उसी के बल पर हमें जीना चाहिए।

इस दृष्टि से जिसको ब्राकायदा कमाई कहा जाता है, उसको बहिरा नहीं भालना होगा। उससे अहंकार का चक्र कसता और फैलता है। उससे मैं तू और मेरा-तेरा बढ़ता हूँ।

मैं जानता हूँ कि हमारे समाज में एक चीज़ है, इज्जत। उसको शुरी शालकर नयारा प्रधान-जीवन लड़ रहा है। घेरे, हरेक अपनी इज्जत रखता है। कमाई नाग का शटन उभरता है। इज्जत को मजबूत और ऊँची बनाता है। बद कमाई, हृतिनिष्ठ उमसी नाफ़ किसी से क्यों नीची हो? नयार भर का नयाब हो, अपनी जर पै उम भी नवाब है। इस तरह कमाई पर टिक कर इस अपनी प्रातः-तर्प सुरक्षित करते हैं। इस

तरह हम इस लायक होते हैं कि किसी को अपने से क्रोटा समझें।

इस में तथ्य भी हो। पर जो अतिथि है, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। कमाई के बल पर हम लद्दे भाव में विनाश बनाने से बचते हैं। अपने हृदय-गिर्द इज़ज़त का धेरा ढाकते हैं, जो हमारे विकास को रोकता है। हम उससे आहम् को केन्द्रित करते हैं और फ़दूतः सेवा-कर्म के लिए निकम्मे होते हैं।

संचेप में, अपने लिए, मैं कमाई के धन को नहीं, कृपा के अन्न को अच्छा समझता हूँ। कमाई में आगे की चिन्ता है। आगे का अन्त नहीं, इससे चिन्ता का भी अन्त नहीं। दस हज़ार हैं तो वह थोड़े, पचास हज़ार हैं, तो पाँच बेटों में बँटकर भला वह क्या रह जाएँगे? इस तरह भविष्य के अविश्वास के आधार पर चिन्ता का पहाड़-का-पहाड़ हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तब चिड़िया जैसे सबेरा निकलते ही चहचहाती हैं, वैसे हम नहीं हहहहा पाते। कमर सुक जाती है; क्योंकि अनन्त चिन्ता का बोझ उस पर हम लेते हैं। यस्तक तब आकाश में नहीं उठ सकता। हूँसे का दुख देखने की कुरसत नहीं रहती, क्योंकि हम अपने और अपनों से दूध जाते हैं।

नहीं-नहीं, विश्वास का रास्ता आस्तिक का रास्ता है। कल की शंका करके आज को मैं नष्ट कैसे करूँ? और यह सच है कि आज यदि नष्ट नहीं होगा, तो कल और पुष्ट ही होने वाला है। पर कल के दबाव में आज को हाथ से जाने देते हैं तो फिर कल भी कोरा ही रह जाने वाला है।

दान की बात

दान देने को कहते हैं। दिये बिना चल नहीं सकता, जैसे लिये बिना नहीं चल सकता। कुछ या कोई अपने में पूरा और बन्द नहीं है, औरों के साथ किसी-न-किसी तरह के सम्बन्ध में वह जुड़ा हुआ है। इन सम्बन्धों के ज़रिये वह अपने लिए आपसीपन जुटाता और अपने को और अपनी आत्मीयता को फैलाता है। जीतना का स्वभाव ही वह है। शास्त्रकार ने जीव का लकण परस्परोपग्रह कहा है। यानी देन-खेन के द्वारा आपस में एक-दूसरे के काम आना।

साँस हम में जीवन की पहचान है। उसका आना-जाना रका कि वही भृत्यु। भीतर से वायु लेकर उसे फिर बाहर दे देने की श्वास-प्रश्वास कहते हैं। उस की हुई हवा का अशु भी हम अपने भीतर रोक रख नहीं सकते। सबकी सब साँस आपस लौटा देनी होती है। इसी क्रिया से हमारा जीवन खलता है। श्वास लेकर लौटा न सकें, या देकर फिर न ले सकें, तो जीवनी शक्ति समाप्त समझिये।

दान हम तरह जीव का अनिवार्य धर्म है। वह सहज धर्म है। वह उससे अलग नहीं हो सकता। जो जीतना धार्यिक हो उसे जीतना ही निःश्रेष्ठदानी मानिए। कुछ रहता ही नहीं उसके पास जो वह न दे। अपना सर्वस्व वह दिए हुए है। शरीर रखता है तो भी पर निमित्त। ग्राण मानी उसमें उसके हीकर नहीं, विसर्जित हीकर रहते हैं। ऐसा

ध्यकि यथावश्यक लेकर यथासाध्य देता है। सब पूछो तो मात्र आवश्यक भी जो लेता है वह भी ग्रन्थ रूप में। उससे वह नग्न बनता है। उस पर उसका मन प्रार्थना से भीगा रहता है। तब उसकी सब प्रवृत्तियाँ मानो ग्रन्थ-मोचन के निमित्त से होती हैं। सबत आत्मदान ही मानो उसका जीवन बनता है।

सब तो यह कि हसके लिया दूसरा सम्भव नहीं है। बृक्ष के लिए क्या यह शक्य है कि वह अपने पर फल न आने दे? फूल के लिए सम्भव है कि वह सुरभि को अपने में रोक ले? वैसे ही सञ्चय के लिए अपने को रोक रखना या न देना सम्भव नहीं है। दे न सकेगा उससे पहले जीना ही रुक लुका होगा। बृक्ष फल देता है, फूल सुपास देता है, बादल पानी देता है, सूरज धूप देता है—यहाँ देने शब्द का प्रयोग औपचारिक ही है। असल में देने के गर्व को वहाँ कहाँ अवकाश? सब स्वानुरूप वर्तन में नियुक्त हैं। उस रूप में वे समष्टि की लीला में संयुक्त हैं। सब अपने को शेष के प्रति देते हुए जी रहे हैं। अपनी विज्ञता को सबकी समस्तता में सुकृत करने के प्रयास में ही यह विश्व की यात्रा अनन्तकाल में से बड़ी चली जा रही है। अखण्ड सत्य ही तो है जो जानात्म में प्रतिक्लित है। जगत् की उन नाना वस्तुओं और व्यक्तियों के मध्य परस्पर आत्मदान की गह प्रदिवायता ही सहिती भंगलभय व्यवस्था है। यही धर्म है। जगन् व्यापार एवं और किसी तरह समझना सुरिक्खा है।

यह जो जगत् में निरन्तर सब ओर से निःशेष आत्म-दान का समारोह सम्पन्न हो रहा है, जिसमें कोई अपने को अपने पास रोक रखने में स्वतन्त्र नहीं है, जहाँ सब अपनी-अपनी विषयति में जीकर और मरकर और फिर-फिर जीकर समष्टि के चिद्रिकास में आत्म-योग दे रहे हैं—वहाँ दान जैसे शब्द की स्थिति ही कहाँ रह सकती है? कौन किसको क्या दे? क्या कुछ अपना है जो देने की बात की जा सके? समस्त से अलग होकर खण्ड है ही क्या! अतः किससे कोई क्या लेगा और किसे

क्या देगा ? सब अगवान् का है । उसी में से है और उसी में लीन होने के लिए है ।

लेकिन फिर भी दान की बात करनी है । क्योंकि आज वह एक समस्या सी है । समस्या हिमालिपि कि हम में अहंकार है । और आसक्षियाँ हैं । उनके बीच में आ पड़ने से चैतन्य का प्रवाह सुक्त नहीं रहता, जगह-जगह वह रुँध और छुट जाता है । उससे क्लेश और व्याधि और युद्ध उपजते हैं । उससे आदमियों के बीच में से ही एक राजा बन उठता है, तो दूसरा रंग हो रहता है । उससे आदमी पशु तक बनता देखा जाता है कि दिन-भर उए में खुते और शाम को दूने के लिए तरसे । उससे ऐसी आभीरी उपजती है कि जिसे समय बिताने को नए-नए चक्के हैं जाह करने पड़े और दूसरी तरफ ऐसी निपट गरीबी जिससे मौत आच्छी समझी जावे । ऐसे विषय समाज में दान का प्रश्न गम्भीर प्रश्न है ।

गम्भीर है, क्योंकि सारभूत आत्मदान हमें भूल गया है, उसकी जगह हिसाबी अर्थ-दान रह गया है । मन के देने को हम नहीं गियते । यह दिलाव देने जो नहीं आता । सच पूछो तो बात वही महत्व की है । धन अद को देखता है, धन को नहीं । और धन बिना मन के भी दिया जाता और दिया जा सकता है । ऐसा धन बन्धन न उपजाए तो क्या करे । उससे समाज में श्रेणी-भेद हो चलता है । उससे चैतन्य की हिंसा होती है । उससे मनों में राग-द्वेष उपजते हैं ।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्न मानवीय होकर ही विचारणीय है, केवल पार्थिव और आंकिक वह नहीं है । अर्थ के विषम वितरण और स्वार्थकित तिथियाँ के द्वारा मनुष्यता की ही जो हानि होती है वही दिनता की रात है । प्रश्न यही है कि कैसे सुख, शान्ति और सद-भाव फेले; आदमी और आदमी में मत्सर की जगह प्रीति और स्वार्थ की जगह सेवा पनपे । हस हृषि की दृष्टि से ही अर्थ के दान और उसके बटवारे का सवाल धर्मसंगत होता है ।

उत्पत्ति सब श्रम से होती है । मनुष्य में कल्पना और उद्भावना

है; जगत् में उपकरण रूप साधन-सामग्री है। मनुष्य दोनों के योग से आवश्यकतानुसार वस्तुओं को उपजाता और बनाता है। मनुष्यकी बुद्धि और श्रम के इस कल के विनिमय के सुभीते के लिए सिक्का जनमा। सिक्के का स्वतन्त्र मूल्य न था। पर हधर गड़बड़ ही आई है, सिक्का श्रम पर निर्भर रहने के बजाय श्रम सिक्के के तले हो रहा है। मानो श्रम नहीं सिक्का ही धन हो। चुनांचे अवस्था यह है कि दुनिया में सब आदमियों के लायक खाना-कपड़ा और दूसरी चीज पैदा होने और बनने पर भी दुनिया में भूख से मरने वाले और कपड़ों बिना ठिठुने वाले लोग कम नहीं हैं। संस्कृति और शिक्षा के अभाव की तो बात क्या कहिए। आज की संस्कारिता तो विलास है जो मुट्ठी-भर लोगों को प्राप्त है। अर्थात् धन का वितरण श्रम के अनुसार नहीं है, वह उस मुद्रा-नीति के वश में है जो फिर स्वयं स्वार्थ-नीति के वश में है। साम्राज्य और महासाम्राज्य बन रहे हैं और लोग तरह-तरह के अभावों से लाधार होकर डनकी फौजों और नौकरियों में मुके जा रहे हैं। जो अपरिसित साधन-सामग्री पसीने के बल मानव-जाति उगाती है वह कुछ हाथों में जमा होती और वहाँ से वह फिर कृपा और दान के रूप में अन्यों को प्राप्त होती है। इस तरह दीन बनाने के बाद ही दान सम्भव होता है। दैन्य में ही दान का समर्थन है। यदि दीनता शास्त्री नहीं है तो दान को भी बढ़ावा नहीं देना होगा। दैन्य को यदि दूर करना है तो दान की संस्था को क्रमशः इसमा शुद्ध करना होगा कि उसमें दयाभाव के लिए गुजायश न रह जावे। यह उत्तरोत्तर हृदय का ऐसा सहज और अनिवार्य धर्म हो आए जैसे मैघ का जलदान। आज तो देने वाला कृपालु है और लेने वाला प्रार्थी है। दो व्यक्तियों के बीच यह दयालु और दयनीय, मालिक और दास का सम्बन्ध कृत्रिम सम्बन्ध है। उससे मनुष्य का गौरव नहीं बढ़ता। उससे उलझन बढ़ती है और गैरि गंदता है। इसलिए दान को उस धरातल पर पहुँचाना होगा। जहाँ देने वाले को अपने को दाता मानने के दरमां से छुटकारा भिले और लेने वाला

भी अपने को उस कारण निम्न अनुभव करने की आवश्यकता से बचे।

यह स्वाभाविक है कि धन को अतिरेक से अभाव की ओर चलना हो। यह अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को बहुत काल रोका नहीं जा सकता। अब इष्ट यह है कि यह क्रिया ऐसे सम्पन्न हो कि दोनों और द्वादिक समता और प्रीति की सम्भावना बढ़े।

आज तो हमारे बीच सरकार नाम की संस्था सर्वशक्तिमान और सर्वद्वयीपी है। वह नोट और सिक्के छापती है। हमारे जीवन का नियमन उसके हाथ में है। धन की कुन्जी उसके पास है और वितरण के साधन उसके हाथ में हैं। धनबान उसी की छाया में और संरचणा में बना जाता है। इसलिए मुख्यता से दीनता के सवाल का आरोप उस सरकार पर आता है। उसके निवारण का उपाय भी बहुत कुछ उसके हाथ है। सरकार सचमुच चाहे तो इस बारे में काफी कर सकती है। लेकिन प्रजा से अलग होकर सरकार का अस्तित्व भी क्या है? तिस पर आजकल लोक-तन्त्र का राज समझा जाता है। इसलिए लोक-जीवन की भी कम ताकत नहीं माननी चाहिए। इससे लोकसत के नेता और निर्माताओं पर यह दायित्व आता है कि दान की संस्था को ऐसा शुद्ध करें कि उससे मानव में दैन्य की जगह चैतन्य बढ़े। अगर हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें हर आदमी दूसरे से नफा उठाने के बजाय उस को लाभ पहुँचाने की सोचे, और ऐसी अहिंसक-समाज रचना में अपना भाग भी लेना चाहते हैं, तो दान रो, इन-विक्रय चीन-क्षेपण अथवा दूसरी पद्धति से जो अर्थ हृधरन-से उधर होता रहता है, सो उसकी गतिविधि समझी जाएगी। उस पर निराह रमणी होगी। निराह यह धर्म अर्थात् सम्यग्दर्शन की जाएगी। वह यमगृ-दृष्टि द्वारे यतापनी कि इस धन के अमुक यातायात में किसी दो अतिंभा की निर्दि न होती है अथवा किसन। हिंसा मय शोषण हो रहा है। दृष्टिभृक्ति हो तो अम ही धन है। हम दृष्टि से धन अलिक का है। इसलिए जो अमिक का है उस धनका वितरण ऐसा होना चाहिए जिसमें सुदाके तुलना में अम का और अमिक का

महत्व बढ़े, श्रम में और श्रमिक में स्वावलम्बिता आवे, और पर-विर्भवता दूर हो। श्रममें भजूरी के भाव की जगह स्वाधीन चेतना उत्पन्न हो और इस तरह उत्पादक शारीरिक श्रम में बुद्धि-कौशल का भी योग होने लगे। इस प्रकार श्रम के साथ स्वाभिमान का सामन्जस्य होगा, श्रमिक भगवत्ती बनेगा और मानव-समाज का अन्तरङ्ग से स्वस्थ परिणाम आश्रम होगा। अन्यथा जो धन काम करने वाले को स्वाधीन न रखकर अनुग्रह और परमुखा-पैक्षी बनाता है उससे सच्चा लाभ नहीं होता। धन का वह दान जिससे कार्यकर्ता में तेजश्चिता की हानि हो, इष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में धन का वही दान शुभ है जो अद्वापूर्वक किया जाता है। उससे कार्यकर्ता को अन्तःस्फूर्ति प्राप्त होती है। नहीं तो जिस धन से कार्य कर्ता की आत्मा दबती हो उससे भला क्या असुखी लाभ यिद्युने की आशा हो सकती है?

उपर की इस सब बात में से हम निम्नांकित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं:—

१. दान हार्दिक हो। इसमें यह अवकाश न रहेगा कि कोई अपने को दाता गिने।

२. हृदय की विवशता से दिया गया दान लात्कालिक ही ही सकता है। अर्थात् देने की भावना और देने की किया में व्यवधान तथा नहीं ही सकता। दान की बसूली का जहाँ प्रश्न उठे वह दान ही नहीं है।

३. दिये दान को तत्काल आपने खे अलग कर उस ध्यक्ति अथवा संस्था को सौंप देना चाहिए कि जिसके प्रति देने की भावना है।

४. अद्वा का होकर दान शर्त के साथ नहीं होगा। भावना की स्पष्टता की जासकती है।

५. कृपा के भाव से दिया गया दान निकृष्ट है। उसमें दोनों और आत्मा की हानि है।

६. दान की रक्षा का यदि दूसरे बनाया जाय तो उचित यह है कि

देने वाला अपना नाम ट्रस्टियों में न रखे। मैनेज़िंग ट्रस्टी तो उसे बनना ही नहीं चाहिए।

७. दान वहाँ देना उचित है जहाँ उसका सीधा उपयोग है। अर्थात् जहाँ फिर वह इकम व्याज पर नहीं लगाई जाने वाली है।

८. शर्त के साथ दिया दान शक्ति भन का है। उसमें से शक्ति और फैलती है। ऐसा दान शेष नहीं है।

९. सार्वजनिक कोषों में बड़ी रकमें दान देने वालों को अधिकारी पद पर आने से बचाना चाहिए।

१०. धन श्रम का प्रतीक है। इसलिए वह श्रमिकों का अर्थात् काम करने वालों का हो—यह भावना रखकर दान देना चाहिए। आशय यह कि वी गई राशि के संचालन और उपयोग का दायित्व पूर्व अधिकार अधिकाधिक कार्यकर्ताओं के हाथ आता जावे।

११. देने वाले की भावना दानी के गुण-स्थान से आगे सेवक के गुण-स्थान तक बढ़ने की होती चाहिए। सेवा-धर्म के लिए दान प्राप्त करने वाला सेवक और दान देने वाला दानी, इनमें सेवक का गुण-स्थान ऊँचा है। दानी को उस और, यानी अपरिग्रहशीलता की ओर, उठने का सदा ग्रन्थ करते रहना चाहिए।

१२. पैसे में शक्ति है। शक्ति में मद है। मद विष ही उहरा। उसमें स्वतन्त्रता की हानि है। सम्बद्धशर्न द्वारा यह पहचान कर धन के साथ वर्तन करना चाहिए। ऐसा सम्यक्-दर्शी धन के दान द्वारा यश, मान, प्रभुता या और तरह के लौकिक लाभ की चाहना नहीं रखेगा।

१३. धन की सच्ची संज्ञा है क्रय-शक्ति। उससे चीजों के साथ आदमी खी रखते हैं। कारण, आदमी को चीजें लानी हैं। उन चीजों का अभाव या मौकागाहूँ पैदा करके आदमियों की विकास बाज़ार में खींच लाया जा सकता और उनका मोक्ष भाव किया जा सकता है। पैदे की यह शक्ति दानवीं शक्ति है। सदा दानी हस्तानवीं शक्ति के उपभोग में दुःख और उसके परिवार में सुख मानेगा।

१४. दान वह जो पैसे में से दानवी शक्ति खींचे और दैवी शक्ति उसमें भरे। अर्थात् देने वाला दान में प्रायशिचत्त की भावना रखते और माने कि जो धन उसके पास से जा रहा है वह तो उस नारायण का ही था और है जो दरिद्र का रूप धरकर उसकी मानवता की परीक्षा के रहा है। यदि मैंने अब तक उस दरिद्र नारायण का ही रोकड़िया अपने को नहीं माना है तो यह बेर्हमानी और चोरी की है। इस भावना के द्वारा धन में दैवी शक्ति डाली जा सकती है।

१५. अहंभावना से दिया गया दान दीनता और विषमता पौसने और बढ़ाने वाला है। धर्म (अकिञ्चन) भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा।

१६. सुद्धा-धन का खोत सरकारी (दंड) शक्ति है। धर्म का स्रोत व्यक्ति की भावना है। सरकार की ओर से कानून के बल से लाई गई धार्थिक और सामाजिक समता के नीचे भाव के वैषम्य और विकार के बीज रहेंगे ही। प्रबल-से-प्रबल कानून-बल और शास्त्र-बल उस विषमता को नियमूल्य नहीं कर सकता। इस तरह राजनीतिक प्रयत्न एक विष्वाव के बाद दूसरे और एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध को लाये बिना नहीं रह सकता। स्थायी संस्कार के लिये मानव-मन का धार्मिक परिपक्व जरूरी है। इसका आशय यह कि सम्पन्न वर्ग स्वेच्छा से नीचे मुके और दक्षित वर्ग का सेवक बने। धार्मिक दान इसी हृषि की दृष्टि से है। दूसरी तरह का दान राजनीतिक-चक्र को पुष्ट करता है और बन्धन को मज़बूत करता है।

१७. दूसरे जहाँ तक हो सरकार के तन्त्र को दान और उसकी व्यवस्था के बीच में न लेना ही अच्छा है। सहयोग-समिति या दूसरी-संघ बनाकर उसकी सुव्यवस्था की जा सकती है। इन समिति और संघों को आज दिन सरकार से रजिस्टर्ड कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

१८. ध्यान रखना होगा कि अन्त में किसी भी शस्त्र-बल या आष्ट्र-बल के बिना मानव-जाति को अपनी अन्तरङ्ग शान्ति और

इयवस्था कायम रखने लायक होना है। यह ध्येय अन्तर्यामी भगवान् के सिवा किसी दूसरे न्यायकर्ता को बीच में लेकर कास चलाने की आदत से पूरा न होगा। अर्थात् दान की रकमों या सार्वजनिक कोषों का सुकदमा सरकारी अदालत में न होकर पंचायतों में आना चाहिये।

शायद इन परिणामों की अङ्ग-गणना जरूरत से ज्यादा हो गई। बात तो मूल में एक ही है। हम में स्वरक्षा की वासना है, तो आत्म-दान की भावना भी है। मेरी श्रद्धा है कि व्यक्ति में स्वार्थ से भी गहरी परमार्थ की जड़ है। अन्यथा तो हमी जगत् में, जहाँ सब अपनी दो दिन की ज़िन्दगानी से और उसके रोग-भोग से चिपटे हीखते हैं, उन महापुरुषों के चरित का क्या अर्थ है कि जो स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकारते हैं और जीवन को तिल-तिल होमते हैं ? क्या ये हमारे ही अन्तर्भूत सत्य को हमारे ही आगे प्रगट नहीं कर जाते ? नहीं तो कोई कारण न था कि उन तपोधन हुतात्माओं को हम भूल न जाते। मैं मानता हूँ कि कहीं निखावर कर डालने के लिए ही हम इस जीवन का रक्षण और पोषण करते हैं। प्रीति-प्रेरित यह आत्मार्पण ही हमारे समूचे आत्म-संग्रह की सार्थकता है। उसी भाँति निःकांकित दान में ही समस्त अर्जन की सार्थकता है। दान नहीं तो अर्जन क्या खोरी ही न है ? अर्जन तो एक मिथ्याचार है, दान ही यत्किञ्चित् उसकी सत्यता प्रदान करता है। आत्म-साधक के लिए इसी से अपरिग्रह धर्म बताया है। जो जितना आत्म को पाता चलता है उतना ही वह पदार्थ से उत्तीर्ण होता और उस पदार्थ को छोड़ता चलता है। पर में से छूटे थिना स्व की उपलब्धि कहाँ ? इसले जो बाह में दान है, वह तो भीतर में लाभ है। सच्च ही सम्पूर्ण आत्म-लाभ का उपाय निशेष आत्मदान के सिवा दूसरा और नहीं रहता है। सब प्रकार के दानों में इस आत्म-दान की जिस अंश में सिद्धि होती हो असल में वहाँ उतना ही सार मानना चाहिए।

दीन की बात

उस दिन एक तीर्थ पर देखा कि सङ्क के दोनों और पाँत-के-पाँत भिखारी बैठे हैं। उनमें बालक हैं, बृद्ध हैं, स्त्रियाँ हैं। कुछ अपहृत है, ज्यादा रोगी हैं, सभी दोन हैं।

अधिक तीर्थों की यात्रा का लाभ सुझे नहीं मिला है। इससे ऐसा दृश्य सामने पाने का मेरे लिए यह पहला मौका था। उन भिखारियों की तादाद थोड़ी नहीं थी। उस वज्ञ तो ऐसा मालूम हुआ। जैसे उनकी गिनती का अन्त ही नहीं है। मील-सवा-मील चलते दले जाइए राह के दोनों किनारे उन्हीं उनसे भरे थे।

एक बार तो उनके सामने होकर मन बैठने लगा। आगे बढ़ा नहीं जाता था। जी हुआ कि चलो लौट चलो। उन आदमियों की पुकार ऐसी थी कि बल ! आदमी में कुछ आदमियत होनी चाहिए, तनिक हृज्ज्ञत का भी खयाल चाहिए। पर हृज्ज्ञत का खयाल या आदमियत का सवाल जैसे उन्हें छू भी न गया हो। मानो कोई काम नहीं जो आपसे पैसा पाने के लिए वे नहीं कर सकें। मनुष्यता का यह रूप सहना भला। किसके लिए आसान है। मैं जानता हूँ कि यह छुद उनके लिए आसान नहीं है।

औरों की क्या कहूँ ? मैंने तो तथ एक काम किया। कठोरता से अपनी आँखों को नीचा कर दिया। इधर-उधर देखूँ ही क्यों, जब देखना

दूभर होता है। पर पलक से ओङ्कल करने से क्या सचाई को ओट में डाला जा सकता है? इससे सच पूछो तो, इस तरह मैंने अपनी मान की ही रक्षा की।

उस सङ्कट के समय सौभाग्य से मुझे अपने से एक सांत्वना प्राप्त हो सकी। वह यह कि उस वक्त मैं भी पैसे का स्वामी नहीं था। (शायद इसी कारण हो कि) तब आँख नीची करने पर एक बात अत्यन्त सत्य के रूप में मेरे भीतर स्पष्ट हो उठी। वह बात यह कि खुद पैसे बाजा होना भिखारी के भिखारीपन में सहायी होना है। धन-वान होना निर्धन का व्यञ्जन करना है। और कि यदि सचमुच हम दीन के प्रति प्रेम से खिंचकर सेवा-सहायता करना चाहते हैं तो उसकी दिशा यही हो लक्षी है कि हम और वह बराबरी पर आकर भिलें। पर क्योंकि सब दीन धनिक नहीं बल सकते, यानी मैं सबको धनिक नहीं बना सकता, इससे बराबरी का एक ही मार्ग रह जाता है। वह मार्ग यह कि मैं स्वयं स्वेच्छा-पूर्वक दीन बन लूँ।

जान पड़ता है कि इस अनुभूति के सहारे मन को टिकाकर उस सङ्क चले चलना उस समय में बहुत काहे सका, नहीं तो...

केकिन हजारों स्त्री-पुरुष भी रोज इस सङ्क पर आते-जाते हैं। उभी तो जाने कहाँ-कहाँ के भिखारी यहाँ आ जमा हुए हैं। उन शत-सहस्र नर-नारियों के मन की हालत मैं नहीं जानता। अधिकांश उनमें दीर्घ-यात्री पुरुषार्थी होते हैं। दूर-देश से कष्ट उठाकर भक्ति-भाव से भरे वे आते और कुछ अतिरिक्त कष्ट उठाकर तीर्थ-दर्शन करके फिर अपने दूर-देश चले जाते हैं। इन हाथ कैलाए बैठे कङ्गालों को राह में वे दान भी करते जाते हैं। अनन्त देते हैं, वस्त्र देते हैं, पाई-धेला-पैसा देते हैं। वे कोमल नित के लोग दया से श्रवित होकर दान-पुरुष द्वारा अदाना और दीनों का गता करते हैं।

मुझ इस दया के विषय में कुछ कहना नहीं है। जो दया कर सकता है उसे दया करनी चाहिए। केकिन यह भाव मेरे मन में ज़रूर उठती है

कि अपने को दयावान की जगह पर पाना और हस तरह दूसरे को दयनीय स्थिति में छालना क्या उचित है ? क्या हससे हालत कुछ सुधरती है ? क्या यों विषमता बढ़ती ही नहीं है ? क्या हससे खेड़ा थोड़ा भी निपटता है ? क्या हससे भिखारी से उसका भिखारी-पन तनिक भी उतर कर दूर होता है ? क्या ऐसी दया अपने दायित्व से बचने का ही एक जरूर नहीं है ? यह दया आत्म-विसर्जन के विरोध में आत्म-संरक्षण का ही एक ढंग नहीं है ? क्या आत्म-उलानि को हस बहाने हम टांब ही नहीं जाते हैं ? एक मुट्ठी नाज या उतरा कपड़ा या ताम्बे का पैसा देकर क्या अपने मान को ही दुरुस्त रखने की कोशिश हम नहीं करते हैं ?

दया ग्राहत नहीं है । लेकिन विचारवान के लिए क्या वह दया काफी हो सकती है ?

पर यहाँ हम सावधान रहें । दया में कुछ देना ही होता है । चाहे स्थूल हो, या 'सूचम, दया में त्याग अनिवार्य है । त्याग से बचने के लिए दया से बचना पाप है । तर्क-वितर्क करके जो त्याग-रूप कर्तव्य से ही छुट्टी पा लेता है, सुझे हसमें सन्देह है कि वह कोई ठीक काम करता है । सन्देह है कि ऐसा तर्क-वितर्क घोरतर आत्म-प्रबंचन ही तो नहीं है ? मैं स्वीकार करूँ कि जो त्याग से बचा है, वह अवश्य प्रबंचक है ।

तर्क के सहारे त्याग से बचा जा सकता है, बचा जाता है । वैसा तर्क विलाशकारी है । किन्तु देख यह भी पड़ता है कि दया-भावना भी उस त्याग-धर्म से छुटकारा पाने के काम में आती है । पैसा या कपड़ा या नाज देकर जैसे हम खुद अपने को देने के धर्म से बच जाते हैं, ऐसा त्याग यहारे स्वार्थ-त्याग से हमें बचा देता है और एक तात्कालिक चैन हमें पहुँचा देता है ।

सवाल होगा कि तो क्या फिर दीन की खातिर स्वयं दीन अनना होगा ? इस तरह क्या दीन की दीनता दूर हो जायगी ?

कहा जायगा कि हम खुद धनिक होकर निर्धन में जो एक छाह और

द्वेष और स्पर्द्धा की भावना जगाते हैं, उससे यदि निर्धन व्यक्ति चाहे तो उसका भक्ता ही हो सकता है। हस प्रकार उसमें अपनी हालत में असन्तोष जागता है, वेचैनी पैदा होती है। आशा की जा सकती है कि ऐसे ही चैतन्य उसमें चेत जायगा और कर्तृत्व और कर्मयता भी प्रकट हो आयगी। जो नीचे है, गिरा हुआ है, उसके लिए खुद गिर जाना गलत होगा। सही यही होगा कि हम बराबर ऊँचे ही चक्के जायें, जिससे कि निम्न की निम्नता उसे और भी चुभने लगे और वह भी उठने का जलन करने लगे। बराबरी हो तो ऊँचाई पर होनी चाहिए न। मैं धनाढ़ी हूँ और बराबरी हुई रखी है अगर निर्धन भी मेरे जैसा बन जाय। पर अगर मैं उसे अभी बराबरी का दर्जा दूँ तो क्या यह उसकी निर्धनता को उचित ही स्वीकार कर लेना न होगा? हस इष्ट से धनिक होकर मैं अपने को मुक्ता नहीं सकता और खुद निर्धन के हक में सुझे उसके बराबरी के दावे को नहीं सुनना चाहिए।

इस प्रकार की दलील से धनाढ़ी के और अधिक धन-संग्रह करने की धुन का समर्थन किया जा सकता है और निर्धनों को हिकारत की नज़र से देखा जा सकता है। तिस पर समझा जा सकता है कि वह हिकारत की नज़र निर्धन को उन्नत होने की प्रेरणा देगी।

जैकिन मेरे चित्त को ऊपर का तर्क नहीं छूता। मुझे वह आनंद मालूम होता है। उसकी जड़ खुदी और खुदगर्जी में हुबकी हुई मालूम होती है।

समता के दो प्रकार कहे जा सकते हैं। एक यह कि मैं मानूँ कि मुझ से बड़ा कोई नहीं है। बड़े-से-बड़े के मैं बराबर हूँ। और जो हठात मुझे अपने से बड़ा दीखता हो, आखोवना से ठाँग पकड़कर उसे अपने अराधश खींचने की कोशिश करूँ। यह एक प्रकार है।

दूसरा प्रकार है कि मैं अपने से छोटा किसी को न मानूँ। जो अपने को छोटा मानता है, उससे इस प्रकार व्यवहार करूँ कि वह अपने चुटपन को भूल जाय। सब का मान करूँ। आखोवना करूँ तो

अपनी ही, या दूसरे की तो प्रेम-वशात्, और छोटे से भी छोटा अपने को मानने को तैयार रहूँ।

पहला बताता है कि मैं किसी को बढ़ा न मानूँ। दूसरा सुझाता है कि मैं किसी को छोटा न समझूँ।

मेरा विश्वास है कि पहले ढंग से बराबरी नहीं बढ़ेगी, बढ़ा-बढ़ी बढ़ेगी और विषमता बढ़ेगी। और सच्ची समता यदि समाज में थोड़ी-बहुत कभी कायम भी होगी तो वह दूसरी ही पद्धति को अंगीकार करने से होगी, अन्यथा नहीं।

मैं इस चाद को गलत मानता हूँ कि मैं धनवान बनूँ। मुझे कोई हङ्ग पेसी इच्छा रखने का नहीं है। पेसी तृष्णा असामाजिक है, यानी सामाजिक अपराध है। इसमें ज़रूरी तौर पर यह शामिल है कि मैं दूसरे को निर्धन देखना चाहता हूँ। धनवान होने में स्वाद तभी तक है जब तक कि पढ़ौस में कोई निर्धन भी है। आगर मुझे उस स्वाद का लोभ है, वह रस मुझे अच्छा लगता है, तो यह बात झूँड है कि मुझे दीन की दीनता बुरी लगती है। दीन के दैन्य में मुझे जब तक आन्द-रुनी तृष्णिं है, तभी तक स्वयं धनवान होने की तृष्णा मुझमें हो सकती है। मैं मानता हूँ कि वैसी तृष्णा में आहंकार का सेवन है। और आहंकार को चैन तभी मिलता है जब दूसरा अपने से नीचा मालूम होता है।

व्यवहार में देखें कि धनवान का क्या अर्थ होता है। चारों ओर मौजूदियाँ हों और उनके बीच मेरा मकान पक्की ईटों का बना ही तो मैं अपने को धनवान लगूँगा। मुझे उस मकान का मालिक होने पर यार्दि होगा। वही मकान यदि शहर में है, जिसके आस-पास आलीशान हवेलियाँ हैं, तो वही मुझे अपनी दीनता का प्रमाण मालूम होगा और मैं उस पर लजिज्जत दीखूँगा। इससे धनवान होने की इच्छा में ही गर्भित है कि कोई दीन भी हो। हम धनवान होना चाहते हैं, यानी हम दीन को दीनतर बना देना चाहते हैं।

इसलिए जो नीति तुम्हें और हमें सांसारिक सम्पन्नता के रास्ते पर

आगे-से-आगे बढ़ने की ओर उकसाती है, वह नीति शरीरों के हङ्क की नहीं है। वह उग्रका भला नहीं चाहती। सच पूछा जाय तो उस नीति के पेट में नीयत स्वार्थ की है। उस नीयत का मुँह बाहर न दीखता है, पेट में छिपी उसकी जड़ है ज़खर।

उसके विरोध में जो नीति सब के भले का दावा करना चाहती है; खास तौर से गरीबों का, यानी हर देश और हर काल के बहुसंख्यक वर्ग का, भला करना चाहती है, वह दुनिया की तृष्णा और संचय के लोभ पर खड़ी नहीं हो सकती। सार्वजनिक हितकर्म की नीति धन नहीं, मन चाहेगी। यह अमीर बनने को बड़ा बनना नहीं मान सकती। वह पैसे पर आश्रित सम्बन्धों को बदावा नहीं दे सकती।

अगर समाज एक है तो दीन की दीनता के द्वेष से हम अपने को अदूता नहीं मान सकते। अगर दीनता के कारण उस आदमी में मनुष्यता तक नहीं रह गई है, वह जानवर और अपराधी बनता जा रहा है, तो याद रखना चाहिए कि हम अपनी अमीरी निष्क्रियता से उसमें भद्र दे रहे हैं। अपनी आराम-देह स्थिति से चिपट कर हम उसकी तकलीफ को कायम बना रहे हैं। उसका मनुष्यता पर से विश्वास उठता जा रहा है तो क्या इसलिए नहीं कि हम लोग उसका विश्वास करने को तैयार नहीं होते? समाज-मान्य हम लोग उससे बन्धु-भाव से व्यवहार करने को तैयार नहीं हैं तो वह क्यों न समाज-झोही हो? क्या हम उसे इस प्रकार लाचार ही नहीं करते कि वह मानवता का छेष्ठी बन आये?

आशय यह नहीं कि व्यक्ति के हुःख का दोष मैं व्यक्ति पर से टाल कर एकदम समाज पर ढाल देना चाहता हूँ। व्यक्ति अपने हुःख के सम्बन्ध में निर्दोष तो हो ही नहीं सकता। कर्म फल का हिंदान्त अटल है और वह सर्वथा वैज्ञानिक है। पर वह यात व्यक्ति पर समाप्त होकर क्या जुँक जाती है? व्यक्ति का हुःख समाज के लिए मुन है। इसलिए हुँखी व्यक्ति के हुःख का सवाल हमारा-तुम्हारा यानी उन-

खोगें का सबाल भी है, अदिक उसका प्रमुखता से है, जो अपेक्षाकृत समाज में सुख-चैन से हैं।

दीन की बात करते समय हमको याद रखना चाहिए कि वह दृष्टि का अभाव नहीं है जो उसको और हमको कष्ट देता है। इस हेतु से जो उसमें धीमे-धीमे मनुष्यता का ही अभाव होने लगता है, वही सोच और गतानि और परिताप का कारण बनता है। सब काल और सब देशों में ऐसे पुरुष हो गये हैं जिन्होंने पास धन नहीं किया पर जो उसी कारण गदामान्य समझे गये। अतः गरीबों की गरीबी का सबाल एकदम आधिक है यह नहीं भावना चाहिए। सिर्फ धन का न होना दरिद्र का बाबूया नहीं है। उसका सहारा लेकर जो बेवसी और ओङ्कार की भावना आदमी में समा जाती है, असबी रोग तो वह है। और इस लिहाज से एक और दीन का प्रश्न नैतिक प्रश्न है। बेशक पहली आवश्यकता है कि उसको खाने को अनाज मिले, पहलने को कपड़ा। लेकिन सीधा दान में नाज-कपड़ा देकर क्या उसमें मानवोचित आत्म-सम्मान पैदा होने की सम्भावना को हम बढ़ाते हैं? वह आत्म-सम्मान अर्थदान से उसमें पैदा न होगा। वह तो आत्मदान से ही उसमें जारेगा। हर दालत में जब हम उसकी इन्सान की दृष्टियत मानते को तैयार होंगे, उसके साथ उसी इज्जत से पेश आवेंगे, तभी वह अपने को इन्सान समझेगा और बनना शुरू करेगा। उससे पहले भीख में और दान में बहुत-सा माल पाकर भी वह समाज के लिए खतरा और दूषण ही बना रहेगा।

तो बुनियाद में समस्या यदि नैतिक है तो उसका सुलभाव नीति-धन से होगा, स्थूल-धन से नहीं हो सकेगा। नीति का धन क्या? वह धन है धीति की वेदना। बेसी शुद्ध नैतिक भावना, यानी वेदना, को साथ लेकर ही उस समस्या के समाधान की ओर बढ़ा जा सकेगा। नहीं तो जो तवियत धन की कमती-अकृति से आदमी-आदमी में भेद करती है, जो निर्धन को नीच और धनवरान को ऊसी कारण ऊच गिनते

की आदी है, उस तविशत के साथ दीन-दुखों के सवाल को छूना भी उचित नहीं है। उससे उलझन और बढ़कर रह जायगी। उससे विष-मता कुछ उभरेगी ही। समस्या को खोलने के अधिकार के लिए वह मनोवृत्ति आहिए जो धन से हँसान को नहीं तोलती और जो अपने से निम्न किसी को मानने को तैयार नहीं है। समस्या हल होगी तो उस मन के धनी द्वारा जो दरिद्रनारायण की कल्पना कर सकता है, जो दरिद्र की सेवा प्रायश्चित्त और आत्मशुद्धि के रूप में करने को विवश है। जो वैसी सेवा को उपकार या अहसान गिनता है, वह कृपया अपने उपकार को लेकर दूर ही रहे। उसके प्रति दीन की भावनाएँ यदि भीतर से देखी जायें तो जान पड़ेगा कि वे कृतज्ञता या आभार की नहीं हैं, पर बहुत-कुछ गुस्से की हैं। मानो लिहाज से रुका न रह जाय तो वह कह ही चैठे कि 'तुम हो कौन उपकार का इस भरने वाले ! सब तरह का कुकर्म करके पहले तो घर भर बैठे हो, अब उनमें से दो पैसे दिखाकर धर्म करने चले हो ! यह पैसा तुम्हारा हुआ कैसे ? दूसरों की सुखा और सताकर तुमने यह कमाया है। इसी पर अहसान तुम्हारा मानें ? और हम जो मेहनत करते हैं ? जाओ, बस अपनी सूखत दूर ले जाओ। नहीं तो.....'

मुझे बहुत सन्देह है कि अगर हार्दिक स्नेह से नहीं बल्कि थोड़ी-भी कृपा-भावना के साथ हम गरीब के दुःख को छूने चले हैं, फिर कितना ही प्रोग्राम (कार्यक्रम) हमारा उस दुःख को दूर करने का हो, हम उसमें वही उद्धृत आवेश की मनोदशा उत्पन्न करने के निमित्त होंगे। इस तरह की कृपा-भावना अनैतिक है। सच्ची नीति की ताकीद तो यह है कि हम अपने को दीन का भी बन्दा और सेवक मानें। मानें ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से वैसा बनने का उद्योग करें। दरिद्र की सेवा का अवसर पाकर हम अपने ऊपर उसका उपकार मानने को तैयार हों। दारिद्र्य मिटाना हमें अपने ही मन का दोष मिटाने-जैसा मालूम हो। अगर यह मनोवृत्ति नहीं है तो मैं कहता हूँ कि दीन की दशा में कोई

सुधार नहीं किया जा सकता है। दीनावासों, अनाथालयों और आश्रम-सेवनों से हानि बची नहीं है, बढ़ी है। सबाल को आर्थिक और सिर्फ आर्थिक समझे जाने को ही सुधारना होगा। इष्ट उसका आर्थिक हो, पर मूल में अर्थ पहुँच गया है तो अनर्थ है। मूल में तो हादिक बेदना ही हो सकती है। बेदना यानी विशर्जन और त्याग। और जहाँ मूल में वह नहीं है, वहाँ तमाम आर्थिक योजनाएँ विफल हैं। विफल ही नहीं, विलिक वे हुएकल आगे ला सकती हैं। यह बात आजकल इसलिए भी कहना आवश्यक होगया है कि विज्ञान के नाम पर अर्थ को मूलाधार माना जाने लगा है और विचार-मात्र को आर्थिक बाहा जाता है। लोग हैं जो आदमी कुन्जी अर्थ में देखते हैं। वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ होता है, अर्थ-प्रयोजन को सामने लेकर होता है। कि स्वार्थ ही मनुष्य की प्रेरणा है। लेकिन वे नहीं जानते, वे सही नहीं हैं। अगर यही सही होता तो सब सबाल लामास थे। तब हिंसी को किसी से क्यों गरज होती। लेकिन ऐसा न हो सकेगा। एक का सबसे नाता है और अगर दूसरे का हुँख उसे नहीं हूता तो वह अदमी नहीं है, जड़ है। मैं जड़ नहीं हूँ, अगर इसका प्रमाण है तो यही कि मैं दूसरे के हुँख में हुखी हो सकता हूँ, मुझ में संवेदन है। और अगर यह सच है तो मनुष्य वह सच्चा और वह डॉचा और वह श्रेष्ठ है जो अधिक-से-अधिक हुँख को अपना सकता है यानी उसके लिए अपना अधिक-से-अधिक उत्सर्ग कर सकता है, जो निरन्तर सब के लिए होम होता रहता है।

मुझे दीखता है कि उसी और चलना सच्चा उपाय है। नहीं तो हुँख के सबाल की कोई और पकड़ नहीं है।

व्यवसाय का सत्य

एक दोज़ एक भेद ने मुझे पकड़ लिया। बात यों हुई। मैं एक मित्र के साथ बाज़ार गया था। मित्र ने बाज़ार में कोई डेढ़ सौ रुपये खर्च किये। सो तो हुआ, लेकिन वर आकर उन्होंने अपना हिसाब लिखा और खर्च खाते सिर्फ़ पाँच रुपये ही लिखे गये। तब मैंने कहा, “यह क्या?” बोले, “बाकी रुपया खर्च थोड़े ही हुआ है। वह तो हृन्देस्टमेण्ट है!”

हृन्देस्टमेण्ट : यानी खर्च होकर भी वह खर्च नहीं है, कुछ और है। खर्च और हस दूसरी वस्तु के अन्तर के सम्बन्ध में कुछ तो अर्थ की अलग साधारणतः येरे मन में रहा करती है; पर उस समय जैसे एक प्रश्न मुझे देखता हुआ सामने खड़ा हो गया। जान पढ़ा कि समझना चाहिए कि खर्च तो क्या, और ‘हृन्देस्टमेण्ट’ क्या? क्या विशेषता होने से खर्च खर्च न रहकर ‘हृन्देस्टमेण्ट’ हो जाता है? उसी भेद को यहाँ समझकर देखना है और उसे तनिक जीवन की परिभाषा में भी फैलाकर देखेंगे।

रुपया कभी जमकर बैठने के लिए नहीं है। वह प्रवाही है। अगर वह चले नहीं तो निकम्मा है। अपने हस निरन्तर जमण में वह कहीं-कहीं से चलता हुआ हमारे पास आता है। हमारे पास से कहीं और चला जायगा। जीवन प्रगतिशील है, और रुपये का गुण भी गति-

शीलता है। रुपये के इस प्रवाही गुण के कारण यह तो असम्भव है कि हम उसे हीक रखें। पहिले कुछ लोग धन को ज़मीन में गाड़ देते थे। गढ़ा हुआ धन वैसा ही सुर्दा है जैसे गढ़ा हुआ आदमी। वह बीज नहीं है जो धरती में गड़कर उगे। गाड़ने से रुपये की आब विगड़ जाती है। फिर भी उसमें प्रत्युत्पादन शक्ति है, उस शक्ति को कुशिष्ट करने से आदमी समाज का अलाभ करता है। खैर, रुपये को गड़कर निकला बना देने या उसे कैदखाने में बन्दी करके ढाल देने की प्रवृत्ति अब कम है। रुपया वह है जो जमा रहने-भर से सूद लाता है। सूद वह इसलिए लाता है कि कुछ और लोग उस रुपये को गतिशील रखते हैं, वे उससे मुनाफ़ा बढ़ाते हैं। उसी गतिशीलता के सुनाएं का कुछ हिस्सा सूद कहलाता है।

रुपया गतिशील होने से ही जीवनोपयोगी है। वह दृष्टान्तरित होता रहता है। वह हाथ में आता है तो हाथ से निकलकर जायेगा भी। अगर हमारे जीवन को बढ़ना है तो उस रुपये को भी व्यय होते रहना है।

लेकिन उस व्यय में हमने ऊपर देखा कि कुछ तो आज 'व्यय' है, कुछ आगे बढ़कर "पूँजी" हो जाता है—"हून्वेस्टमेण्ट" हो जाता है। समझना होगा कि सो कैसे हो जाता है।

कल्पना कीजिए कि दिवाली आने वाली है और अपनी-अपनी माँ से राम और श्याम को एक-एक रुपया मिला है। राम अपने रुपये को कुछ खिलाने, कुछ तस्वीरें और फुलझड़ी आदि लेने में खर्च करता है। श्याम अपने आरह आने की तो ऐसी ही चीजें लेता है, पर चार आने के वह रंगीन कागज लेता है। उसने शहर में कन्दील बिकते देखे हैं। उसके पिता ने घर में पिछले साल एक कन्दील बनाया भी था। श्याम ने सोचा है कि वह भी कन्दील बनायेगा और बनाकर उसे बाजार में बेचने जायेगा। सोचता है कि देखें क्या होता है!

राम ने कहा—श्याम, यह कागज तुमने क्यों लिये हैं? इसके

बदले में वह मेमसाहब वाला खिलौना ले लो न, कैसा अच्छा लगता है !

श्याम ने कहा—नहीं, मैं तो कागज़ ही लूँगा ।

राम ने अपने हाथ के मेमसाहब वाले खिलौने को गौरवपूर्ण भाव से देखा और तकिया सदय भाव से श्याम को देखकर कहा—अच्छा !

राम ने श्याम की इस कार्यवाही को नासमझी ही समझा है । राम के चेहरे पर प्रसन्नता है और उसने मेमसाहब वाले अपने खिलौने को विशिष्ट रूप से सामने कर लिया है ।

राम के घर में सब लोग खिलौनों से खुश हुए हैं, इसके बाद वे खिलौने टूट-फूट के लिए जापरवाही से छोड़ दिये गये हैं । उसी भाँति फुलझड़ियों में से जलते वक्त भाँति-भाँति की चिनगारियाँ लूटी हैं । जल कर फिर फुलझड़ियाँ समाप्त हो गई हैं ।

उधर यही सब श्याम के घर भी हुआ है । पर हसके बाद श्याम अपने रंगीन कागजों को लेकर मेहनत के साथ कन्दील बनाने में लग गया है ।

यहाँ स्पष्ट है कि श्याम के उन चार आनों का खर्च खर्च नहीं है, वह पूँजी (Investment) है ।

अब कल्पना कीजिये कि श्याम की बनाई हुई कन्दील चार आने से ज्यादा की नहीं बिकी । कुछ कागज़ खराब हो गये, कुछ बनाने में खूबसूरती न आई । हो सकता था कि वह चार आने से भी कम की बिकती । अच्छी साफ बनती तो सुमक्किन था, ज्यादा की भी बिक सकती थी । फिर भी कल्पना यही की जाय कि वह चार आने की बिकी और श्याम उन चार आने के फिर खोल-बताशे लेकर घर पहुँच गया ।

इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि राम को दिये गये ऐक रूपये ने चक्कर नहीं काटा । श्याम के रूपये ने ज़रा ज्यादा चक्कर काटा यद्यपि उन्नत तौर पर श्याम का रुपया भी सोलह आने का ही रहा और इस द्वितीय रुपये ने कुछ रोकपड़ भी उठाई । राम का रुपया भी बिना मेहनत

के सोलह आने का रहा। फिर भी दोनों के सोलह आने के रूपये की उपर्योगिता में अन्तर है। यह अन्तर श्याम के पञ्च में है और वह अन्तर यह है कि जब राम ने उसके सोलहों आने खर्च किये, तब श्याम ने उनमें के चार आने खर्च नहीं किये, बल्कि लगाये। उस लगाने का मतलब यही कि उसको लेकर श्याम ने कुछ मेहनत भी की और रूपये का भूल्य अपनी मेहनत जोड़कर उसने कुछ बढ़ा दिया। हम कह सकते हैं कि श्याम ने रूपये से बुद्धिमानी का व्यवहार किया और श्याम राम से होनहार है। मान लो, उसकी कन्दीलें धेले की भी न बिक सकीं, फिर भी यही कहना होगा कि श्याम राम से होशियार है। उसने घटे में रहकर भी रूपये में अधिक मूल्य ढाला।

प्रत्येक व्यय एक प्रकार की प्राप्ति है। हम रूपये देते हैं तो कुछ और चीज़ पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम दें और कें नहीं। और कुछ नहीं तो यह गर्व और सम्मान ही हम लेते हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे हैं। बिना हमें कुछ प्रतिफल दिये जब रूपया चला जाता है, तब हमें बहुत कष्ट होता है। रूपया खो गया, हमके यही माने हैं कि उसके जाने का प्रतिदान हमने कुछ नहीं पाया। जब रूपया गिर जाता है, चोरी चला जाता है, हूब जाता है तब हम को बड़ी बोट खागती है। एक पैसा भी बिना प्रतिदान में हमें कुछ दिये हमारी जेब से यदि चला जाय तो उससे हमें तुःख होता है। यों, चाहे हजारों हम उड़ा दें। उस उड़ाने में दर-श्रस्ता हम उड़ाने का आनन्द तो पा रहे होते हैं।

इस भाँति प्रतिफल के बिना कोई व्यय असम्भव है। किन्तु, प्रतिफल के रूप में और उसके अनुपात में तर-तमता होती है। और उसी तर-तमता के आधार पर कुछ व्यय अपव्यय और कुछ व्यय 'हन्वेस्टमेन्ट' हो जाता है।

उपर श्याम का और राम का उदाहरण दिया गया है। श्याम ने अपने रूपये में से चार आने का प्रति-फल जान-बूझकर अपने से दूर

बना लिया । उस प्रतिकल और उस बार आने के व्यवह के बीच में उसने कन्दील बनाने और उसे बाजार में जाकर बेचने आदि श्रम के लिए जगह बना छोड़ी । इसलिए वह चार आने का 'इन्वेस्टमेण्ट' कहा गया और श्याम को बुद्धिमान समझा गया ।

परिणाम निकला, प्रत्येक खर्च बास्तव में उपार्जन है यदि उस व्यवह के प्रतिकल में कुछ फासला हो और उस फासले के बीच में मनुष्य का श्रम हो । इसी को दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य और उसके श्रम के प्रतिकल के बीच में आकांक्षा की संकीर्णता न हो । अपनी तुरन्त की अभिलाषा को तृत करने के लिए जो व्यवह है, वह उतना ही कोरा व्यवह अथवा अपव्यवह है और उतना ही कम उपार्जन, इन्वेस्टमेण्ट अथवा सद्व्यवह है । अर्थात् प्रतिकल की दृष्टि से अपने व्यवह में जितनी दूर का, भोग की जगह उपयोग का, हमारा नाता है उतना ही उस व्यवह को हम उपार्जन या इन्वेस्टमेण्ट का रूप देते हैं ।

इस बात के अगले परिणाम पर पड़ूँचें, इसमें पहले यह जरूरी है कि इसको ही खुलासा करके समझें ।

हमारे पास रुपया है, जो कि हमारे पास रहने के लिए नहीं है । वह अपने चक्कर पर है । हमारे पास वह इसलिए है कि हमारी ज़खरतों को पूरा करने में साधन यन्नने के बाद हमें अतिरिक्त स्फूर्ति ढालने और हमें अस में प्रवृत्त करने में सहयोगी बने । हम जियें और कार्य करें । हम जीवन-कार्य की प्रक्रिया में ही रुपये की गतिशीलता घटित हो और सार्थक होती है ।

स्पष्ट है कि रुपया असल अर्थ में किसी का नहीं हो सकता । वह चाँदी का है । वह प्रतीक है । उसका बँधा मान है । वह निश्चित-सामर्थ्य का धोतक है । सामर्थ्य यानी इनर्जी (energy) । जब तक वह रुपया इनर्जी का उत्पादक है, तभी तक वह ठीक है । जब इनर्जी उससे नहीं लो जाती, उसे अपने-आप में माल और दौलत समझकर बढ़ोरा और जमा किया जाता है, तब वह रोग का कारण बनता है ।

जिसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है वह उस रूपये के इनर्जी-रूप को कायम रखने की ही पद्धति है। उसका हस्तान्तरित होते रहना गति-चक्र को बढ़ाने और तीव्र करने में सहायक होता है। यानी इस हाथ से उस हाथ जाने की किया में पैसा पहले हाथ से गया, खर्च हुआ, और दूसरे में आया, यानी आमद हुई, वह समझा जाता है। इस पद्धति में वह किञ्चित् कहीं ठहरता भी है। वास्तव में गति अवस्थान के बिना सम्भव नहीं होती। चेतन व्यक्त होने के लिए अचेतन का आश्रय लेता है। इनर्जी अपने अस्तित्व के लिए 'डेडमैटर' की प्रार्थिनी है। पर जैसे नींद जागरण के लिए आवश्यक है—नींद अपने आप में तो प्रसाद ही है,—जागरण की सहायत होकर ही वह स्वास्थ्य-प्रद और जरूरी बनती है; वैसे ही वह संचय है जो किसी कदर पैसे की चाक को धीमा करता है। किन्तु, प्रत्येक व्यय यदि अन्त में जाकर 'इन्वेस्टिगेट' नहीं है, तो वह हैय है। हम भौजन स्वास्थ्य के लिए करते हैं और सेवा के कार्य के लिए हमें स्वास्थ्य चाहिए। इस इष्ट से भौजन पर किया गया खर्च उपार्जन बनता है। अन्यथा, रसना लोकुपता की बजह से भौजन पर किया गया गया अनाप-शनाप खर्च के बल व्यय रह जाता है और वह मूर्खता है। वह आशक में एक रोग है और भाँति-भाँति के सामाजिक रोगों को जगाता है।

जहाँ-जहाँ व्यथ में उपयोगबुद्धि और विवेक-बुद्धि नहीं है, जहाँ-जहाँ उसमें अधिकाधिक महत्व बुद्धि है, वहाँ-ही-वहाँ मानो रूपये के गखे को घोटा जाता है और उसके प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। सच्चा व्यवसाथी वह है जो सपथे को काम में लगाता है और अपने अम का उसमें योग-दाव देकर उत्पादन बढ़ाता है। सच्चा आदमी वह है जो कर्म करता है और कर्म के फलस्वरूप और कर्म करता है। हम देखते आ रहे हैं कि वह व्यक्ति रूपये का मूल्य उठाना नहीं जानता जो उसे बस खर्च करता है। रूपये की कीमत तो वह जानता है जो उसे खर्च करने के लिए ही खर्च नहीं करता, प्रत्युत मेहनत करने के लिए

खर्च करता है। रुपये के सहारे जितना अधिक श्रम-उत्पादन किया जाय, उतनी ही उसकी सार्थकता है।

हमने ऊपर देखा कि पैसे का पूँजी बन जाना और खर्च का कमाई हो जाना उसके प्रतिकल से अपना यथासाध्य अन्तर रखने का नाम है। स्पष्ट है कि वैसे फासले के लिए किसी कदर बेशरजी की ज़रूरत है। मनुष्य की गरज उसे दूरदर्शी नहीं होने देती। गरजमन्द पैसे के भासले में सच्चा बुद्धिमान् नहीं हो सकता। हम यह भी देख सकेंगे कि मनुष्य और उसकी ज़रूरतों के बीच में जितना निष्पृहता का सम्बन्ध है उतना ही वह अपने 'इन्वेस्टमेण्ट' के आरे में गहरा हो जाता है। जो आकांक्षा-त्रस्त है, विषय-प्रवृत्त है, वह रुपये के चक्र को तंग और संकीर्ण करता है। वह समाज की सम्पत्ति का हाथ करता है। वह इनर्जी को रोकता है और इस तरह विस्कोट के साधन उपस्थित करता है। प्रवाही वस्तु प्रवाह में स्वच्छ रहती है। शरीर में सून कहीं सुक जाय तो शरीर-शाश अवश्यम्भावी है। जो रुपये के प्रवाह के लद पर रहकर उसके उपयोग से अपने को स्वस्थ और सश्रम बनाने की जगह उस प्रवाही द्रव्य को अपने में खींचकर संचित कर रखना चाहता है वह मृढ़ता करता है। वह उसकी उपयोगिता का हनन करता है और अपनी भौत को पास लाता है।

यादर्श अलग। हम यहाँ व्यवहार की बात करते हैं, उपयोगिता की बात करते हैं। दुनिया क्यों न स्वार्थी हो ? हम भी स्वार्थ की ही बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्यों न समृद्ध बने ? यहाँ भी उसी समृद्धि की बात है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी हो और हरएक व्यवसायी गहरा और अधिकाधिक कुशल व्यवसायी बने। हम देखते हैं कि व्यवसायी ही हैं जो मालदार है। यह श्रहेत्रक नहीं है। यह भी हम जान रखें कि कोई महापुरुष, ऊँचा पुरुष, अव्यवसायी नहीं होता। हाँ, वह ज़रा ऊँचा व्यवसायी होता है। हम यही दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में अच्छे-से-अच्छा सौदा करना चाहिए। कोई हर्ज

नहीं आगर दुनिया को हाट ही समझा जाय। लेकिन जिसके बारे में एक भक्त कवि की उन्हि उल्लहने में कही जा सके कि उतने—

“कौड़ी को तो खूँ सँभाला लाल रतन को छोड़ दिया।”

उस आदमी को बता देना होगा कि लाल रतन क्या है और क्यों कौड़ी से उसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए।

हमारी गरज़ आँखों को बाँध देती है। ईश्वर की ओर से मनुष्य की आज्ञानता के लिए बहुत सुविधा है। बहुत कुछ है जहाँ वह भरमा रह सकता है। लेकिन अपने से क्या होगा? हम अपने ही चक्रकर में पड़े हैं। जैसे फुलभट्टी जलाकर हम रंग-बिरंगी चिनगारियों को देखते हुए खुश हो सकते हैं, वैसे ही आगर चाहें तो अपनी ज़िन्दगी में आग लागाकर दूसरों के तमाशे का आवन बन सकते हैं। लेकिन पैसे का यही उपयोग नहीं है कि उसकी फुलभट्टी खशीदी जाय, न जोवग का उपयोग ऐश और आराम है। धन-संवर्धन से अपनी सामर्थ्य नहीं बढ़ती। धन की भी सामर्थ्य कम होती है। इनर्जी को पेट के नीचे रखकर सोने में कुशल नहीं है। ऐसे विश्वकोट न होगा तो क्या होगा?

पैसा नष्ट नहीं होता। इससे यथार्थ में वह खर्च भी नहीं होता। पर अपने को उसके ज़रिये हम जुकाते हैं तब वह खर्च ही है। अपने में शक्ति लाते हैं, तब वह खर्च उपार्जन है। पैसा संवर्धन के लिए है। संवर्धन, यानी जीवन-संवर्धन। धन का व्यय जहाँ संवर्धनोन्मुख नहीं है, वहाँ वह असामाजिक है, अतः पाप है। विकासोन्मुख व्यय से सम्पत्ति नहीं, दीनता बढ़ती है।

धन में लाजसा उस धन की उपयोगिता को कम करती है। ग्रन्ति-फल में हमारी गरज़ जितनी कम होयी, उतना ही हमारे और उसके बीच फासला होगा, उतना ही उसमें अम समा सकने का अवकाश होगा। उस फासले के कारण वह फल उतना ही बृहद् और मानव के उच्चम द्वारा गुणानुग्रहित होता जायगा। वह गम्भीर और सत्य व्यवसाय है जहाँ कर्म का और व्यय का ग्रन्तिकल दूर होते-होते अन्तिम

उद्देश्य से अभिन्न अपृथक् हो जाता है। जहाँ इस भाँति फलाकांक्षा रहती ही नहीं। विज्ञान के, व्यवसाय के, और अन्य क्षेत्रों के महान् पुरुष वे हुए हैं, जिन्होंने तात्कालिक लाभ से आगे की यात देखी; जिन्होंने मूल-तत्त्व पकड़ा और जीवन को दायित्व की भाँति समझा; जिन्होंने नहीं चाहा विलास, नहीं चाहा आराम, जिन्होंने सुख की ऐसे ही परवाह नहीं की, जैसे दुख की। उनका तमाम जीवन ही एक प्रकार की पूँजी, एक प्रकार की समिधा, हृन्वेस्टमेण्ट बन गया। उनका जीवन बीता नहीं, वह हविय बना और सार्थक हुआ। क्योंकि वे एक उकार के प्रति, आदर्श के प्रति, एक उद्देश्य के प्रति समर्पित हुए।

अर्थ-शास्त्र के गणित को फैलाकर भी हम किसी और तत्त्व तक नहीं पहुँच पाते। यों अर्थ-शास्त्र अपने-आप में सम्पूर्ण एवं स्वाधीन विज्ञान नहीं है। वह अधिकाधिक राजनीतिगत है, पोलिटिक्स है। पोलिटिकल अधिकाधिक समाज-शास्त्र (Social Science) है। समाज-शास्त्र अधिकाधिक मानस-शास्त्र (Psychology) के प्रति सापेक्ष होता जाता है। मानस-शास्त्र की भी किर अपने-आप में स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति किर समाज में और उसका खण्ड है। और जो कुछ वह अब है उसमें समाज को तात्कालिक और तादेशिक स्थिति का भी हाथ है। इस तरह किर अर्थ का शास्त्र, मानस-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र और समाज-शास्त्र आदि के प्रति परस्परावलम्बित है।

अर्थ-शास्त्र के आंकिक सवाल बनाने और निकालने में हम उसके चारों ओर कीई बन्द दायरा न छढ़ा कर लें। ऐसे हम उसी चक्कर के भीतर चक्कर काटते रहेंगे, और कुछ न होगा। यह टीक नहीं है। यह उस विज्ञान को सत्य की सत्यता से तोड़कर उसे मुरझा डालने के समान है।

ऊपर हमने देखा है कि व्यावहारिक रूपये-पैसे के उपयोग का नियामक तत्त्व लगभग वही है जो गीता का अध्यात्म मन्त्र है—अनासक्ति निष्कामता। हस निष्कामता की नीति से कर्म का प्रतिफल नष्ट

नहीं होता, न वह हस्त होता है। प्रत्युत हस भाँति उसके तो असंख्य गुणित होने की ही सम्भावना हो जाती है। अत्यन्त व्यवहारिक व्यवहार में यदि वह तत्त्व सिद्ध नहीं होता है कि जिसे अध्यात्म का तत्त्व कहा जाता है, तो मान लेना चाहिए कि वह अध्यात्म में भी असिद्ध है, अ-यथार्थ है। अध्यात्म नहीं चाहिए पर व्यवहार तो हमें चाहिए। व्यवहार से असंगत अध्यात्म का क्या करना है। वह निकम्मा है। गीता में भी तो कहा है—‘योगः कर्मसु कौशलम्’।

इस दृष्टि से व्यक्ति यह न कह पाएगा कि सम्पत्ति उसकी है। इसमें सम्पत्ति की बाहु स्केगी। खून रकने से रोग होगा और फिर अनेक उत्पातों का विस्फोट होगा।

हमें अपने व्यवहार में व्यक्तिगत भाषा से क्रमशः ऊँचे उठते जाना होगा। हम कहेंगे सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं, वह सहयोग समितियों की है। कहेंगे, वह श्रमिकों की है। कहेंगे वह समस्त समाज की है, जो समाज कि राष्ट्र-सभा में प्रतिबिम्बित है। कहेंगे कि वह राष्ट्र की है। आगे कहेंगे कि राष्ट्र क्यों, वह समस्त मानवता की है। इसी भाँति हम बढ़ते जाएँगे। अन्त तक हम देखते जाएँगे कि बढ़ने की अब भी गुब्जायश है। किन्तु ध्यान रहे कि निराशा का यहाँ काम नहीं, व्यग्रता को भी यहाँ स्थान नहीं। हम पाने के लिए तैयार रहें कि यत्त्वपि तुद्धि-संगत (Rational) आदर्श में बढ़-चढ़कर हम मानवता से आगे विश्व और समष्टि की धारणा तक पहुँच सकते हैं। पर समष्टि कहने से व्यष्टि मिटता नहीं है। व्यक्ति भी है ही। वह अपने निज में अपने को इकाई अनुभव करता है। समष्टि हो पर वह भी है। उसे इनकार करेंगे तो वह समष्टि को इनकार कर उठेगा। चाहे उसे उसमें मिटना पड़े, पर वह स्वयं अपने को कैसे न माने? ऐसी जगह मालूम होगा कि व्यक्तिश्व की धारणा को ब्रह्मागड़ में भी चाहे हम व्याप देखें, पर पिण्ड में भी उसे देखना होगा। और उस समय विश्व-समष्टि आदि शब्दों से भी अनुभव करेंगे कि वे कैसे नामानुभव कर सकते हैं।

यह मानकर व्यक्ति अपनी सत्ता में सिद्ध भी बनता है। और वह सत्ता समष्टि के भीतर असिद्ध भी हो जाती है। विचार की दृष्टि से तो हम देख ही लें कि इसके बिना समन्वय नहीं है। इसके हृधर-उधर समाचान भी कहीं नहीं है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के भाव का उन्मूलन तभी सम्भव है जब हम मानें कि व्यक्ति की इच्छाएँ भी उसकी अपनी न होंगी, वह सर्वांशतः परमात्मा के प्रति समर्पित होगा।

इसलिए लोगों से कहना होगा कि हाँ, नेशनलिज़ेशन, सोशलिज़ेशन के लिए तैयार रहो। तैयार क्यों, उस और बढ़ो। लेकिन मालूम होता है कि सोशलिज़ेशन वालों से भी कहना होगा कि देखो भाई, उसके आगे भी कुछ है। उसके लिए भी हम सब उद्यत रहें, सचेष्ट रहें। फार्मूला कुछ बनाया है, इसमें हरज नहीं, पर फार्मूला फार्मूला है। फार्मूले से कहीं बहुत चिपट न जाना। ऐसे वह बन्धन हो जाता है।

ब्लैक-आउट !

‘ब्लैक-आउट’ का नाम सुना था, देखा अब। सात बजे से बाज़ार सुगंधान होने लगा। रोशनियाँ न जगीं। कहीं यत्ती थी तो उसे अपनी लाज ढकनी होती थी। गर्मी में और दिन इस बक्क मामूली तौर पर लोग दिन के ताप से छूटकर बगोचों-मैदानों में खिले-खुले घूमते थे, अब वे घरों में बन्द नहीं हैं तो दुबके और सहमे घूम रहे हैं।

क्योंकि ‘ब्लैक-आउट’ है। क्योंकि दिन टेढ़े हैं और आसमान से गोले बरस सकते हैं। क्योंकि कोई है जो खूँझार है और सबका दुश्मन है, और कभी भी आसमान पर छा आ सकता है। इससे ऐ नगर के वासियों, अव्धेरे में रहना सीखो। मत पता कागने दो कि नीचे जान है। अँधेरी रात में सन्नाटा भरे मुर्दे की तरह रह सकोगे तो स्नैरियत है, नहीं तो तुम्हारा भगवान् मालिक है !

दुश्मन सिर पर हवाई जहाज लेकर आ ही जाय, तब नीचे का ब्लैक-आउट उसकी या हमारी कितनी भद्रद करेगा, इसका हमें ठीक पता नहीं है। लन्दन सीखा-पढ़ा है, फिर भी बमों की मार खा रहा है। इससे ब्लैक-आउट के ज़ोर से दुश्मन के परास्त और हमारे सुरक्षित होने की सम्भावना कितनी बड़ जाती है, यह तो हम नहीं जानते। पर है यह एक नया अनुभव। मन पर उसका असर पड़ता है, मन मानता है कि ऐन सिर पर नहीं तो देहबी पर तो कोई भूल आ ही गया होगा।

लड़ाई के दिनों में सबसे कीमती चीज़ है दिलेरी। दिलेरी डर में से पैदा होती है। (यह मैं मारने वाली दिलेरी की बात कहता हूँ) डर हो तभी तो डराने वाले दुश्मन को मारने का उत्साह हो। इससे जिसमें से उत्साह बसूल करना है, उसमें पहले डर छायाना चाहिए। चाहा जाता है कि आदमी कमर बाँधकर खड़ा हो और चल पड़े लड़ने के लिए, तो यह हो गेसे ही सकता है कि हम एक में दूसरे का डर भरें।

डर न होने से एक बड़ा भारी झटका है। वह यह कि जिसको चाहा जाता है कि आप मारें, उसे दुश्मन तो नहीं बढ़िक आदमी के रूप में आप देखने लग जायें। असल में डर ही हो सकता है, जो आपके लिए किसी को दुश्मन बनाए। उस डर में से यह शक्ति आती है कि आप उसे दुश्मन मानकर मारें। कहीं यदि आप निडर हुए तो खटका है कि शत्रु शत्रु ही न रह जाय, वह आदमी दीख आय। तब उसको मारने लायक जोश भी आप में कहाँ रह जायगा। बस यही नामदी समझी जायगी।

*इसलिए शुद्ध-काल में सबसे आवश्यक तत्त्व है भय। भय के लिए धरती चाहिए हृषि और शृणा की। इस सब के संयोग बिना शत्रु से लड़ाई न होगी। भला ऐसे कैसे काम चलेगा?

इस तरह मुद्द नाम के ड्यूम-च्यवसाय आरम्भ करने से पहले इस प्रकार की तैयारियाँ काफी की जाती हैं। हथा में और मन में अविश्वास और धूणा और भय काफी मात्रा में भर जाता है। आदमी का मन उत्तर की कच्चा, उसमें अविश्वास उभारने के लिए बहुत चतुराई की ज़खरत नहीं है। स्वार्थ के आधार पर वह चलता ही रहा है। मकान बनाया, परिवार बनाया, सम्पत्ति बनाई। सदा आँकना रहा कि उस भकाग और परिवार और सम्पत्ति पर आँख न आये। किसी ने उस पर आँख की तो वह आँख ही निकाल लेगा। वल इस भौति उस आदमी के मन में भय भरने का सरज उपाय हो जाता है—उसके जान-माल को झूतेरे में

दिखला देना। ऐसे ही उसमें दिलेरी पैदा होती है। कहीं आगर उसके मन में यह लालसा भी लहकाई जा सके कि दूसरों का माल हड्डप करने का मौका है, तथ इस दिलेरी में और धार आ जायगी।

लालाई लड़ने वालों में यही दो पक्ष हैं, एक स्वार्थ-रक्षा में लड़ते और दूसरे स्वार्थ-विस्तार में लड़ते हैं। इन वृत्तियों को जगत् में तरह-तरह के नाम प्राप्त हैं—न्याय, कर्तव्य, धर्म हृत्यादि। स्पष्ट है कि जो आपनी तरफ न्याय और धर्म को मानता है, वह सबका सब अन्याय और अधर्म दूसरे के मार्थे पठकता है... स्वर्थ सभ्यता और संस्कृति का उद्धारक या प्रादुर्भाविक वह होता है, दूसरे को उसमें विघ्न रूप राख समानता है। ऐसे परस्पर का अविश्वास, बोश और घुणा तीव्रतर और लालाई अधिकाधिक अनिवार्य होती जाती है।

यह बिलकुल ज़रूरी है कि दुनिया लड़ रही है तो हम भी लुप न बैठें। बेशक आग के ऊपर आसन लगाकर बैठने और लपटों को उपदेश देने से लाभ नहीं है। आग से अप्रभावित रहने की बात में कुछ मतलब ही नहीं है। उसका अर्थ यही हो सकता है कि आग की झुलस ने अभी आपको छुआ नहीं है। यह कोई श्रेष्ठ की बात नहीं है। दुनिया के आप अंग हैं। यह कहकर कि धोती में आग लगी है कुर्ता निश्चन्त नहीं हो सकता। दुनिया एक है, तो उसके कई और अनेक देश भी परस्पर अनुबद्ध हैं। इसमें कोई तुक नहीं कि योद्धाओं के बीच आप कोरे उपदेशक बनें। यह तो दम्भ होगा। योद्धा पहचानता है तो योद्धा को। उपदेशक उसके लिए निकम्मा है। शत्रु पक्ष का ही घाहे हो, सच्चे योद्धा के लिए हर योद्धा में प्रशंसा होगी। युद्ध की भाषा ही उसे प्राप्त है। वही उसका साध्य, वही साधन, वही एक उसका तर्क। इससे युद्ध में शान्ति का उपदेशक सिवाय युद्ध की बर्बादता को भड़काने के और कोई सेवा नहीं कर सकता है। वह अपने लिए योद्धा का तिरस्कार ही प्राप्त कर सकता है।

किन्तु शान्ति यानी निवैर का उपदेशक नहीं योद्धा भी बना जाए

सकता है। असला में आज वही योद्धा चाहिए। योद्धा वह जो शरणी जान को तो हथेती पर खे अवश्य, पर दुसरे की जान को अवश्य देता हुआ आगे बढ़े।

वहले ही कहा कि शत्रु भय में से बनता है। जो विर्भय है वह अज्ञातशत्रु है, उसे जाकर किसको मारना है? पर जो भयभीत होकर उसे ही मारने के लिए आजा चाहता है, उसको तो उसके भय से छुटकारा दिखाना है। इसलिए उसे शत्रु मानकर नहीं, बल्कि अपना भूला हुआ लिन आनकर सच्चे योद्धा में उससे भेट करने की सैयारी चाहिए। तथा स्वयं अरकर शायद वह शत्रु की शत्रुता को भी मार दे। ऐसे ही शत्रु मित्र बनेगा।

भय-जात साहस भय-जात कायरता से तो अच्छा ही है। पर चूँकि दोनों भय-जात हैं इससे उनमें बहुत-कुछ समता भी है। हिंसक लड़ाई में दीखने वाला साहस एक प्रकार की कायरता ही है, और जब लड़ाई चल रही हो तो कायरता से बड़ा जुर्म कोहै नहीं।

ठैक आउट जन-हित में ही किया जाता होगा। पर उसमें सचुम्बु हित होता है वह संदिग्ध है। हिंसाब लगाकर देखना चाहिए कि उससे कितनी जानें बचीं। बचने वाली जानें कुछ हों भी, पर वह सच है कि उससे सब लोगों में एक दहख पैदा होती है। उस दहख के नीचे सामरिक कर्मसंघता को स्फूर्ति भी पैदा होती होगी। इससे तविधित में हौला और शायद उस कारण वस्तुस्थिति की भयंकरता का आतंक भी अब सकता होगा। ये चारों ओर आरंका के बालक और शत्रु के बड़यन्न हैं, कुछ ऐसी प्रतीति लोगों के मनों में हडात् घर कर सकती है। सामरिक मनोवृत्ति को फैलने और मज़बूत करने के काम में यह भारी मदद-गारङ्गदम है और उस दृष्टि से अवश्य उपयोगी है।

कहा जाएगा कि शूर्व के स्वर्ग में आप रहिए। हम तो नशर्वता में रहते हैं। सब यह देखना है। हजारों जानें जो जा रही हैं। और आप कहना चाहते हैं कि दुर्शमनी अम है? दुर्शमनी अच्छी बात

वहीं ये हम भी जानते हैं, पर कहने भर से वह मिट जाती तो यात ही क्या थी। इसलिए उसे हम स्वीकार करके ही चल सकते हैं। आप अन्धे हठ में मानते रहिए उसे यापना मिल, पर वह आएगा और आपको और आपकी मिलता को पल-भर में स्वाहा कर देगा। वहीं, हम यह मूर्खता नहीं कर सकते। शत्रु आता है तो हम कहेंगे कि आओ, यहाँ तुम्हारा महाशत्रु बैठा है। यथार्थता से आँख मौजकर मरा जा सकता है, जिन्दा नहीं रहा जा सकता। हम लोग जिन्दा रहने वालों में से हैं। इसलिए यथार्थता को पहचानकर हम उसके सामने की तैयारी में साधान होने से विमुख नहीं हो सकते। शत्रु ने क्रौज खड़ी की है, हम खदा क्रौज धनाएँगे। हमारा बहरी बेड़ा और हवाई सेना और बम बारूद और टोप-टैंक सब उनसे बढ़कर होंगे। हम शान्ति चाहते हैं और सभ्य नागरिक हैं। पर शत्रु सभ्यता का दुश्मन है। वह बर्बर होकर हम पर चढ़ता आता है। हम बता देंगे कि उसकी भनचीती होने वाली नहीं है। और ये लोगों, तुम भी मानवता की रक्षा के लिए कटिक्क खड़े हो जाओ। छोड़ दो उन दो-चार को जो सपने लेते पड़े रहना चाहते हैं। हमारी दया है कि हम उन सनकियों (Crank) से नहीं बोलते। वैसे तो लड़ाई के बचत बचने वालों की सज्जा भौत हीली चाहिए थी। पर वे भोजे हैं और मूर्ख हैं, आँख खोले वे अन्धे हैं। अपने में सुँह गाइकर आदर्श की चात करते हैं और यथार्थ को पहचानते नहीं। मत उनकी सुनो। दुश्मन बड़ रहा है और हम दुश्मन को जीतेंगे। पर ये लोगों, तुम सबको तत्पर रहना चाहिए। दुश्मन तुम्हारे घरबाट को, छज्जल को, सबको उजाड़ देना चाहता है, वह सब हड्डप कर जाना चाहता है। केकिन तुम वीर हो—आन पर मर मिटोगे। पर भावनो, सोचो, दुश्मन की तदबीरों को हम पहली से क्यों न हरा दें? इसलिए दौड़क-आउट होगा। इसलिए गैस-मास्क का हस्तेमाल सीखो और क्रौज में गति होजो और दृग्या जमा करो और अपनी कोरे भेजो और…

यथार्थता टीक है। उसको पहचानना होगा। पर वह यथार्थ होने

में आई कैसे ? आज का दुर्मन, दुर्मन कैसे बना ? आज लड़ाई है, सही । पर कल क्या बोया था कि आज लड़ाई का फल भिल रहा है, यह समझना भी क्या ज़रूरी नहीं है ? आज का आज हम पर आम मान से नहीं टपका, वह हमारे कल में से बना है । इसलिए यह कहकर कि आज का यथार्थ यह है, हम उसकी परम्परा को ज्यों-का-त्यों कैसे छलने दे सकते हैं ? कल का फल आज भुगतना होगा, पर जो कल आने वाले कल के लिए चाहते हैं, उसका बीज क्या आज बो चलना ज़रूरी नहीं है ? इसलिए यथार्थ का तर्क ही सम्पूर्ण तर्क नहीं हो सकता । यथार्थ की धर्यार्थता के भीतर जाँचें, तो देखेंगे कि विषफल की बेल को एक रोज़ तो समाप्त करना ही है । इसलिए यथार्थ से छुकना नहीं, बल्कि उसे सम्भालना है । नहीं तो शत्रुता के चक्र से छुटकारा कैसे मिलेगा ? शत्रु के भय में से शत्रुता की बेल हरी होती है । द्वन्द्वों की कथा में सुनते हैं कि एक मरता था, तो उसकी जगह से हो जाते थे । इसलिए यदि कभी जाकर शत्रुता को इस धरती पर से मिटाना है, तो उसे मिटाने का आरम्भ आज ही कर देना होगा । यदि आज नहीं तो उसका आरम्भ कभी भी न हो सकेगा, क्योंकि यथार्थता का तर्क ज्यों-का-त्यों सिर पर लटका रहेगा ।

मतलब यह नहीं कि 'शत्रु मित्रवदाचरेत्' कहकर हम उसकी खोटी जालसाथों को बढ़ावा दें । नहीं, हम प्रतिरोध करेंगे । अपनी आत्मा को बेचकर उसके भीतर के दानव को हम भोज्य नहीं देंगे । अपनी आत्मा को सुरक्षित रखकर उसकी आत्मा को भी सुरक्षित करने का साधन करेंगे । वह अपने को भूल रहा है । वह फाइ खाने को आता जो दीखता है, सो तो पागलपन है । शायद वह सताया हुआ है । ज़रूर किसी त्रास ने या भय ने उसे ऐसा बना दिया है । वह उसकी असली प्रकृति नहीं, विकार है । अगर ईश्वर है तो उसमें भी है । पर हम अपनी ईश्वरता को उसके समझ करके ही उसकी असलियत यानी उसकी आत्मा को कू सकेंगे । उसके थप्पड़ के आगे अपना सुका करके

वह काम नहीं किया जा सकता। हाँ, थप्पड़ के आगे मुख किया जा सकता है। यह लाचारी के समय नहीं, बल्कि खुशी के साथ किया जाता है, तो सधेह नहीं कि उस थप्पड़ में मारने वाले का गर्व कम हो जायगा।

उपर कहा गया है कि युद्ध के समय उपदेश बेतुका है। उस समय कर्म की उत्कृष्टता चाहिए। अर्थात् यदि चाहिए तो शान्ति का उपदेश नहीं, शान्ति का कर्म चाहिए। और अहिंसा की माला नहीं, अहिंसा का युद्ध चाहिए।

जो मरने से डरता है, उसे कोई क्यों पूछे? पर जो नहीं डरता उसे तो पूछना ही होगा। किन्तु निःरता कोई कर्महीन स्थिति नहीं है। वह कर्मठता के साथ ही टिक सकती है। हम निःर हैं, ये हमारे मानने का विषय नहीं। निःर हम तभी हैं जब हुनिया कहे कि हम निःर हैं। अर्थात् निःरता कोई अव्यक्त तत्व नहीं है, बल्कि व्यक्त प्रभाव है। व्यक्त नहीं तो उसका कुछ अर्थ नहीं। अव्यहार में निःरता ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। हिंसक योद्धा उद्दण्ड हो सकता है। बल्कि किंचित् उद्दण्ड होना उसके लिए अनिवार्य है। क्योंकि मूलतः हिंसक युद्ध की प्रेरणा एक गहरे हीन भाव Sense of inferiority में से आती है। दूसरे शब्दों में उसकी जड़ में आरंभक या भय होता है। इसीसे उसके फल में शोश्नी और उद्दण्डता देखने में आती है। अहिंसक योद्धा में ऐसी सम्भावना ही नहीं। वह सम्भावी है। इससे वह ऐसा योद्धा है कि कभी किसी परिस्थिति में किसी के प्रति उद्दण्ड नहीं हो सकता। वह सदा सविनय है। पर इस्पात की तरह दफ भी है। मौत तक उसको नहीं तोड़ सकती यों सबके आगे वह मुका हुआ है।

मेरी कल्पना है कि बीरता का आदर्श ऊँचा उठता जायगा, तो इसी जगह पहुँचेगा। बीर यदि मूर नहीं है, तो इसीलिए कि उसमें विवेक का मार्दीव है। और इस जगत् में सच्चा बीर वही हो सकता है, जिसे इस जगत् के यश और वैभव में कोई आसक्ति नहीं, जो यदि योद्धा है।

तो असत्य के प्रिलाक, और आसक्ति है तो उस सत्य की जो प्राणि-मात्र की गहराई में स्थित है।

अख्यारों के बचाए से और 'दलैक-आउट' के अभ्यास से और तरह-तरह की तैयारियों से जो तात्कालिक फल होता है वह यही कि हम में भौत का डर और सुरक्षा की चिन्ता समा जाती है। स्पष्ट है कि हम वृत्ति में से जो साहस उठेगा वह कृत्रिम साहस होगा। वह अपने विश्वास पर नहीं, बल्कि किसी के विरोध पर, यानी शत्रु की शत्रुता पर स्थापित होगा। हमसे शत्रु के प्रवलतर साधित होने पर वह साहस दूषकर कातर भय को जगह दे रहेगा। और ऐसा ही देखने में भी आता है। हिंसक बादाहै में प्रक हृदयक ही लिपाही लड़ते हैं, फिर भाग रहते हैं, या हथियार ढांज रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शत्रु को सामने रखकर ही वह साहस उपजाया जाता है। वह सीधा शत्रु के डर में से ही आता है। हमसे शत्रु के हाथी होने पर वह उड़ जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नियशस्त्रीकरण की बात होती रही; पर अविद्याम से घिरकर नियशस्त्री में हरेक को अपनी निर्णलता मालूम होती है। अपने दो कोई निर्वल नहीं चाहता। भयभीत के लिए तो पखायन आथवा मुद्द ही उपाय है। सक्रिय नियशस्त्र और प्रीति विस्तार में से ही नियशस्त्री का साहस आ सकता है। लब नियशस्त्र होकर राष्ट्र निर्वल नहीं, बल्कि खच्चे छाथों में बलशाली शत्रुभव करेगा।

बीच में कांटिदार तार दो पढ़ोसियों के प्रैम को महसूज नहीं बना सकता। यह अहम कि कांटे कितने पैने हों या कितने घने हों, वर्धम है। ग्रामद्वारे नीचे जानार्जुन के जागरा पर नियशस्त्रीता नहीं आ सकी। चकमी राष्ट्र नहीं है। लोट, दलत, इंद्र वर्षीय, राम, देवत ही एवं वर्ती हैं। शशन की दौड़ की कोई हृदय नहीं। बीच में अविद्याम है तो अविक-से-अधिक शास्त्रास्त्र भी थोड़े मालूम होंगे। वरावर ख्याल रहेगा कि अभी कुछ और चाहिए और निगाह रहेगी कि हुरमन ने कितने बनाये हैं।

साक्ष है कि ऐसी हालत में एक देश या राष्ट्र दूसरी ज़रूरी बातों के लिए, ज्ञान-विज्ञान और कला-संस्कृति के संवर्धन की चिन्ता के लिए खाली नहीं रह सकता। जो पड़ोसियों से अनबन मोज ले बैठा है, उससे नागरिकता के विकास में क्या मदद मिल सकती है? ऐसे ही जो चारों ओर शनुष्ठाओं से घिरा है, मनुष्यता के विकास में वह क्या सहायता पहुँचा सकता है?

किन्तु इतिहास हमसे क्या चाहता है? हम जा किस लिए रहे हैं? मनुष्य जाति किस ओर बढ़ती आई है? और किस दिशा में उसे बढ़ाते जाना है? क्या वह दिशा परस्पर का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य ही नहीं है?

यदि वह ऐश्वर्य है, तो हिंसा से उस ओर गति न होगी। हिंसा अपने फल में हिंसा ही दे सकती है। और जब तक हिंसा के द्वारा राष्ट्र और राष्ट्र के बीच के सवालों का निपटारा देखा जायगा, तब तक मानवा चाहिए कि वह सवाल कभी हल भी न होगा। और तो और घर में हम अपने तीन वरस के बालक से ज्ञान-ज्ञानदस्ती के आधार पर हार्दिक सम्बन्ध नहीं बना पाते। जब-जब हमने अपवाह का उपाय हाथ में लिया है, समस्या कसती ही गई है। तत्काल तो मालूम होता है कि मामला कुछ हल्का पड़ गया है, पर असल में गाँठ उससे सदा कुछ गठीकी होती देखी गई है। बच्चे में अहम् पैदा होने पर जब उसको ज्ञान से रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, तो राष्ट्र का 'अहम्' तो और भी व्यापक और ठोस वस्तु है। उसका उपचार फिर शास्त्रात्म के बल पर ठीक कैसे हो सकता है?

कहा जायगा कि यह बातें तो ठीक हैं, पर उद्देशक की हैं। अभी तो आग लगी है। ऐसे बच्चे उनका कहना और सुनना जुर्म है। आग बुझनी चाहिए, तब दूसरी कोई बात होगी।

पर आग बुझनी चाहिए कि लहकनी चाहिए? अगर उसे बुझना है तो उपर की बात न सिर्फ असंगत है, बल्कि वही एक संगत बात

है। आग से अपनी जान बचाने तक का ही हमारा कर्तव्य नहीं है; क्योंकि भागकर जान बचाने का कोई शास्त्र ही नहीं है। ब्लैक-आउट इत्यादि से उनसे जान बच सकती है और बचानी चाहिए—इस तरह का अम पैदा करने वाले प्रयोग है। वे एक तरह शत्रु की शक्ति की पुनः सूचना और उसके पूर्व निमन्त्रण का रूप है। माना जा सकता है कि नगर में रहने वाले निर्दोष स्त्री-पुरुषों और बाल-बच्चों की रक्षा का किंचित् उपाय इस प्रकार होगा। पर सोचने की यात्रा है कि उन निर्दोष स्त्री-पुरुषों पर आस्मान से हमला हो, यह स्थिति ही बनने में कैसे आई?

हम सरकार को धन्यवाद दें सकते हैं कि उसे हमारे जान-माल की रक्षा की चिन्ता है। वह शत्रु के हाथों हमें खुटबाना नहीं चाहती। उसकी फौज सरहद पर है और सब नाकों पर है और उसका सरकारी हस्तज्ञाम सब जगह फैला हुआ है। सरकार हमारे देश की रक्षा करेगी। हम उसकी सुनें और उसके आदेश का पालन करें। ऐसे संकट के समय सचमुच हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि सरकार की टड़ मुजाहिद हमारी रक्षा को उद्यत है। हाय, सरकार न होती तो हम कहाँ होते! ऊपर के शत्रु के लिए तो छुले शिकार होते ही, भीतरी गुणदे भी हमें जल-विहार किए रहते। दुखाई है कि सरकार है और हमें उसकी सुरक्षा में ब्लैक-आउट के प्रयोग की शिक्षा मिल रही है।

सिर पर आ गई स्थिति को देखते सरकार की छत्र-छाया निश्चय ही हमारे लिए परम सन्तोष का विषय हो सकती है। पर हमने क्या किया है कि पश्चिम का कोई देश हमारा हुमन बने? पश्चिम की लड़ाई पूर्व में क्यों आ गई है? यह तो ठीक है कि पश्चिम और पूर्व दो नहीं हैं। पर पूर्व का यह भारत क्यों आज अपने ही निर्णय से लड़ाई में कुछ मदद करने में असमर्थ है? संकट हस पर हसी से तो है कि यह एक पश्चिम के सुरक्ष के साथ नस्थी है और उसकी शत्रुता-मित्रता को ओटने के लिए लाभार है। स्थिति विषम है, पर क्यों वह हिन्दु-

स्तान के आवजूद हिन्दुस्तान के लिए भी विषय है ? ठीक है कि हिन्दु-स्तान के अवस्थाएँ आज उसकी चिन्ता से चौकन्ने हैं । पर क्या यदि भी उन व्यवस्थापकों की हो कर्ती नहीं है कि वह आज आत्म-निर्णय में असमर्थ हैं और कि वह अन्तर्राष्ट्रीय गीधों की निगाह में लिंफ स्तरा शिकार बन गया है । आज यदि यह स्थिति है तो उसका कारण दूँड़ना होगा । उस कारण के लिए हम आपने व्यवस्थापकों से आदर कहाँ जाएँ ? लौक-आडट और हस प्रकार के दूसरे हितोमाधों के लिए जिस सरकार के हम कृतज्ञ हैं, उसी सरकार के पाल हम आज की स्थिति का यह अभियोग भी ला सकते हैं ।

कौन जानता है कि हिन्दुस्तान की मिलिंग्रेड को परिवर्तन के दूसरे सरकार राष्ट्र-गैलाओं के लिए और लोभनीय ही नहीं बनाया ? इन्हें जो भौका था कि हिन्दुस्तान को वह अद्यती लम्फति न जानकर अपना साथी बनाता । गिरि हिन्दुस्तान इन्हें के बजे को मन्त्रवूल करता । पर हिन्दुस्तान इन्हें के जिए परिवह रहा । इन्हिन्दुस्तान का यह भीष्म रहा । उससे हृगिरास्तान के चरित्र पर धब्दा लगा और हिन्दुस्तान आई । उससे साक्रांति-लिप्ता पैदा हुई । हसीं से दूसरे लुहकों की आँखों में वह काँटा बना । हिन्दुस्तान उसकी हस धृति से शक्ति और पौरुष से हीन बना । क्या आचरण कि वह और सत्ताओं के सुँह में पार्ना आने का कारण बना ।

ऐसे आज यह हालत बनने में आहे है कि सरकार को कहें का भौका भिजाता है कि हिन्दुस्तान खतरे में है और हिन्दुस्तान भी सहस्रस करता है कि वह खतरे में है, कि जय लौक-आडट होते हैं और दोनों सोचते हैं कि उनका होना कल्पाणकारी है । लोग अपने जी प्राप्त होते हैं और हस तरह सरकार की थोड़ी-थहुत जितती है । उतनी ही-सी शरन-शक्ति की दुड़ाई देती है । सरकार को हर तरह अपना समर्थन प्राप्त होता है । पर हम आहते हैं कि उस समर्थन के भीतर ही जो एक निश्चल अभियोग है वह भी सरकार की प्राप्त हो और सरकार जान से

कि जिस संकट से रक्षा देने का काम वह अपना वसळाती है, उस संकट को सिर पर लाइने का ज़िम्मा भी उसी का है।

हिन्दुस्तान का इतिहास करने की हज़ारैड की बुद्धि आज संकट के समय कुछ शुद्ध हो सकती थी। वह हिन्दुस्तान के हृदय को पाने की ज़ाँचरत इस समय महसूस कर सकती थी। पर उसने मन नहीं चाहा, धन चाहा। मैत्री नहीं चाही, जिसके लाभ आहा। आत्मा नहीं माँगी, उसके शरीर पर ही आँख रखी। इससे हज़ारैड का वैतिक पतन हुआ और हिन्दुस्तान का भी। इससे साम्राज्य बाब का एक दम्भ खड़ा हुआ। कामनवेल्थ शब्द के नीचे उस दम्भ के ढकोस्खे को छिराया नहीं जा सकता। सफ़ेद जाति का बद दम्भ उसके जिश भारी पह रहा है और पड़ेगा। वह विधान सासित और शासक दोनों आतिथों को अमुश्य बनाया है। दोनों उससे गुलाम बनते हैं। यासक इन्हियों का गुलाम और शासित उस गुलाम का गुलाम बनता है।

भारतवर्ष के शासक भारत को भारतीय बनाए देंते, तो आज शायद उन पर और भारत पर लंकट का दिन भी न आता। भारत स्वाधीन होता और लशक्त होता। और भगुणता की राह पर तब दो दोनों एक-दूसरे को और शेष हुनिया को चलाने में सहायी होते। ऐसा ही तो हज़ारिस्तान की वैतिक साल आसंविध होती। भारत का संस्कृति-बल और धन-जन-बल मिलकर विकायथ की बड़ी-से-बड़ी पशु-शक्ति के निकट अविजेय होता। तथ क्या आज की लड़ाई होती ? या होती भी तो क्या टिक सकती ?

पर वह होना न था। हुनिया को तुरे दिन देखने थे और आहुयी में अभी तृण्या का राज था। शायद साम्राज्य बनाने और बढ़ावे काले अंग्रेज ने बहुत आगे नहीं देखा। उसने शायद समझा कि वह आपनी जाति ... नहीं ... नहीं ... नहीं ...। हिन्दुसियों ने उसे दूसरे भाग में मबद्द ... नहीं ... नहीं ... नहीं ...। 'साराजर' पर धिराया तो और विकायथी को गर्व हुआ। उसने ज जाना कि दूसरे भाग

में आदमी का गर्व स्वर्व होता है। वह मोह में धर्म को भूल गया। और विधाता की लीला को कौन जानता है? कौन जानता है कि सफेद और काले आदमियों के संचित पापों का ही यह प्रतिफल नहीं है?

किन्तु फल सामने फूटा है, तो वहीं से हम अपने तर्क का आरम्भ न करें। बम ऊपर से गिरेगा तो हम किस तरहाने में दुवकी मारकर बचेंगे, हमारे सोच-विचार के लिए कोई यही विषय नहीं। आदमी की दुविंदि को आसन्न ख़तरे से बेरकर मूल प्रश्न पर विचार करने के लिए असमर्थ ही बना दिया जाता है। ब्लैक-आडट हस्तादि लोक-मानस पर ऐसा ही आतंकमय असर डालते हैं। जैसे अपनी जान बचाने से बड़ा कोई लकड़ाल धर्म हमारे लिए है ही नहीं। आज लोक-मानस कुछ उसी दृष्टि से ब्रह्म से ब्रह्म से ब्रह्म है। घर-घाट और हाट-बाट की चर्चा सुनिए, सब कहीं वही एक प्रश्न है कि कौल कैसे बचे? हवा ऐसो संक्रामक है कि बिरला उससे अचूता बचता है। मन खोखले हुए जा रहे हैं और चारों तरफ अविश्वास बढ़ता जा रहा है। वैश्य संघट में अपने बचाव की सोच रहा है, तो गुणदा अपने भौंके की सोच रहा है। साम्राज्यवादी और राष्ट्रीय और श्रेणीगत अविश्वास तीखा पड़ रहा है और जान पड़ता है कि ऊपर से सरकारी शक्ति का ढकना होता ही कि भीतर से वह आरना गुल खिला आये।

ऐसे समय सही दुविंदि और अहिंसक कर्म की बहुत आवश्यकता है। अहिंसक कर्म धन का और सत्ता का विकारण करता है। उनके केन्द्रीकरण पर वसे हुए बड़े-बड़े शहर जो दुर्शमन के लिए प्रलोभन होते हैं—अहिंसक कर्म से वे बिखरेंगे। वैसे कर्म से गाँव वसेंगे और उनकी खुश-हाली बढ़ेगी। लाखों खुशहाल और स्वाधीन गाँवों वाले हिन्दुस्तान को किसी दुर्शमन से किसी डर की जाहरत न रहेगी। गाँवों पर बम डालना, ऐसे के लिए अशर्की बवादि करना होगा। और कोई सूर्य नहीं जो यह करेगा। तब सोशल हकानामी (Social Economy) का ढाँचा ही दूसरा होगा। तब सत्ता का हस्त मुझ से उन मुझी में आ रहने का सबाल

ही न रहेगा । क्योंकि तब वहाँ किसी की बँधी सुड़ी हो ही न सकेगी । दुश्मन तब कोई होगा भी, तो वह उस सोशल इकानामी में ज़ुब हो जायगा, क्योंकि उसके पास कोई साधन न होगा कि वह उसको तितर-वितर कर सके । वह पहले ही ऐसी छितरी हुई होगी कि उसका केवल हर जगह होने के कारण कहीं नहीं होगा ।

कहना कठिन है कि ऊपर जो बादल आए हैं, घरसकर वह क्या कहर बरपा करेंगे । पर यह निश्चय है कि कभी मानव-जाति को अगर संगठित शक्ति के त्रास से छुटकारा मिलेगा, तो तभी जब प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त शारीरिक परिश्रम करने वाला होगा । जब कि उपज और खपत, और अम और पूँजी के बीच हतना कासला न होगा कि बीच में अटाव के लिए किसी तीसरी बुद्धि या शक्ति की ज़रूरत हो । जब आर्थिक समस्या व्यूनतम हो जायगी और मनुष्य की समस्या नैतिक और आध्यात्मिक ही हुआ करेगी । जब आर्थिक अभाव नहीं, बल्कि हार्दिक सद्भाव मनुष्य की चलाया करेगा ।

हरे राम

‘हिन्दुस्तान’ में आये हफते वैधकर मैं किला करूँगा, यह पता चला तभी-से मन में उठ रहा है : हरे राम, हरे राम !

अब वह दिग ही आ पहुँचा है । कीर्ति उपाय धर नहीं बलेगा । पीछे की राह बन्द है । आगे जो बला कीखती थी, सिर आकर वही जिम्मेदारी हो गई है ? अब किए ही निपटारा है ।

पर, किर भी तो जी ठिकता ही है । कुछ समझ नहीं आता । कुछ सूक्ष नहीं पढ़ता ।

ऐसो समय मैं अपने ले कहता हूँ कि घरे, तू तो जला पड़, तुम्हे राह से क्या ? जो सब जानता है वह आने शैर उत्तरका काम आने । राम की राम पर छोड़ । और तू चल, कि वह है ।

ऐसे मन को भगवान से चलने को होता हूँ कि तभी बराबर से आदान आती है कि ‘भर्ह, ठारना; जरा मुवना ।’

देखता हूँ कि एक अभिभावत है । मैंहै परम हितैर्णि; तुमुर्ग, अतु-भर्ती, जानकार । योखे कि ‘तू बखनं कों हुआ, खलों खुशी की बात है । कदसे कहता था कि सुखती ठीक नहीं, गति चाहिए । अब आया था ! पर जावता है, भाई, कि सदी अब थीसरी है ? उही थही की छिपालीसर्वी देहली पर आब काल है । दो, शायद तीनों, भारी-भारी साक्षों के सिर अणु-शक्ति पर गिराकर त्रुण-त्रुण कर रहे हैं । अणु-शक्ति आब ज्ञान की

नहीं, काम की है। इसलिए विज्ञानियों के ऊपर होकर शासक उसपर जुटे हैं। समझे? उन्नति अब अणुबम जितनी उच्चत है। ऐसे में भई, तू किसका नाम लेकर चलने को हुआ था रे !

मैं कुछ नहीं समझा। मैंने कहा, “नाम किसका ?”

बोले, “राम-रथाम—तू ऐसा ही कुछ बड़वड़ा रहा था न ? वह क्या है और कौन है ?”

मैंने कहा, “अजी, किसी का नाम वह थोड़े हैं।”

“नाम नहीं है !” हितैषी बोले, “तो किर ?”

मैंने कहा, “अजी, वह तो मेरी अपनी हार का नाम है।”

“हार !” और वह मेरी तरफ देखते रह गये। बोले, “तो तू पहले भन ये हार मानकर चलना चाहता है ?”

मैंने कहा, “नहीं जी, मानने की ही बात हो तब तो मैं अपनी पूरी-पूरी जीत ही मान कर चलूँ। पर जीत का तो लेण भी नहीं है, निपट हार ही है। इसमें मेरा मानना-न-मानना कहीं काम नहीं देता है।”

अभिभावक चिन्तित हो आये। वह हितैषी थे। कुछ देर वह कुछ बोल न सके। अन्त में रोप से बोले, और तुम अपने को युवक मानते हो ?

जवाब में मैं क्या कहूँ ? अपने को कोई कुछ भी क्या माने ? दूसरे जन सुके युवा मानें तो सुके युवक हुए ही गुजारा है। ऐसे अपने यौवन का श्रेय मेरा नहीं, तो दोष भी मेरा नहीं। यानी मैं अभिभावक के आगे चुप निरुत्तर ही रह गया।

शायद उन्हें दया हो आई। बोले, “ईश्वर को दुनिया कम की छोड़ चुकी, मालूम है ? भूत को तुम जिका नहीं सकते। आशा तो यह है कि तुम भविष्य लाओगे। आखिर आशा तुम जवानों से न होकर किससे हो ? यह मैं क्या देखता हूँ कि जवान मैं अपना विश्वास नहीं हूँ ! लाय समय है कि नह खड़ा हो और संसार को खुनौती दे तब वह राम का याँसिल टटोलता है ? सुगो, राम के नासपर तुम्हारा सुँह भूत की तरफ है। उसकी उरफ है जो मर गया, हृषसे जो गहीं हैं। मैं नहीं

चाहता कि जब तुम चलने की हुए हो तो तुम्हारी ठीक उधर हो कि निघर से भविष्य को बदल होना है। नहीं, उधर तुम्हारा सुँह होगा और कदम होंगे। तुम उदय की किरणों को लेने वाले और जाने वाले होंगे। और उस सब की तरफ तुम्हारी ठीक होगी जो होकर चुक गया है, जो इसलिए अब जिर्ह सूठ है और जकड़ है। तुम्हारा सब रास, श्याम और—”

कहते-कहते रुककर उन्होंने मेरी ओर देखा। आशा से और विश्वास से वह दृष्टि आचल थी। मैं अभागा सुन्न लड़ा था। उन्हें नहीं मालूम हुआ कि कोई लौ सुरक्षमें सुलगी है। परास्त; पराजित, सूक्ष की तरह खड़े हुए मुझे देखकर “बोले क्यों, क्या सोचते हो ?”

मैंने सकुचाते हुए कहा, “ठीक है !”

“क्या ठीक है ?”

“जी—कुछ—नहीं”

“कुछ नहीं ! अरे, तो जो ठीक है वह क्या है ?”

“कुछ नहीं, सब”

स्पष्ट था कि अभिभावक मुझ से निराश हुए। वही उन्हें होना आहिए था। मैं स्वयं अपने से ही निराश हूँ। उस निराशा को मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। उसमें आशा से गहरी गहराई है। वह आशा-सी उम्री नहीं है, रंगी नहीं है। उसमें व्यक्ति द्वय सकता है। मैंने द्वय सकता है कि उधरने का डर ही न रहे। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या है ? क्या नदियाँ समुद्र में अपने को खोने और मैंसे अपने को पाने के लिए ही विवर वही नहीं जाती है ? आशा भी निराशा के अथाह में दसी तरह सार्थक होगी।

किन्तु अभिभावक ने सहसा मुझसे अपनी निगाह नहीं उठा ली। मालो वह विश्वास रखना ही चाहते हों जो कि मुझमें अब भी चिनगारी है। मैं उस बलाती निगाह के नीचे सचमुच राख ही होता चला गया।

सहसा देखते-देखते तीव्र आवेश में उन्होंने कहा, “जाओ, तुमसे

कुछ होने वाला नहीं है ।” कहने के साथ उनका हाथ भी डांगा जो, यदि आवश्यकता से अधिक मैं उनके पास होता तो, उनकी उपस्थिति से हटात् सुझे दूर धकेलने में अवश्य समर्थ था ।

मुझे चले आते ही बना ।

मन में सुनसान । बाहर भी सुनसान । भीतर कहीं थाह नहीं ।
न बाहर कहीं आनंद ।

मैं अतीत नहीं जानता, अनागत नहीं जानता । दिक् नहीं जानता,
काल नहीं जानता । जो-जो जाना जाता है, कुछ नहीं जानता । बल,
अपने सब के भारीपन को जानता हूँ ।

किसी ने गाया है—

सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम !

राम का बल जो भी हो, मैं अपनी निर्बलता को जानता हूँ !
ताकत का ज़माना है, ताकत की ज़रूरत है । उस ज़माने और ज़रूरत
को जानता हूँ । पर अपनी निर्बलता को अकल से नहीं, वैसे जानता
हूँ जैसे पीर जानी जाती है, धड़कन जानी जाती है ।

सन्त ने और गाया है—

“जाकी कृपा पंगु गिरि लघै...”

वहिरो सुने, मूक पुनि बोलै,
आंधरे को सब कुछ दरसाई ।”

सन्त की यह आत श्रद्धा की है, जानने की नहीं । सबसे ढारस
बँधता है । हम दुनिया के प्राणी अभी लड़कर चुके हैं । खाली-आच्छी
जाङ्गाई भी हमने खाली है । अपने जाल कोई कोर-कसर हमने उसमें नहीं
रखी । फिर भी हम काफी संख्या में अभी जिन्दा हैं, तो इसमें हमारा
कसर नहीं है । शायद हो कि इस ब्रुटि के लिए फिर जल्दी ही एक
उससे भी बड़ी ज़ड़ाई हमें और खालीर पढ़ जाय । बीज तो उसके लिए
हमने ठीक-ठीक मेहनत से हाल में दो दिये हैं ।

ऐसे हम दुनिया के प्राणी किसकी कृपा से बैर और अविस्त्रास का-

गिरि लाँडेंगे और उसके पावर जो जया कुपा है उसे पाएँगे ? क्या कृपा उसी परम कृपालु की, जिसके मुख सन्तों ने गाये हैं ? इस देश और इस काल के नहीं, लब देश और सब काल के सन्तों ने गाये हैं ? वह नहीं तो किरि किसकी ?

शासकों की कृपा वह हम जीते हैं । लेकिन उनकी कृपा को तो हम भोग रहे हैं । हाथ, उससे तो ढारत नहीं बँधता है ।

तथा किरि क्या सचमुच उल शासकों के भी ऊपर कुछ है, कोई है, कि जिसकी कृपा खोजी जाय और पाई जाय ?

अगुभवी अधिभावक का अगुभव तो खोज के व्यर्थ प्रयास से मुफ्ते बचाना चाहता है । वह बुजुर्ग है, विश्वाम के अधिकारी हैं । लेकिन मुक्त जवान को प्रयास से छुट्टी कहाँ है ? उन रामनाम आनाम की कृपा को खोजने और पाने का वह प्रयास ही मेरे किए तो सच्चा पुरुषार्थ है ।

कौन जाने इस तरह के एक के और सब के प्रयास में से उस शक्ति का खोर खुले कि जिसकी कल्पना ज्ञानियों की रही, पर जिसकी यथार्थता पूरी तरह आविष्कृत होने को अभी शेष है, जो शक्ति असुशक्ति से भी सूच्य और उससे भी असीब है ।

क्या वही शक्ति न है अहिंसा ?

मेंटक

कुएँ के मेंटक की शान्ति निर्विघ्न होती है। तब तो कहना ही क्या कि जब पानी भी वहाँ से न स्थिते। मेंटक भी यह जानता है। क्योंकि वह उस कुँएँ को जुनता है, जिस पर काई पड़ी हो और डोल कम पड़ता हो।

आदमी मेंटक नहीं होते। लेकिन बनाए, और बनने दिए जा सकते हैं। सिर के ऊपर से गहड़ की तरह से जो लोग मपटते हुए इधर-से-उधर उड़ा करते हैं, ऐसे पुरुषों के भोज्य के लिए जरूरी है कि कुछ अन्धे कुएँ हों जहाँ काई जमा करे और आदमी मेंटक हुआ करें।

पेट को खाली रखकर आसानी के साथ आदमी को अन्धे का मेंटक बनाया जा सकता है। उसके साथ जोड़ दीजिए भविष्य की चिन्ता और शंका। वस फिर आदमी अपने ही अन्दर के कुएँ का मेंटक बनकर, धूप से और हवा से बचा हुआ, अपने में और गिरस्ती में, रस और गर्व, सन्तोष और धर्म और पुण्य और कृतार्थता मानता हुआ जिये चल सकता है। वह समाज के अन्दर की भर्ती कीभिया से अपना भोग और किर उसी को धपना सुख-भास्य बना लिया करता है।

ऐसे प्राणी सुख! है। लेकिन सुख भगवान् को कम मन्जूर है। हससे सुख कूपनिष्ठ के साथ यह हुआ कि सुख दिलजी से याद जाना यड़ा। आत्मा की बात में सुख है। लेकिन हिलने-हुलने, जाने-आने में

दुख ही दुख है।

देखा कि दिल्ली के पास छावनी बसी है। टीक कितने भी लों में वह बसी है, कह नहीं सकता। हिन्दुस्तान में ऐसी कितनी छावनियाँ हैं, यह भी नहीं मालूम। पर चाहने वाले को मालूम हो सकता है। उन पर होने वाला खर्च, और खर्च होने वाली चीज़ें—पैसा, जानवर, आदमी, इज्जत, नीति और आदर्श—कोशिश करने पर सब मालूम हो सकता है। दिमाग में हिसाब की हिस हो तो पड़ता भी निकाला जा सकता है कि एक अद्वितीय सिपाही हिन्दुस्तान के कर पर, यानी कर-दाता पर टीक कितने हप्ते भारी पड़ता है। इस अद्वितीय में फिर फर्क है, गोरा-अद्वितीयादा घजनी होता है, काला हज़का होता है। हल्का इस घजने से भी कि कर देने वाला उसी के रंग था, उसकी जाति का, काला आदमी है। काले का बोझ उसके मन पर शायद भारी न भी पड़े। लेकिन बोझ सफेद होगा, तो उसका भारीपन कुछ मालूम भी होगा, और ऐसे काले करदाता का सिर झुका रहेगा।

हिन्दुस्तान की कुल आय का कितना हिस्सा फौज पर जाता है, यह कोई दुरुह तथ्य नहीं है। सरकारी आँकड़ों में उसका हिसाब है। फौज का विषय आगरचे खास सरकारी ज्ञान और अधिकार का विषय है, तो भी, अन्दर तक की नहीं तो किनारे तक की, कुछ जानकारी तो मिलने दी जाती है। उस जानकारी से इतना तो पता लगता ही है कि यह घन्घा देश के लिए सबसे कीमती है। इसलिए जरूरी तौर पर सबसे महान्, सबसे उपयोगी, सबसे पारमार्थिक, सबसे अनिवार्य हत्यादि-हत्यादि भी वही है।

मैं समझता हूँ कि यह टीक ही है। किनारों पर दुश्मन हैं, जो कहूँ हैं, और भारी-भारी हैं। फिर अन्दर दुश्मन हैं, जिन्हें सफेद टीपी से यह नहीं समझना चाहिए कि किसी से कम भयंकर हैं। और जाने क्या-क्या गैबी सुसीबतें हो सकती हैं। ये सब आफतें तुम्हारी शान्ति, तुम्हारा घर और तुम्हारा कौर छीनने को तैयार हैं। इससे जान देकर

सबके सुख और शान्ति की रक्षा करने के लिए वहावरों की एक जमात चाहिए। ये जान हथेली पर लेकर रहते हैं, इसलिए इनकी जान की कीमत बहुत है। जाने कब उनकी माँग हो आए। इससे उसकी तैयारी में उन्हें कवायद, खेल-कूद, मौज-शौक, और सब चीजों की इफरात और कूट होनी ही चाहिए।

इतिहास में सैनिक का ऊँचा दर्जा है। जो भी नाम उसमें घमकीले हैं योद्धाओं के, वीरों के हैं। वीर-धर्म ही अलग है। वह ऊँचा है, अनोखा है; सामाज्य धर्मों के नीति-नियम उस पर लागू नहीं होते।

नागरिक-धर्म जुदा है। वह मामूली है और मामूली आदमियों के लिए है। उसमें जो गुण हैं, ऊँचाई पर ये ही अवगुण हो सकते हैं। नागरिक धर्म-शास्त्र इस तरह जबकि केवल इसलिए है कि वह कर्तव्य की तरफ लोगों का ध्यान दिलाए रखकर उसे तश्हीरह का उत्पादन कराता रहे, तब सैनिकों का धर्म वह है कि वे उस उत्पन्न सामग्री के भोग पर अपनी सत्ताओं के अधिकारों के लिए लड़ें और उस अधिकार को सम्भव हो तो ऊँचा लड़ावें, और लम्बाई-चौड़ाई में भी उसे फैलावें।

विश्व की सभ्यता, कहते हैं, बढ़ रही है। वह बाहु से मरतक की तरफ उठ रही है। सैनिकता धीरे-धीरे उत्पादन और नागरिकता प्रधान बन रही है। सेना सिविल-शासन के प्रति दायित्व रखती जा रही है। सेना के हाथ में निर्णय नहीं, निर्णय उस शक्ति के हाथ में है, जो नागरिक-धर्म की प्रतिनिधि है।

ऐसा कहा जाता है। इसी को विकास भी कहते हैं। कहा जाता है कि नात्सी और फास्टी शासन सैनिक शासन था। छुकावले में लोक-शासन की सेनाएं थीं। भुरी देशों की हार में सैनिकवाद को ही द्वारा मानना चाहिए।

समाचार ये बड़ी सांत्वना के हैं। क्योंकि वह ऐसे और जानने की उष्टुता ही सकती है कि किस देश में कितना उत्पादन सैनिक आवश्यकता के लिए हो रहा है? कितना महत्व वर्दँ सैनिक आवश्य-

किताओं को दिया जा रहा है ? सैनिक जन और सामान्य जन में से किस पर सरकारी आय का कितना-कितना प्रतिशत खर्च होता है ?

देशों की सरकारों के बजट हमारे सामने नहीं है। आयद पूरी तरह वे सामने होने के लिए भी नहीं होते। यह भी हो सकता है कि उनसे यह पता चले कि युद्ध लोगों के लिए नहीं, बल्कि लोग ही युद्ध के लिए हैं। सेनाओं इसलिए नहीं कि वे देश की रक्षा करें, बल्कि देश इसलिए है कि वे सेनाओं का पालन करें।

लड़ाई होकर चुक्की है कि जिसका धाव दर एक तर पर और मन पर ताजा है। अगर वह युद्ध लड़ाई को असम्भव बनाने के लिए थी, तो उसका यह कल आना चाहिए था कि सांस्कृतिक आवश्यकताओं की प्रधानता होती और घन उसी के लिए होता। सैनिक आवश्यकता जैसी चीज लगभग रह ही न जाती और सुव्यवस्था का काम पुलिस के सहरे ही मने में हो सकता।

लेकिन लड़ाई का क्या यह कल आया है ? आदमी बेशक फौजों में से कुछ खाली हुए हैं। लेकिन सैनिकता ने जरा भी जगह क्या नागरिकता को दी है ? यह भी हो सकता है कि शस्त्रास्त्र ही अब ऐसे बन गए हैं कि संख्या कुछ गैर जरूरी हो गई है। इससे ऊपर से आदमी कम होकर भी अन्दर से तैयारी बढ़ ही रही है।

मुनते हैं, दुनिया के लिए पर अकाल खड़ा है। घर पर राशन में की-कस गेहूँ छः छटाँक (वह भी नहीं, क्योंकि डिपो की हुकान पर था ही नहीं) आया है। बंगाल में तेंतीस लाख अकाल में भरे बताये जाते हैं। बंगाल बिलारा एक सूखा है। दुनिया पर अकाल आया तो कितनों को मरना होगा, भगवान् जाने।

लेकिन एक निश्चय है। वह यह कि फौजें नहीं मरेंगी। धर्म जाने से जैसे दुनिया को रसातल में जाना होता है, वैसे ही फौजों के मरने से मनुष्य जाति को ही मरना होगा। फौजें उन्हीं को लेकर बनती हैं जो मरने के लिए आते हैं। लेकिन फौज को अमर बरदान है। एक

मरता है तो कहीं उसकी जगह आते हैं। शास्त्र सिखते हैं और प्रचार बताता है कि फौज में मौज है, और वहाँ मारने और मरने दोनों में पुण्य है। फौज एक अजब उपज है। उसका बीज मनुष्य की उत्पत्ति के साथ है, बल्कि उससे भी पहिले है, तथा से जब वह जातवर था, कीट-पतंग था। तभी तो प्रकृति-विज्ञान का अध्ययन-सनन बताता है कि संवर्ष ही नियम है, द्रव्यवाद (भौतिक) विकास की पद्धति है, और कि लाटी की ही भैंस है। सिद्ध और प्रसिद्ध मंत्र है कि प्रबल जिएगा और दुर्बल मरेगा। जीने वाले के लिए आवश्यक होगा कि मरने वाले को मारे। इस अमर सिद्धान्त की चरितार्थता और कृतार्थता के बिए ही इतिहास में सेनानी सम्राट् होते आए और दुनिया उनके तले खिचूती और पिचती आई है। ऐसा होता है तभी उनकी पूजा होती है और पुस्तकें उनका प्रशस्ति-पाठ करती हैं।

अतएव इस सुक्र कूपमंडूक को अपार विस्तार में छाईं वह छावनी प्रकृति के अभोष विवान-सी लगी। मानो वह भौतिक हो, शेष उस पर निर्भर हो। वह दुनियाद हो और सभ्यता का महान् निविद्ध सुरक्षा में उसी के बल-बृते खड़ा हो।

ओ भगवान् ! तेरी दुहाई है कि आदमियों की दुनिया में तूने अंधे गहरे कुएँ भी बनाए हैं, और सुक्ष्म-से जन्मतु भी जो श्रद्धा का नाम लेते वहाँ पढ़े रहें और सियासत को कुछ न समझें।

आजादी

रामसरन के परिवर्तन की कथा इस प्रकार है। उसके घर की स्थिति साधारण थी। स्कॉलरशिप जीतता हुआ वह पढ़ता चला गया। एम० ए० करके आई० सी० एस० में बैठा। रिजल्ट नहीं आया था और इतने वह रिसर्च में लगा हुआ था।

उसके मन में बहुत-कुछ करने की थी। पर अपनी जिम्मेदारियों से पहले आजाद होना था। उस आजादी का रास्ता था योग्यता पाना और उस योग्यता के बल पर ऊँची जगह पाना। पैसे से हुनिया की बहुत-सी समस्याएँ पैदा होती और खट्टी हैं। उनसे निपट कर वह आजाद होगा कि वाकी कुछ कर सके। उस अपनी निजी आजादी के दिन पर ऑख लगाए, खूब मेहनत से वह अपना अध्ययनकाल बिताए चला जा रहा था।

पर वह दूर का दिन आए-न-आए कि छब्बीस जनवरी का दिन आ ही पहुँचा। वह देश की आजादी का दिन।

अपनी कल्पना की निज की आजादी की लगन में रामसरन को देश की आजादी सहसा आद नहीं आती थी। हससे वह रोज की तरह आज भी सभय से पहले यूनिवर्सिटी में आकर अपनी थीसिस की तैयारी में लग गया था। पर थोड़ी ही देर में आ पहुँचा वहाँ अर्चना के नेतृत्व में एक दल, जिसने अयकार के साथ हिन्दू

हिन्दू की महिमा से हाल को गुँजा दिया। रामसरन ने देखा—अर्चना !: अस्थिर हो आया।

अर्चना ने कहा—“डिए आई० सी० एस० साहब !”

रामसरन ने अब देखा अर्चना के पीछे का सचमुच दल।

उसने पूछा कि क्या हम शोधक लोगों को भी काम बन्द करना होगा, और कहकर मुस्कराते हुए दल की नेत्री को उसने फौजी सैल्यूट दिया।

अर्चना लाल हो आई। फिर बोलो, “सोब देखिए। आज छव्वीस चारीस्त है। देश के नाम पर एक दिन काम बन्द कर देना गुमाह तो न होगा।”

“लेकिन काम अगर बन्द करने लायक मुझे न जान पड़ तो—”

“तो आपकी मर्जी है,” संकोच से उवरते हुए अर्चना ने कहा, “लेकिन ये मेरे पीछे इतने विद्यायियों को आप देखते तो हैं। चालीस करोड़ में ये कुँद जितने भी नहीं हैं। लेकिन हम इन्हें-मिने उन चालीस करोड़ के नाम पर आए हैं। उन देशवासियों की बात क्या आप टाल दीजिएगा ?”

रामसरन अर्चना के लिए अभ्यर्थनीय था। इससे कारण था कि वह ऊँचा रहना चाहे। उसने कहा, “अर्चनादेवी, जगा कीजिएगा। मेरी इस सब धूम-धड़ाक और खुराफ़ात में शब्दा नहीं है।”

अर्चना को यह सुनकर तैश हो आया। हठात् संयम रखकर बोली—“आपकी शब्दा आई० सी० एस० होकर हाकिम बनने में तो है ! वह जो हो। लेकिन खुराफ़ात शब्द क्या आप बापस न लेंगे ?”

रामसरन की सिर्फ़ इच्छा थी कि अर्चना के चेहरे पर अवैश्य की सुर्खी कुछ देर और देखता रह सके। इससे सुन्दरता और सुन्दर हो जाती है। उसने कहा—“मैं जानता हूँ कि आप लोग मर्यादा रखना नहीं जानते हैं। इसलिए कहिए कि मुझे क्या करना होगा।”

अर्चना ने कहा—“आपको कुछ करना नहीं होगा। आप बैठि :

यहाँ पड़िए और लिखिए। मर्यादा की रक्षा यहाँ आपके हाथ छोड़कर हम चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि मुझे अफसोस है।”

हँसी-हँसी में ही यह हो गया। अब रामसरन ने बात को साधना चाहा। पर इतने में ही दल के कुछ लड़कों ने कुछ आवाज़-कशी शुरू कर दी। उसके नाम से कुछ सुर्दाचाद पुकारने लगे। देखते-देखते लड़कों को जोश चढ़क आया। मानो वे हाथ ही छोड़ बैठेंगे।

ऐसे समय अर्चना ने घबरा कर भी छुट्टि नहीं खोई। पीछे मुड़कर अपने साथियों से उसने कहा—“भाइयो, हम लोग चलें। ऐसे आदमी पर अपना समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है।”

विद्यार्थी लेकिन सामने झौंकत्य पाकर सीधे लौट जाना नहीं चाहते थे। वे इस आदमी को सबक देना चाहते थे।

रामसरन यह देखकर अपनी जगह से आगे बढ़ आया। अर्चना को हाथ से पकड़कर अपने पीछे करके और स्वयं उसके सामने होकर दल के लड़कों से बोला—“सुनिए आप लोग, मैं यह लड़ा हूँ। आप इतने हैं, मैं एक। मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जाऊँगा। आपमें कोई है जो इसके आगे कुछ कहना चाहता है?”

विद्यार्थी इस अपने अपमान पर सहसा स्तब्ध हो गए। फिर रोष में बे अपने में ही दल खाने लगे। कुछ लड़कों की सुटियाँ बैंध आईं और वे मानो धीर संकल्प में आगे बढ़ने को उद्धत दिखाई दिये।

यह देख अर्चना आगे हो आई। बोली, “भाइयो, शपथ है हमें कि हम शान्त रहें और लौट चलें।”

लेकिन दल उसकी बात से शान्त होने की जगह और शुद्ध ही हुआ। दल की लड़कियों ने कहना शुरू किया कि अर्चना, तुम बीच से हट जाओ, हमारा अपमान न कराओ।

उस समय लाणा-भर अर्चना को कुछ नहीं सूझा, फिर बोली, “आप लोग हूँ जबर्दस्ती के जार्दीने सो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जबर्दस्ती के खिलाफ ही बया हमें आजादी नहीं चाहिए।”

लड़कियाँ किसी तरह भी नहीं मानना चाहती थीं। उन्होंने चाहा कि अर्चना को वहाँ से वे बखात् अलग कर लें और लड़कों को फिर रामसरन से निपट लेने दें। यह सोचकर कुछ लड़कियाँ ने शब्दकर अर्चना को अपने घेरे में ले लिया।

इस समय रामसरन ने तीव्र अवहेलना के भाव से कहा, “भाइयो, आप जोग आधी न हों। जीजिए मैं खुद ही अपने को आपकी कायथता के हाथों सौंपता हूँ। लेकिन सुन रखिए कि आपकी यह चीज अहिंसा नहीं है और आजादी नहीं है।”

सचमुच यह अस्था था। इस दम्भ को दल जमा नहीं कर सकता था। जोगों के हाथ छूटने शुल्ह हो गये।

इसी समय सहसा देखा गया अर्चना घेरे को तोड़कर तेजी से आई और रामसरन के चरणों में गिर गई। बोली, “रामसरन तुम दुष्ट हो। लेकिन, किसी की जबर्दस्ती मानकर तुम यहाँ से गए तो मैं अपने को जमा नहीं कर सकूँगी। जबर्दस्ती मैं किसी की किसी पर न होने दूँगी। जबर्दस्ती से आजादी कर्तव्यित होगी।”

अर्चना को अपने पैरों पवी पाकर रामसरन बेहद धबरा आया। वह सब सुध लो बैठा। दोनों हाथों से तत्क्षण वहाँ से उसे डाले हुए बोला, “अर्चनादेवी और भाइयों, सब जोग सुझे माफ करो। मैं सचमुच अधम हूँ कि अपनी बड़ाई चाहता हूँ। अर्चना, सुनो। मैं आज से अपनी तरक्की नहीं, सबकी आजादी के लिए ही हूँ।”

X X X

उसके बाद की कहानी परिचित ही है कि किस तरह जल्स निकला और रामसरन ने लाठियों को अपने पर लिया और किस तरह भरकर भी फिर जी सका। यह भी परिचित कथा है कि किस तरह फिर उसने बापस सुड़कर पद और गौरव की ओर नहीं देखा। उसे याद ही न आया कि वह आई० सी० ऐस० हुआ था।

लेकिन कथा की अर्चना का भाग उतना परिचित नहीं है। कासण,

वह सार्वजनिक नहीं है। पाठकों की निश्चन्तता के लिए इतना बता देना आवश्यक है कि वह रामलीला के एक परममित्र और उच्च पदस्थ अफसर की भरी-पूरी गिरिस्ती में सुख और धैर्य-पूर्वक अपना जीवन सफल पा रही है।

दफ्तर और—

शहर में लोग कामिन्दा रहते हैं। वक्त की उन्हें कीमत है। वे अपट बर चलते हैं। मेरे बह कि जो तेज नहीं है। लेकिन तेजी की दौड़ में कुछ ज्यादा, तो अधिक कम तेज निकलेंगे ही। उन गिने-चुने तेजों के लिए शहर बसे हैं और उन्हीं के लिए शहर में बूसे और बाखों की तादाद बसी है।

गाँव से लोग धड़ाधड़ शहरों में चले आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ काम है। काम है, इसकिए पैसा है। इस तरह उस वक्त भी जबकि नाज की कमी है, वह नाज जो धरती पर पैदा होता है, लोग शहरों में भर रहे हैं, जहाँ धरती को गीली और हरी छोड़ना चुनाह और उसे सीमेंट से पक्की बनाये रखना धर्म है कि जिससे खूबसूरती के सिवा कुछ भी वहाँ पैदा न हो सके।

सवेरे का समय। मैंने पूछा, “कहाँ जा रहे हो?”

सउजन ने कहा, “दफ्तर”

दोपहर का समय। मैंने जपकर जाते हुए हृष्णान से पूछा, “क्यों? कहाँ चले भाई?”

उसने कहा, “दफ्तर।”

शाम को साइकिलों की भागती हुई भीड़ को देखा और हैरत में पूछा, “आप सब कहाँ से आगे आ रहे हैं!”

साइकिल को और तेज़ करते हुए एक ने कहा, “दफ्तर !”

दिन काम के लिये होता है। काम, अर्थात् ‘दफ्तर’। इस तरह वक्त दफ्तर का, और आदमी भी दफ्तर का ही होता है।

दफ्तर यहाँ लाखणिक भाव में लैं। अर्थात् वह सब दफ्तर है, जहाँ आदमी होता नहीं, रहता नहीं, जीता नहीं, बलिक सिफेर करता है। इस तरह दफ्तर वह है जो घर नहीं है।

जीने में ही पहले करना हुआ करता था। अब दोनों जुदा-जुदा काम हैं, करने को दफ्तर और जीने हस्तादि के लिए घर। सभी हृतना कम है, और करना हृतना अधिक है कि घर के लिए दिन का वक्त नहीं बचता। इस तरह कर्मयश नगरों में ऐसे लोगों का होना बिल्कुल जरूरी है जिनके घर न हों, बार न हों, और जीने का उन्हें कोई मौका न हो। जिससे शुरू से आखीर तक वे करते ही रहें, बाकी जीने वगैरह के मंभट से बचे रहें। सोयें कहाँ, खायें-पियें कहाँ यह सोचना जरूरी नहीं है। जीवन के निरथ-नैमित्तिक कर्म कर कहाँ कैसे पूरे हों, यह विचार अनावश्यक है। उनका काम करना है, और उन्हीं सफाई, तेजी और फुर्ती से करना है, जैसे मशीन करती है। मशीन साफ, तैयार और तैनात रहती है। आदमी को भी उसी की तरह साफ, चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए धिक्कार की धार है कि आदमी मशीन से गया-बीता हो ! क्या आदमी में अकल नहीं है, कि वह साफ और दुरुस्त हो ? इसमें सोचने की क्या बात है !

सो करने वाले हजारों-लाखों लोग घर-धार से सुकृत शहरों में वह जिन्दगी बिताते हैं कि जिसमें जीने को थोड़ी ही जगह दी जाती है। मलाय्या से देवोपासना तक सब के लिए उन्हें उन्हीं ही जगह है।

यह वर्ग है अध्यन्त अपरिभ्रही। इस से आहिंसा इसे वाहिप और धर्म भी इसे चाहिये ताकि काम भरपूर हो और मजूरी अनिवार्य से अधिक न हो।

इससे जरा ऊँचे वह तबका है, जिसका काम पैरों पर नहीं, कुर्सी

में होता है। मिल में नहीं, वह 'दफ्तर' में काम करता है। यह बेघर नहीं, पेसा घर बाज़ा है कि जहाँ जीना हिसाब से होता है। नौन-टेल-लाकड़ी और आजा-पाई में उसकी जान है। मध्यम-श्रेणी इसको कहते हैं। घर उसका तालेबन्द है और स्त्री पति की कमाई में से नौच-खोन्च कर अपनी आजादी, दिखावट और जेवर बनाने को खींका करती है। इस श्रेणी का इन्सान रात-भर में करता, और दिन दफ्तर में बिताता है। घर के लिए बिचारा दफ्तर जाता है, लेकिन दफ्तर उसके लिए सुशिक्षा से इतनी जगह छोड़ता है कि घर उसे आनन्द का नहीं, बल्कि सिर्फ़ भोग और कलह की जगह बन रहता है।

यह श्रेणी है कि जिसके पास दुःख की बाहुद नहीं, और सुख का आनन्द नहीं। यह सन्तोष और सदाचार में रहती है, जिसके भुव सम्पदा और सम्पत्ति हैं। मेरा धन और उसमें सन्तोष। मेरी पत्नी, और उसमें सदाचार। धन को काम से अधिक बैंक में, और ब्यय से अधिक आय में यहाँ रखना होता है। स्त्री को उसी तरह जगत् से अधिक अन्तःपुर और प्रकाश में से अधिक अंधेरे में रखा जाता है।

जिन्दगी बदल रही है। कर्मण्यता का युग है। जीने से अधिक करना होगा। इत्तिहास घर से अधिक दफ्तर को बनाना होगा।

घर और दफ्तर में दूरी है। उतनी जितनी स्नेह और स्वार्थ में। इसलिए अगर दफ्तर केन्द्र है तो घर बेकार है। जीने के लिए तब कलब और होटल हो सकते हैं। किये बिना चल भी सकता है, जिये बिना नहीं चल सकता। घर तो मुसीबत है, जहाँ मन को तारना, पत्नी को धर्मपत्नी समझना इत्यानि-इत्यादि अनायशक आते आवश्यक होती है। इससे कलब और होटल-जैसी भूमध्यों को उनकी जगद् लेनी होगी। हनके लिए और कुछ नहीं; देवल भरा लैं तो नाहियू। तब प्रति-कूलता स्थ आपसे बच्नी देगी, और अनुकूल स्थ-कुछ दानिर रहेगा। कलब और होटल आपको रोकते नहीं। वे तो आपको शुद्ध सेवा और आज्ञा-पालन को ही उद्यत रहेंगे। विधि-नियोग का वहाँ पचड़ा न होगा।

जीवन समृद्ध हो रहा है। धन बढ़ रहा है। अतः स्वतन्त्रता और राजनीति बढ़ेंगी और धर्म और संयम को सिमटना होगा।

यह है भविष्य की संभूति। हर आदमी यानी हर स्त्री और पुरुष इसमें स्वतन्त्र होगा। भाँझट किसी के लिए न रहेगा, न कर्त्तव्य। पैसे की इकात रहेगी, जिसके द्वारा भोग हाथ बाँधे खड़े होंगे।

यह एकदम स्पष्ट और तर्क-संगत सम्भवता आँख के अन्धे के लिए ही दूर और ओफल हो सकती है। हिन्दुस्तान के सिर के ऊपर नहीं, चेहरे के ऊपर तक वह आ गई है।

कुछ का खयाल है कि दिल में वह नहीं पहुँची है। समझदारों वा खयाल है कि यही हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है।

जो हो, लड़ाई होकर लुकी है, जिसमें सफेदों ने सफेदों का गदा काटा है। उसके बाद सफेद सम्भवता की हालत लान्दन में, पेरिस में, बर्लिन में और शायद मास्को में भी जो है, यहुत ईर्ष्या के खायक तो वह न हो।

पर अरे, कौन जानता है कि हिन्दुस्तान और चीन जैसी आवाद्यर्थी करने और करते रहने को रहे जायें, तो फिर सफेद जीवन पर लिमा क्यों न रहेगी और कालिमा अगर हुई भी तो दीखने को ऊपर क्यों आयगी।

सचमुच विधि-लीला कोई कुछ नहीं जानता।

दिल्ली की तरफ

‘जय हिन्द’ के साथ हिन्दुस्तान का स्वराज्य लेने के लिए प्रयत्नको नेतृत्वी की फौज की पुकार थी : ‘दिल्ली चलो’। हिन्द की जय दिल्ली में पहुँच कर पूरी होगी। और इस हफते हिन्दुस्तान में जो भी हैं, यानी होने की गिनती में हैं, दिल्ली पहुँचे हैं। जब असेम्बली शुरू हुई है। सारे हिन्दुस्तान में सूबों की सभाओं में चुने जाने वाले लोगों का फैसला हुआ है। राजाओं की चैम्पर बैठी है। पार्लमेंटरी बोर्ड बैठा है। धार्म-पाल विजायती पार्लमेंटरी डेलीगेशन धूमा और मिला किया है। लीग के मशबर हुए हैं। और नेता सुभाषचन्द्र बोस का पचासवाँ जन्म-दिन इस खुले विश्वास के साथ मना है कि कौन जाने श्रगाला ही यह वर्ष-दिन खुद उनकी मौजूदगी में मनाने को मिल जाय।

दिल्ली में सब आ गए हैं। यानी हिन्दुस्तान ही आ गया है। क्योंकि हिन्द की जय इस दिल्ली में होगी जो हिन्दुस्तान की राजधानी है। यों दिल्ली में बाह बरस से ज्यादा रहने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उस भाव से आगे का पता नहीं है, जिसे वे सोंका करते हैं। लेकिन अगर गिनती लायक सारा हिन्दुस्तान चला है; और दिल्ली में आकर पहुँचा है; और दिमाग लगाकर उसने अपने-अपने अरमानों और मुसीबतों के नारे में लोचा है, तो ज़मर ही उस दिल्ली में कुछ-न-कुछ पक कर तैयार हुआ रहा। चाहिए, जिसमें से चिन्न-विचिन्न रंगों

के साथ 'हिन्द की जय' कूटकर उठती हुई दिखाई दे आय ।

आशाएँ हैं और विश्वास है और लोग व्यस्त हैं । जहर नक्शे तैयार हो रहे हैं । आजादी गढ़ी जा रही है । विधान और सन्धि-पत्र बन रहे हैं, और किसका कहाँ—ऊँचा या नीचा, फैला या छोटा, इकला या शामिल—भाग होगा, वह लगन और मनन के साथ सोचा जा रहा है । यह दिल्ली है, राजधानी है, और राजनीतियों का केन्द्र है । और विटिश कूटनीति की अध्यक्षता में, फोन पर, बेतार के तार पर, कागजों पर और सभा-हालों में, सब-कुछ यहीं हुआ करता है । दिल्ली चलना अब नहीं है । उसमें अब अम रहना है ।

लेकिन सेवाप्राम से दिल्ली आगर उत्तर है तो गांधी दृष्टिक्षण गया है । गांधी गिनती से बाहर है । शोर की जहरत है, तब वह खामोशी सिखाता है । जोश की जहरत है तब शान्ति बताता है । समझ वी जहरत है तब राम-धुन गवाता है । उद्योग की माँग है, तब चर्खे की सुफाता है । और दिल्ली में चहल-पहल है तब देहात-देहात फिरता है ।

क्या गांधी यह बही है जिसने सन् १९११ में हिन्दुस्तान की राजनीति में जान डाल दी थी, जिसने कान्ति की थी? जिसने सोते हुओं में फङ्क भर दी थी? जिसने राष्ट्र के लड़ू में आग और जाग डाल दी थी? शायद वही है । लेकिन क्या किया जाय, दिन आगे बढ़ आए है । मसला अब जेल का और त्याग का नहीं है, वह अब विधान का है । आजादी आया चाहती है । पार्लमेंट की अगली बैठक चैन से नहीं बीत पाएगी उसे कुछ करना ही होगा । हर तरफ के हर नेता का अध्यात्म देखो? इसके जवाब में बिटेन क्या चुप बैठ पायगा? इससे आती आजादी के मिल-बौंट का यह बच्च है । त्याग-तपस्या से यह नाजुक काम नहीं हो सकेगा । यह मसलहत का काम है और असली और गहरी राजनीति का है । धर्म और आदर्श के प्राणी गांधी की ऐसे समय न छोड़ना ही अच्छा है ।

राजनीति? वह अपने को जानती है । गांधी को अपने धर्म को

जाने रखना चाहिए । पर राजनीति में यह दिसा-अहिंसा क्यों ? शक्ति का यह खेल है । उसमें बचना या बचाना एक सभान जुर्म है । झुक-झुक के लीग के कायदे आज्ञा को चढ़ाकर कांग्रेस के लिए सुशीलत ही पैदा कर दी गई ना ? और जवानों का जोश ठंडा किया गया । और दूसरी पारियों को पनपने और बढ़ने का मौका दिया गया । कांग्रेस अब विद्यालय राजनीति पर चलेगी । सुगत लेगी जिससे सुगतना होगा, पर सुकेही नहीं । और बाहर निकलना होगा उसे जो जरा अलग बात करेगा ।

इस तरह गांधी अद्वेय है । और सब उसके कृतज्ञ हैं जैकिन राजनीति की सुरिकल कुछ दूसरी है । और इस उम्र में गांधी को उसके लिए कष्ट देना अद्योत्ता है । हम उनसे सुलटेंगे और राजनीति में किसी गैर व्यापार पर नहीं रुकेंगे । घड़ी कठिन है । नई दुनिया बस रही है । हम बेताब हैं । भूत हमारी शान का है । भविष्य उसकी शान से कम न होगा । और उस भविष्य में अपना हिस्सा अदा करने से हमें कोई न रोक सकेगा । ऐसे दम-खम के साथ दिल्ली में राजनीति मिल रही, बोल रही, लिख रही, सोच रही और जिम्मेदाराना तौर पर मौज कर रही द्वे ।

उधर गांधी कहता है करो । सोचो नहीं, बोलो नहीं, किये जाओ । यह चरखा है । और पार्लमेंट में नहीं, स्वराज्य उसमें है । उसमें वह दीखता नहीं और शायद पार्लमेंट में दीखता भी हो । पर मैं कहता हूँ कि चरखे में तो वह है । और जो विलायत की सभा में दीखता है, फूरेब है । दर्शन चरखे में मैं उसके कैसे कराऊँ । पर कातने लग जाओगे तो शायद दर्शन भी होने लगेगा । और उस अद्वा के साथ सब कातने लगेंगे तब तो दर्शन की दात न रह जायगी । तब तो वह प्रत्यक्ष घटातार में आ जायगा । स्वराज्य को आना नहीं है, भाई । उसे अद्वा से होना है । और अभी और यहीं से हमें यीज दाताकर उसे धोने और उगाने में लग जाना है । दिल्ली जिन्हें आना पड़े, जाएंगे ही । पर

स्वराज्य के लिए कहीं किसी की तरफ देखना और जाना हो वह फिर असली स्वराज्य नहीं ।

तोकिन जरूर ये रहस्यवाद की बातें हैं और उन पर उहरना बुद्धि-मानी नहीं है ।

राजनीति प्रत्यक्ष और स्पष्ट वस्तु हैं । स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि जैसा बाइसराय हाउस । और वह ठोस है कि जैसा असेम्बली का भवन । भाबुकता से यहाँ नहीं चला जायगा । पार्लमेंटरी रीति-नीति से वहाँ चलना होगा ।

सरकार और संस्कृति

राजनीतिक स्वाधीनता जहाँ पहुँची है वहाँ मालूम होने लगा है कि उसके अन्दर संस्कृति का सच्च न हो तो वह बेकारन्सी चीज है। तब उस स्वाधीनता के स्थायी होने में भी शंका रहती है। राजनीतिक स्वाधीनता का अन्त्र होता है उस देश की सरकार। सरकार आज लगभग सभी देशों में अपक चीज बनती जा रही है। वह कुछ की नहीं है, सब की है। सब की रायों से वह बनती है। जहाँ उसका रूप डिक्टेटरी का है वहाँ भी वह उसके पीछे जनसत का है। ऐसे सरकार लोक-जीवन के अंश को नहीं छूती; अलिंग मानो उसके सर्वांश में समाई रहती है।

इससे प्रश्न है कि संस्कृति का और सरकार का आपस में क्या सम्बन्ध और दायित्व है, और क्यों?

सरकारें कई हैं। मानव-जाति की अवस्था देशों और देशीय सरकारों को हकाई मानकर चलती है। इस तरह अलग-अलग देश हैं। उनके अपने सिक्के हैं, अपनी भाषा और राज-अवस्था हैं। राजनीति की ओर से एक देशवासी दूसरे के लिए विदेशी है। स्वदेश और विदेश की संज्ञाओं के सहारे राजकाज और काम-काज चलता है। विदेश-नीति राजनीति का प्रमुख भाग है। विदेशों ने स्वदेश जी रक्त दरों के लिए सीमाओं पर चौकियाँ बिठानी और फौजें रखना रखनी हैं। सर-

कार का काम पहले सुरक्षा है। बाहर का हमला हो तो सरकार का जिम्मा होगा कि उसको शेके और देश को बचाए। सरकार इस तरह पराये से अपने देश को अलग और स्वतन्त्र और स्वाधीन रखने के लिए निर्माण किया हुआ एक अस्त्र है। उसकी जमता मुकाबिले में है। अमुक से उसकी ताकत ज्यादे है, उत्पादन ज्यादे है; सेना ज्यादे है—जल, थल और वायु सभी तरह की; टैक, गोला-वारूद और तोप-बन्दूक ज्यादा हैं, या कम हैं,—इस सान से सरकारों की ताकत को कृता जाता है।

अब संस्कृति क्या है? क्या वह भी इसी तरह की ताकत का नाम है? क्या उसमें भी अपनी सीमाओं पर नाकेबन्दी है? क्या वहाँ भी अपने और पराये के बीच में कॉटेदार बाब है? क्या बाहर के भय को लेकर भीतर किसी अहंवाद के खोल में अन्दर की ओर संकुचित और सुरक्षित बनने या बनाने का नाम संस्कृति है? या कि संस्कृति उससे कुछ भिन्न चीज है?

अपने को अलग, और उस अर्थ में स्वतन्त्र और स्वाधीन, जो रखना चाहे वह शायद संस्कृति नहीं है। संस्कृति परस्परता में से उगती है। परस्परता, यानी फैलता हुआ आपसी-सहयोग। उम आपसीपन पर संस्कृति में कहीं भी हड़ नहीं आती। पढ़ीसी से शुरू होकर समूची मानव-जाति तक उसे बढ़ाते ही जाता है। किसी जगह रुककर यह कहना कि हमारा प्रेम और हमारी आत्मीयता यहीं तक रहेगी, आगे हमारे लिए अप्रेम और द्वेष का अधिकार शुरू हो जाता है—संस्कृति के लिए समझ नहीं है। यह कहने और मानने के साथ ही विकृति शुरू हो जाती है।

सन्देह नहीं कि संस्कृति को ही जातीय और देशीय बना लिया गया है। देशों की अलग-अलग संस्कृतियाँ भी कही जाती हैं। यह कहना पुकङ्गम मिथ्या भी नहीं है, केकिन यह तो उसमें भवित ही है कि वे परस्पर पूरक ही हैं, मारक नहीं हैं। संस्कृति शब्द की ध्वनि से ही यह तो साफ हो जाता है कि विश्रह की जगह सामन्जस्य उसका है।

संस्कृति का दर्प और दम्भ शाजनीति के स्पर्श से ही सम्भव होता है, अन्यथा उसके सूल तत्त्वों में स्वागत-भाव से दूसरे को लेने और हर्ष-भाव से दूसरे के प्रति बढ़ने की वात समाहँ रहती है।

हम इतिहास में से बढ़ते ही आए हैं। बढ़ने का मतलब कि हमारी आत्मीयता का विस्तार ही होता गया है। आत्मोयता के साथ शायद अहन्ता का भी विस्तार हुआ हो, पर इन दोनों में अन्तर चीन्ह रखना जरूरी है। अहन्ता में स्वत्वभाव बढ़ता और उसकी सीमा पर संघर्ष-भाव वैठा रहता है। उसमें हर कुछ और हर कोई गैर बनता है और सबके साथ सम्बन्ध तब स्वार्थ और भौग का बनता है। उसके विरोध में आत्मीयता अन्तस्थ अहानुभूति को खोलती है। उसमें व्यक्ति खींचता और छीकता नहीं है, देता और बरतता है। आत्मीयता मिलाती है, अहन्ता काटती है।

इतिहास में यदि हम बढ़ते आए हैं तो हमारा उत्कृष्ट ही नहीं निकृष्ट भी बढ़ता आया है। दुनिया एक हो रही है। दूरी उड़ गई है। अज्ञान और अपरिच्य समाप्त हुआ जा रहा है। तब यह भी है कि हम सब सुभीतों से युद्ध के और भीषण और प्रचरण होने का अवसर आ गया है। पहले कुछ बढ़ते थे और बाकी अलिप्त रहते थे। अब लड़ना ऐसा होता जा रहा है कि उससे बचा कोई रह न सके। दूरी के दूर होने का लाभ जैसे बुराई ही पहले पा रही है।

पर यह निशाच का विषय नहीं होना चाहिए। चुनौती ही सामने आकर जीवन में सामर्थ्य जगाती है और बढ़ती हुई आत्मीयता के लिए सिमट कर कसती हुई अहन्ता उल्टे चेतावनी, सफूर्ति का काम दे सकती है।

किन्तु यिस घग्ह तावशाली नी आपशक्ता है वह है संस्कृति के काग में अप्रशंसित का अपथोग जिसके बल पर सरकार आपना काम गवाती है। उससे दूर्घट जाता काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी काम शायद उसी आसानी से गिरङ्ग री जाता है। सरकार के

पास यांत्रिक शक्ति है, इसी कारण हादिक शवित वे उत्पादन में वह असमर्थ हो जाती है। आरंक में से प्रेम उत्पन्न नहीं होता। सरकार के पास परिमाणात्मक प्रभुरता है और उसके लिए से सरकारी काम होता है। ऐसे का काम सरकारी होने से रुपए में होता है। सरकार का बल पैसा है और वेतन-थोगी उसके हाथ-पर्व। सामने से पैसा हट जाय सो वह काम ठप हो जाता है। संस्कृति के काम की जड़ें दूसरी हैं। पैसे का लोभ आगे रखकर तो वह हो ही नहीं सकता। कष्ट का भोग सामने हो तब भी जो आगे बढ़े—ऐसा ही संकल्प और संयम से युक्त पुरुष या वर्ग स्थायी संस्कार ढोइ जा सकता है। वह काम श्रद्धा की शक्ति से और तप-त्याग द्वारा होता है।

यह गश्न आज के दिन सहचर्पूर्ण है, क्योंकि सरकारें जनतन्त्रात्मक बन रही हैं और माना जाता है जो सार्वजनिक है वही सरकारी है। लोक-सेवा लोक-शासन ही है। जन-राज और लोक-राज के इन राजनीतिक आदर्शों से सान्वना तो होती है, लेकिन राज और जनता, राजा और प्रजा इन दोनों के बीच का अन्तर आदर्शों और नारों से मिट नहीं जाता। इससे सहज सन्तोष की जरूरत नहीं है और सरकारी हाथों में रेट्री-कपड़े की अपनी स्थूल आवश्यकताओं को देने से आपनी आत्मिक आवश्यकताओं जैसे शिक्षा-संस्कृति को देने के समय सोच-विचार की आवश्यकता है।

पढ़ीस में जो हमारे देश है, हम देखते हैं कि वहाँ बसने वाले भी आदमी ही हैं। हमारी तरह सुख-दुख बन्हें भी अनुभव होता है। उसी तरह मेहनत करके उपजाने और रहने को वे भी लाचार हैं। लेकिन उक्षे में अमुक लकीर होने और राजधानी में सरकार नाम की चीज़ के होने से वे हमारे लिए नैर हैं और हुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए संस्कृति के यात्री बढ़ते हुए मेलजोख के काम के लिए आवश्यक दृष्टि भागवीथ दृष्टि है जो स्पष्ट ही राजनीतिक से दूसरी है और दूर है। वह अपने-पराये और स्वदेश-विदेश की नहीं है, आत्मोपमा, समवेदना और

सहानुभूति की है। निश्चय ही वह सरकारी दृष्टि नहीं हो सकती। वह अधिकाधिक उस को प्राप्त होगी जो देश के और देश के स्वार्थ के साथ ज़िक्र होकर नहीं बल्कि मानव-हित में समर्पित होकर रहता है।

सब देशों के लोक-मत में ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो प्रभाव रखते हैं किन्तु आन्तरिक। वे किसी सत्ता, पढ़ा या परिमाण के बल से बलिष्ठ नहीं हैं। प्रेम, प्रसन्नता और वेदना जो उनकी भाषा और व्यवहार में व्यंजित होती है, उनका प्रभाव उसी पर टिका है। ऐसे लोगों का बल संस्कृति के सच्चे काम का है। कारण वह यांत्रिक नहीं, हार्दिक है। इससे चहुँ और वह चैतन्य को उभारता है और कुछ के गर्व को उक्साकर शेष के मान को दबाता नहीं है।

जिसको हम संत कहते हैं वह उसी प्रकार का व्यक्ति है। सम्पत्ति से वह शून्य है और अपना अलग स्वार्थ उसके पास नहीं है। सबको प्रीति खाँटता हुआ है, सबकी कृपा माँगता हुआ वह जीता है। सब पूछिए तो यही व्यक्ति संस्कृति का स्रोत है, कारण उसका लगाव उस भगवान् से है जिसमें सब ब्रह्माशड एक है। इसलिए उसके मन में किसी को ख्यालित करने का ध्यान नहीं आता। खण्ड-खण्ड में वह उसी अखण्ड की सत्ता को भास्वर देखता है। मन में अखण्ड भाव लेकर जगत् के प्रत्येक खण्ड को वह आदर और प्रतिष्ठा का दान करता है। इस तरह सब और उसके लिए स्वस्ति है और हर किसी को वहाँ से स्फुर्ति प्राप्त होती है।

इस व्यक्ति के पास सत्ता जैसा कुछ है ही नहीं। वह मानो शून्य है। किसी को वह दबा नहीं सकता, आज्ञा नहीं दे सकता, किसी से कुछ करा नहीं सकता। इस तरह वह अपने लिए एकमात्र मार्ग खुला रख छोड़ता है और वह है जन-मन के हृदय में जगह पाने के द्वारा जीवन जाने और उभारने का मार्ग।

वह व्यक्ति सरकार की जाना-बही में दर्ज होने लायक नहीं रहता। सरकारी अंक-गणना में उनकी गिनती नहीं आती। मताधिकार उसे

क्वचित् ही होता है। प्रतिनिधि का रूप उसके पास नहीं है। चुनाव में खड़े होने के लिए उसके लीचे धरती नहीं। सबके होने की कोशिश में किस पार्टी का हो और किसका नहीं? वह समता और न्याय का है; लेकिन दल-नीति शक्ति और सम्पत्ति की होती है।

परिणाम यह है कि जलसों और कानूनों में से संस्कृति के नाम पर गजनीति ही अधिक प्राप्त होती है। 'मैं आगे' और 'मैं अधिक' यह भावना वहाँ वातावरण में जगी रहती है। इसमें हृदयों की निकटता और एकता की बात फलित भला कैसे हो।

आज की पढ़ति काम करने की कुछ ऐसी ही बन गई है। उसे जनतानित्रक कहा जाता है। जोड़ और जुगाड़ में से वह काम निकालती है। बीज में से वृक्ष जैसे आता है वैसे नहीं, सामान इकट्ठा करके जैसे कारखाना खड़ा किया जाता है उस पढ़ति से काम होता है। वृहद् उत्पादन उसका परिणाम है। थोक चोज तैयार होती है और प्रचुर मात्रा में। लेकिन यह काम अंक और परिणाम में जितना ही प्रभूत होता है, चेतना-संस्कार की दिशा में उतना ही शून्य होता है।

प्रश्न होगा कि तो क्या सरकार का संस्कृति की दिशा में कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है? उस इष्ट से क्या कुछ अधिकार भी नहीं है?

कर्तव्य तो सचमुच बहुत कुछ है, लेकिन अधिकार शायद कुछ नहीं है। और पहला कर्तव्य यह है कि हृदय की भाषा में अपनी असमर्थता को वह जान और पहिचान ले। अर्थात् अपनी और से अकिञ्चन को कृपा न दे, उसकी कृपा अपने लिए चाहे। पहले राजा लोग सन्त की शरण जाते थे। वे शायद राज्य के महत्व और तुच्छता को जानते थे। उसके महत्व की सार्थकता तभी है जब मन के गहरे में उसकी तुच्छता का आभास भी हो।

सरकार को आन्त में बिखरना ही तो है। उसको सारे समाज में रम जाना है। समाज आदर्श वह है जहाँ हर नागरिक आत्म-शास्ति है

और कहीं बाहर छव्र-दण्ड से अभिशप्त होकर किसी शासन को सिंहा-सन पर विराजमान होने की आवश्यकता नहीं है। वह स्टेटलेस सोसाइटी “हमारे सब राज-तन्त्र और राज-विधान के आगे आदर्श के रूप में अधिष्ठित हैं। संस्कृति इसी द्वारा से अपना समूचा दायित्व उसे लक्ष्य के प्रति मानती है। राजनीति चाहे उसको दूर रख कर आज स्टेट को सर्व सत्तात्मक बनाने के प्रयत्न में पड़ जाय, संस्कृति से वह भूल नहीं हो सकती। उसके लिए लदा सर्वदा प्रधान सत्ता नहीं, सत्त्व है। सत्त्व की ही सत्ता को वह सिर खुकाती है और सत्त्व है उसके लिए सत्त्व-भाव से वह मानव जिसके मन में प्रीति और हाथों में श्रम है। वह आदमी धरती में श्रद्धा और स्वेद डालकर उत्ताने-रचने में लगा दीखता है। ऐसे श्रम-भानी या श्रम-योगी असंख्यों मानव-घटकों में लोक-सत्ता को छितरा न दे तथ तक संस्कृति को चैन लेने का आवकाश नहीं है।

यदि यह श्रद्धा संस्कृति के लिए तात्कालिक है तो राजनीति के रास्ते से चलने वाली सरकार मानव-भन के प्रतिनिधि संस्कृति-वाहकों से अपनी गति के लिए निर्देश और नीति के लिए सन्देश प्राप्त कर सकती है।

प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सरकार में होने से ही व्यक्ति की सम्भावनाओं में संस्कृति को दिशा देने की सामर्थ्य का लोप हो जाता है?

हाँ, अधिकांश लोप ही हो जाता है। अधिकांश इसलिए कि यह सर्वथा असम्भव नहीं है कि राज्य नीति का हो, राजनीति का नहीं। ऐसे धर्म-राज्य हतिहास में हो सके हैं आगे भी हो सकते हैं। लेकिन वे अपवाद हैं और इस नियम को सिद्ध करते हैं कि राज्य का बल हृदय का नहीं, कानून का है; गुण का नहीं संख्या का है; सहानुभूति का नहीं दमन का है। उस नियम को देखते हुए राज-पुरुष की संस्कृति को नेतृत्व देने की असमर्थता निश्चित ही मान लेनी चाहिए।

ऐसा यदि होता है, और हो तो रहा ही है, तो इसका परिणाम

इष्टकारी नहीं हो सकता। जीवन में उसके कारण वैषम्य और तनाव आ जाता है जैसे सब-कुछ व्यथास्थान न रह कर स्थान-भ्रष्ट हो रहा हो, पेसा प्रतीत होते लगेगा।

गांधीजी ने सुझाया कि राजनीतिक स्वाधीनता भिलने के बाद कौंप्रेस लोक-सेवक-संघ बन जाए। पर कौंप्रेस सेवक-संघ नहीं बनी, शासकों का दल बन रही। परिणाम दुआ कि कौंप्रेस स्थर्य स्थान-भ्रष्ट हो गई। पहले लोक-जीवन का नेतृत्व उसके पास था। अब शायद उसके द्वारा लोक-जीवन पर दबाव पहले लगा है, दमन होने लगा है। नेतृत्व की जगह पर रह कर कौंप्रेस के बहाँ से स्थान-भ्रष्ट हो जाने से भारतीय लोक-मालस गहरा संकट अनुभव कर रहा है। या तो कौंप्रेस शासन से उठकर सेवा में आए या नहीं तो कौंप्रेस से खाली हुई जगह पर कोई दूसरा प्रकृत नेतृत्व आए। प्रकृत नेतृत्व का मतलब सांस्कृतिक नेतृत्व। राजनीतिक यानी लकड़ी होकर नेतृत्व कृतिम होता है।

राजेन्द्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू आदर्श भावना के पुरुष हैं, जेकिन खेद है कि सरकार के होकर वे अब उतने आदर्श के काम नहीं आ सकते। अचरज तो होता है कि गांधी जी के स्पर्श में रहने वाली कौंप्रेस में क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हाई कमायड़ का कोई भी व्यक्ति राज्य के काम में न रहकर प्रजा के मन रहता। विसमय हो कि इसी हमारे बीच वह घटित हुआ है, भारत की आंख किसे के सिंहासन पर नहीं रही, कुटिया के कुशासन पर रही है। गांधी को पाकर इसी से भारत की आत्मा को तेज प्राप्त हो गया। उसके बाबू अब लगता है जैसे भारत सब कुछ गँवा दैगा है। उसके राज-दर्शन में आज आत्म-दर्शन की ज्योति दुख गँवे हैं और यहि कहाँ आत्म-दर्शन है तो राजदर्शन उस से अचूता है। गांधी का ज्ञान-योगी यो एक्षर कौंप्रेस कायम नहीं रख सकी।

दिल्ली का संस्कृति-सम्मेलन भारतीय आत्मा की उस परम्परा की जगा सका तो रुफ़ख माना जायगा।

राजनीतिक शब्द

विष्वव के दो अंक मैंने देले हैं और उसके जमवरी के नम्यर में लिखने के न्यौते को मैं धन्यवान् के साथ स्वीकार करना चाहता हूँ।

‘विष्वव’ कुछ डरावना शब्द है। मैं विष्ववी नहीं, मुझे उससे डर लगता है, और मुझे नहीं मालूम होता कि उससे डर के सिवाय और क्या लगना चाहिए?

विष्वव को मैं बचाना चाहता हूँ। जो विष्वव है वह अचिट है, और जो इष्ट है, उसके लिए ‘विष्वव’ शब्द मेरे मन से नहीं निकलता।

लेकिन यह आपके पत्र ‘विष्वव’ के विषय में नहीं है। वह तो उप-योगी है, उसमें राजनीतिक विचारों की विवेचना होती है, जो बहुत ज़रूरी है। और जो उपयोगी है, वह ‘विष्ववी’ तो है ही नहीं।

निन्दुस्तान में इधर राजनीतिक लेज में विचारों की बहुत रगड़-मगड़ मालूम होती है। सन् १९२०-२१ के असहयोग-आन्दोलन का ज़ोर जब ज़रा मद्दिम हुआ, तभी से राष्ट्र में बुद्धि-भेद भी दीखा। स्वराज्य-पार्टी बनी और कुछ अपरिवर्तनवादी हुए। यों तो कहने को राष्ट्रीय युद्ध के दो मोरचे हो गये, एक बौद्धिकवाला मोरचा, दूसरा द्वन्द्वात्यक कार्य-करम जा। लेकिन स्पष्ट ही दो मल और दो फर्जों को में गंगा-जलहारी नहीं लगती। युक्त की कमज़ोरी दूसरे को अपनी ताक़त मालूम होती थी। सन् ३०-३२ की लड़ाई में फिर मानो भेद दूढ़ गया और

राष्ट्र के प्राणों की एकता अमर होती है। पर युद्ध थमा था वीमा हुआ कि फिर विनार-भेद लगने लगा।

उसके बाद से तो उस भेद को गहरा-ही-गहरा होता जाता पाते हैं।

कॉमिस के हाथ में आय तो थोड़ा-बहुत शासन की लाकृत भी है और अब वह अन्तर्भेद अनिवार्य ही है।

विनार-धाराएँ जो आपस में इगड़ में आती हैं और जिनके संघर्ष से गति और गरमी होती है, उनको चीनने के लिए कुछ विशिष्ट शब्द काम में आते रहे हैं। समाजवाद, अहिंसावाद, फासिज़म, गांधीवाद, पूँजीवाद, पारिंयामेट्रीइम आदि-आदि पेस ही शब्द हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि ये शब्द अब स्थिति की अधार्यता को पकड़ने में मदद नहीं पहुँचाते, बल्कि उसे कुछ हँकते हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों से आर-पार होकर देखने की ज़रूरत है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ और उसके अंग के रूप में भारतीय राजनीति को देखने की आदत डालने की कोशिश करने से एकाएक मालूम होता था कि दुनिया में दो ताकतें हैं। एक समाजवाद दूसरी पूँजीवाद। फासिज़म पूँजीवाद का एक रूप है। सामाजिकवाद पूँजीवाद का फल है। जवाहरलालजी का सूचा विश्वेषण ही सी आधार पर था। लखनऊ का उनका सभापति-पद से दिया गया भाषण भी वही था।

यह विश्लेषण अभी पुराना नहीं हो गया, काफी पालतू-सा है। कालिङ्ग और स्कूल के विद्यार्थी तक निःर्गक होकर इसकी पेश कर देते हैं।

मैं नहीं जानता कि यूरोप से लौटने पर जवाहरलालजी का आज का अन्दाज़ा क्या है। पर यह तो मालूम होता है कि पहले की तरह उन दो शब्दों के आधार पर वेखटके अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का समाधान या समाप्ति अब नहीं कर देते हैं। हमारे नारे केवल शब्द हैं, एक

संकेत हैं, वह स्वयं सचाइ नहीं हैं। इसलिए उन्हें ज़रूरत से ज्यादा गहरे अपने भीतर हमें नहीं जाने देना चाहिए। उससे बुद्धि कुप्रियत होती है। उसकी शक्ति बढ़ने के बजाय शब्दावधानी होकर सुस्त हो जाती है। यथार्थ को नहीं पकड़ती, शब्द से वह उलझती है, और उससे कर्म की जगह विवाद पैदा होता है।

आज अन्तर्राष्ट्रीयता के विद्यार्थी को घटनाओं के प्रकाश में मालूम होता है कि नाम अस्तित्व नहीं है। युद्ध या उसके संकट ने अस्तियत को ऊपर ला दिया है। राष्ट्र अपने अन्तर्रंग विधान में प्रजातन्त्रात्मक हों या राजतन्त्रात्मक हों या चाहे फिर वह समाजतन्त्रात्मक (सोशलिस्ट या कम्यूनिस्ट) हों, और मुल्कों के साथ बर्ताव करने में सभी एक-से निकलते हैं, यानी उपर राष्ट्रीयता प्रकट करते हैं। विधान किसी का कुछ ही, लेकिन जर्मनी अपना, इंग्लैण्ड अपना, रूम अपना और इटली और फ्रांस भी अपने-अपने हितों को आगे रखते हैं। वे अपनी राजनीति की बातें शब्द में किसी भी आदर्श के साथ जोड़ते हैं, वे चलाते उसको अपने राष्ट्र-हित की अपेक्षा में ही हैं। राष्ट्र ही सब का व्यावहारिक राजनीति की टेक है और राष्ट्र की कल्पना भौगोलिक है। राष्ट्र की ही परिभाषाएँ आज की समूची व्यावहारिक राजनीति चलाती हैं।

कोई शब्द जो इस नंगी यथार्थता को हमारी आँखों से हँक देता है, वह आज की राजनीतिक अस्तित्व को समझने में सहायत नहीं होगा। ऐसे शब्दों का हमें अस्तक कम प्रयोग करना चाहिए। वे विवाद बढ़ाते हैं, कर्म की सम्भावना नहीं बढ़ाते।

हिन्दुस्तान की स्थिति को भी आज जो पूँजीवाद और समाजवाद आदि चलातां शब्दों के खहरे मानो समझ लिया जानकर है, मुझे सन्देश है कि ऐसा गलत ने अपना या यथार्थता का कितना जागरूकरते हैं?

हिन्दुस्तान, ये राजनीतिक शब्द किसे हैं और व्यावहारिक उसके साम-

है, यह युद्ध थात है; केविन 'कियरल' जैसा कियरल है, उसी अर्थ में समाजवादी या अहिंसावाला अहिंसावादी है। यानी समाजवादी का समाजवादिया से या अहिंसावाले का अहिंसा से उतना नाता नहीं है, जितना उन-उन नाम दाले दखों से उनका रिश्ता है।

युश्मी की थात है कि अहिंसा की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी चाल का दल और उस चाल की सचाई में वैसा ही सम्बन्ध हुआ करता है, जैसा आमुक धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों और लद्गत सम्प्रदाय के औसत सदस्य के व्यवहार में होता है। सचाई धार्मिक है और शब्दों की गर्मागर्मी साम्प्रदायिक तत्त्व पर होती और वहीं छूट जाती है।

इसलिये बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक शब्दावली को व्यावश्यक प्रयोग में लाकर भी हम उसके फेर में पड़ने से बचें। गर्मागर्मी की आवश्यकता नहीं है। और सच्चा युद्ध कभी शब्दों का युद्ध नहीं होता।

पूँजीवाद या कासिङ्गम या गांधीवाद या समाजवाद आदि पदों पर चक्काने की आवश्यकता नहीं। सचाई हृनके परीक्ष में है। हृनके नारे राजनीतिक लेन्ड्र में उपयोगी होते भी हैं ज़रूर, पर जीवन-सम्बन्धी दृष्टि को स्पष्ट करने में वे सहायक नहीं होते, बल्कि बाधक होते हैं। विचार के लेन्ड्र में उनकी खँड़ी नहीं। काम के लेन्ड्र में ही वे शब्द विचारणीय और प्रयोजनीय बन गये हैं।

इसी से कोई प्रश्न समूचा राजनीतिक नहीं होता। जैसे कि कोई प्रोग्राम दार्शनिक नहीं होता। विचार के दार्शनिक और नैतिक होने की आवश्यकता है, जैसे कि प्रोग्राम के सामाजिक और राजनीतिक होने की अनिवार्यता है। विचार के लेन्ड्र में राजनीतिक शब्दों को प्रयोग में लाकर कुछ वैसे ही विभ्रम होने की सम्भावना है, जो राजनीतिक लेन्ड्र में आधारित शब्दों के व्यवहार से उत्पन्न होती देखी जाती है।

राजनीतिक नारे यैसी आवश्यकता को लेकर बनते हैं, उनमें सांघिक

और दलीय आवेशों (Prejudices) की ध्वनि होती है। वैज्ञानिक सचाई उनमें नहीं होती। वे नारे सामयिक उपयोगिता के होते हैं और तात्कालिक कर्म के लिये अनिवार्य भी हो जाते हैं। लेकिन तात्कालिक कर्म से जहाँ गहरे जाने की आवश्यकता है, वहाँ उन शब्दों की शक्ति की ओर हो जाती है। वहाँ वे अनर्थ के छाँर अनिष्ट के उपयोग में आ सकते हैं।

सच यह है कि रण्ड शब्दों की नहीं है, मनोवृत्तियों की है। विचारधारा नहीं, इस समय तो लगभग दो जीवन-दृष्टियों का संघर्ष है। दो संख्यितियाँ ही मानो आपस में जूझ रही हैं। इसी से राजनीति के प्रचलित शब्द और दलों में आये-रोज़ टूट-फूट दिखाई देती है। दीखता है कि अजब मौकों पर दलों में अजब कौँकें पड़ गई हैं और आज दलों के भेला और बैंट का नक्शा कुछ और है, कल कुछ और ही था। कल के दुश्मन आज तीसरे को दुश्मन मानकर खुद मिल गये हैं। यह जो तात्कालिक राजनीति में दैव-घात चला करते हैं, वे बूथा नहीं होते, उनके भीतर भी कुछ तात्त्विक सचाई काम करती रहती है। इसी से कहना पड़ता है कि राजनीतिक विद्याओं के नीचे एक सांस्कृतिक संघर्ष काम कर रहा होता है।

हिन्दुस्तान में यही है और सच पूछो तो अन्तर्राष्ट्रीयता के चेत्र में भी वही है। सोशलिज्म और क्रासिज्म का युद्ध नहीं है। ये दो नाम हैं और अगर्ये उन दो में दोपन हैं; लेकिन भीतर से दोनों की ही प्रकृति एक है। दोनों स्टेट का प्राधान्य चाहते हैं, अपने-अपने देश का प्राधान्य चाहते हैं और राह में पहने वाले मानव-समूहों को कुचल देने में डरते नहीं हैं। दोनों शक्ति के पूजक हैं और उसकी आराधना में मनुष्य के खून बहाने से भी चूकना नहीं चाहते।

यह ज़रूरी गही है कि एक दो दोषित दूसरों को हमें लेना ही होगा। उस परिभाषा में लोचने की ज़रूरत की नहीं है। हिन्दुस्तान उस फेर में पड़ा, 'तो उसका दिस्तार भी है। तो वस्तु हमारी सुसीबत

के मूल में हैं, उसे पकड़ना होगा। वह है इन्सान का इंसान द्वारा दबाया जाना। उसी की कहो शोषण या हिंसा या अन्यथा। वह रोग हमारे समूचे जीवन में फूट रहा है। राजनीतिक उसका स्वरूप हो, पर मूल राजनीतिक नहीं है। वह समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है। उसका निदान निरा राजनैतिक नहीं होगा, निदान नैतिक होगा, अर्थात् वह जीवन की मौजिक बातों से सम्बन्ध रखेगा। नहीं तो शासन के मन्त्र को बदल देने से निवारा नहीं हो जाने वाला है। इस दल को हटाकर दूसरे दल का राज होने से क्या लाभ है, अगर राज्य दल का ही हो। मूल लक्ष्य पर जिसे आँख रखनी है, वह राजनीतिक बागजाल के पार होकर उस और प्रयत्नशील होगा, जो राजनीति का भी लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात् मानव और मानव के बीच आतंक का, बलात्कार का, शोषण का अर्थात् हिंसा का खात्मा। जो इस लक्ष्य को साधता है, वह किसी नारे या शब्द से पुकारा जाय, इष्ट है। और जो विरुद्ध जाता है, उसको भी चाहे फिर कैसा ही लोकप्रिय नाम दिया जाय, वह अनिष्ट है।

इस तरह सुरक्षा मालूम होता है कि राजनीतिक बातों में सच्ची समझदारी के लिये नैतिक दृष्टि की आवश्यकता है। अन्यथा राजनीतिक शब्दावली या नारों का कुरंधर प्रयोग अनर्थ कर देने वाला हो सकता है।

स्वतन्त्रता और समता

स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता, लिबर्टी, ईक्वलिटी और फ्रेटर-निटी—फ्रांस की राजनीति के बाद से यह पद समस्त रूप से ही हमारे लामने आता है। एक साँस में हमने उसे कहा है, एक सूत में देखा है। भाव की दृष्टि से इन तीनों को एक साथ लेने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जान पढ़ता है बस्तुता में अब कठिनाई पैदा हो गई है। बन्धुता तो एक भावना ही है। इससे उसकी बात जाने दो। शेष समता और स्वतन्त्रता, जान पढ़ता है, अब एक नहीं हैं या एक जगह नहीं है। वे वास्तविकताएँ बनकर आपस में विरोधी हो गई हैं। यानी या तो हम समता रख सकते हैं या स्वतन्त्रता को ही रख सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं रख सकते। समता के लिए स्वतन्त्रता को खोना होगा। स्वतन्त्र रहना चाहते हो तो विषमता के लिए तैयार रहना होगा।

आज का संकट मानसिक से आगे बढ़ गया है। वह राजनीतिक क्या, दैहिक हो गया है। ठंडी लड़ाई तक तो बात को राजनीतिक भी कह दिया जाय, लेकिन नौबत जब हाथापाई तक आ जाय, जैसे कि कोरिया में, तब उसके लिए राजनीतिक शब्द छोटा पड़ जाना चाहिए। राजनीति में शिक्षण की धरनि है। खुलकर खून के प्यासे होकर ... नहीं दर्शन नहीं दर्शन। दौड़ने में शिक्षण नाम की कोई चीज़

तो दिखाई नहीं देती। इससे राजनीति वहाँ है यह कहना कठिन है। हाथापाई पर उतरे हुए इन्सानों में इन्सानियत दीखनी बन्द हो जाती है। यहीं हाल उस लड़ाई का है जो सभ्य केवल इस मान में है कि उसमें संहार बड़ा होता है। सभ्यता सिर्फ उसे और भीषण बनाती है। विज्ञान इन्सान की इसमें मदद करता है कि वह हैवान भरपूर जौर से हो सके।

विज्ञान में उच्चति नहीं है सो नहीं। सभ्यता भी उच्चत अवस्था कहलाती है। इसलिए वैज्ञानिक सभ्यता से उच्चति पाई हुई लड़ाई के लिए हाथापाई शब्द का प्रयोग कुछ हल्का ही समझा जाना चाहिए। हाथापाई के बक्स साफ है कि गुथने वालों का माथा क्रोध से पागल हो उठता होगा। आधुनिकता की लड़ाई वैसी नहीं है। हिंसा अधिक हो, दानवी अधिक हो, यह कूसरी बात है; लेकिन उसमें ठंडे संघर्ष से काम लेना होता है। उसमें आदर्श को ज्यादा जगह है। वह लड़ाई छोटी बातों के लिए नहीं, बड़ी बातों के लिए होती है। उसके पीछे विद्वान्त होता है, दर्शन होता है, ज्ञान-विज्ञान होते हैं। बहुत सारा इतिहास होता है और उसके चलाने वाले गम्भीर, वाष्मी, तुष्टिमान, विचक्षण राजनेता भी होते हैं। उनकी वाणी और व्यवहार में भी सुधराई पेसी प्राह्येगा कि साक्षात् सौजन्य फीका पड़ पाय। वे जानते हैं कि भवितव्यता की होकर जियेगा। अपने कर्म का कर्ता और अपने कर्म से भोक्ता होगा। क्या पश्च से मनुष्य और मनुष्य से अब तू नागरिक नहीं बना है। नागरिकता मनुष्यता की भूमिका है। किसी तन्त्र के हाथ में करपुतली बनकर क्या नागरिक की दायित्व-भावना का तुम लोप हो जाने दोगे। सद्भाव और सहयोग स्वतन्त्रता में से परिवर्त होता है। उस व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के आधार पर भावी मानव-समाज की कल्पना की जा सकती है। दूसरी तरफ चलना मनुष्यता से पशुता की तरफ जाना होगा। ए पुरुष, कि जिसका भाल उन्नत है और आँखें ऐ देखती हैं, इतिहास को तू किसी तरह उधर लौटने नहीं देना कि

जिधर अँधेरा है और जड़ता है। सिर्फ संख्या, सिर्फ परिमाण, सिर्फ सुट्टी का बल और दानव के दर्प की हुकार तेरी ऊर्ध्व-चेतना को मुका नहीं सकेगी। उठ कि तुम्हे सुन्हा होना है। अपनी मनुजता के लिए दनुज की चुनौती ले और उसे परास्त कर।

और समता ? कहाँ है समता ? एक भूख से सिसक रहा है, दूसरा ऐश में उड़ा रहा है। यह पूँजीवाद का तमाशा है। देखते हो यह आखीशान कोठियाँ और उधर वह देखो गन्दी मोरियाँ। क्या यही है तुम्हारी आज्ञादी ? इसी का नाम है इन्सानी जिन्दगी ? हाँ, मन्दिर है। वहाँ देवता है। उसका भोग है, प्रसाद है, पूजा है, पुजारी है। क्या वह सब ढकोलला नहीं है कि जिससे धनी अपने धन में सुरक्षित हैं दीनों और दरिद्रों का आसन्तोष मन्दिर के आर्गन में उनसे हर जिया जाए और मूढ़ा सन्तोष उन्हे उड़ा दिया जाए। सारा साहित्य, संस्कृति, नीति, धर्म पूँजीपतियों के विलास को अचूपण रखने के लिए है कि ये मौज में पले और तुम मिहनत में पिलो। यह घोर नक्क, जो-कुछ उन सरे स्वर्ग की अपने धीच में बाँट-भोगकर तुम्हारे लिए इच छोड़ते हैं, क्या उसी नक्क में तू रहे चला जायगा इन्सान ! तेरे पास दो हाथ हैं। तू करता है, तू बनाता है। सुख कहीं है तो वह तेरा तैयार किया हुआ है। तू बनाय और वे भोगे। तू रोये और वे हँसें—यह कथ तक होता रहेगा। तुम्हे पद्धतानना भर है कि सब तेरा है। धन तेरा है, राज तेरा है, जो है सब तेरा है। अब जिनके पास दीखता है वे सिर्फ चोर और ठग हैं। जिन्होंने तुम्ह से ही लूटकर तुम्हे पासाल कर रखा है। इससे पुँजीतान ! उठ हम तुम्हे जगाने आए हैं। हम मिहनत का हक्क कायम करेंगे। मिहनत करने का राज होगा, उनकी तरफ से होगा। उठ कि हम कम्यूनिस्ट तुम्हे बराबरी देंगे। पूँजीवादी ठग की स्वतन्त्रता खुद और और तुम्हे नीच बनाये रखने का जाल है। प. इन्सान, पहचान कि जिस बहुपन के लीचे तू पिस रहा है वह हिल्क चल्यानार है। उठ पह कि देखेगा कि तू उनके सिर पर है, और भगिन्य तेर हाथ नौ है !

लड़ाई यह है। ऊपर से यू० एस० ए० और यू० एस० ए० आर० के दिमागों, फौजों और शस्त्रों की दीखती है और भावर से वह इन दो दावों की है। समता और स्वतन्त्रता में से कोई एक-दूसरे को खा सकता है यह समझ में नहीं आता। फन पूँछ को डस नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता दीखे तो समझिए कि साँप की शामत ही था गई। युक्ते नहीं दीखता कि मानव-जाति को मरना है। लेकिन सेवा में नियुक्त वे इतिहास के अनुचर भाव हैं। केवल कर्तव्य के नाते युद्ध उसको ठानना पड़ रहा है। कारण युद्ध ही है जिसमें स्वान करके अगत् का भविष्य आशामय होगा और मानवता के स्वप्न सम्पूर्ण होंगे।

इससे आज युद्ध है। यो वह एक कोने में है, लेकिन वैसे हर मन के कोने-कोने में वह विद्या हुआ है। कारण, दो कीमती चीजों का सवाल है; एक स्वतन्त्रता, दूसरी समता। न स्वतन्त्रता को खोया जा सकता है, न समता को ही खोया जा सकता है। इससे किसी एक पर भी संकट हो तो जूझ मरना होगा, पर उसको खोना नहीं होगा। तिस पर संकट दोनों पर है। और विसमय यह कि संकट स्वतन्त्रता पर समता की ओर से है और समता पर स्वतन्त्रता की ओर से है। और व्योकि दोनों मानव-जाति की अमर थाती हैं, इससे दोनों पर आए संकट को जी-जान से छोड़ना होगा। इतीभर इसमें समझौता न हो सकेगा। क्या स्वतन्त्रता आधार का स्वभाव नहीं है? क्या तीनों लोक मिला कर उसको कीमत में कुछ ठहर सकते हैं? इसी तरह समता क्या ईश्वरीय इन्सान का जन्म-जात हक्क नहीं है? लाखों-करोड़ों की जानें उस एक और अकेले हक्क के आगे तुच्छ नहीं बन जानी चाहिए?

यह लड़ाई है। निससन्देह सर्वथा आदर्श की यह लड़ाई है। डिमो-क्रेसीज़ स्वातन्त्र्य के घरज को किन्हीं बलिदानों के नामे नहीं होने देंगी। उसी तरह कम्यूनिस्ट जाति इन्सानी समता की टेक को किसी तरह झुकने नहीं दे सकती।

बात दोनों की पक्की और सच्ची है। सचाई ही न हो तो और क्या

हो सकता है जो उनमें जाने लेने और जाने देने की तैयारी भर दे ? जाखों नहीं, करांडों जो हौस से भर रहे हैं, कि एक नहीं सौ बार दुश्मनों को मार गिरायेंगे—कुछ है जो इस आन को उनके भीतर जगाए और ढहकाए रहता है !

स्वतन्त्रता ! क्या एक तानाशाह के हाथों उसे बेचा जा सकता है ? वह तन्त्र नहीं है, बाढ़ा है, जहाँ आदमी एक गिनती है। वहाँ उसका समय अपना नहीं है—उसका कुछ अपना नहीं है। बल वह अंक है और सत्ता की कृपा पर जीवा और उसके हशारे पर करना उसका काम है। कम्यूनिस्ट तन्त्र इसके सिवाय और क्या है ? वहाँ भावना तुम्हारी नहीं है, बाणों तुम्हारी नहीं है, तुम तुम्हारे नहीं हो। सब-कुछ तुम्हारा सम्बद्धक है, इसलिए कि तुम काम करो और रोटी-कपड़ा पाओ। अपने लिये नहीं, अपने अम के हक्क से नहीं, ऊपर बैठे शासनाधीश के लिये और उसके कृपाकांची बनकर। ए आजाद हृन्सान ! क्या तू गुलामी चाहता है ? क्या तू उसे बदूरित कर सकता है ? पालतू जानवर तक उसे नहीं सह सकते। इससे उठ कि कहीं कम्यूनिज्म तेरे गले में गढ़ा छाल कर अपने खूँटे से बाँध न डालो ।

आदिकाल से जो तेरे पास थेष्ट है, क्या वह मानवात्मा की मुक्ति का सन्देश नहीं है ? जड़ के अधीन चेतन कब हुआ है ? डुकड़े पर हृन्सान नहीं जीता, हक पर जीता है। वह सत्य के लिए सत्य की शोध में जीता है। आदमी है कि वह राज्य बनावेगा और अपनी जगह पर अधिनायक से बड़ा होगा। जनतन्त्र जन-मन का तन्त्र है। द्यक्ति स्वाधीन चेता स्टालिन, दूसरे तो सचमुच सदा जीने वाले नहीं हैं। जन-तन्त्र और साम्य-तन्त्र मानव-जाति की यात्रा में प्रयोग भर हैं। एक तन्त्र दूसरे को तोड़ सकता है लेकिन अपनी बारी पर फिर स्वयं उसे ढूटना ही है। तन्त्र के बल मात्र प्रथंग के फल हैं। उनमें सत्यता नहीं है। सच को धेरने का दावा करके अपने झूठ की ही वे धोखणा करते हैं। निश्चय ही सामने वाले को मार गिराने की सप्तर्द्धा जतलाती है कि

आदमी ने नशा किया है। नशा टिकनेवाली चीज़ नहीं है। उसे एक दिन गिरना है और तब पता चलेगा कि बड़ी-बड़ी करातांते और थड़े-थड़े चमत्कार आतिशबाजी की तरह आकाश में रंगनियाँ खिलाकर अपनी मौत बुझ गए हैं और नर-नारी आपस में भिजकर धरती में से अब भी धान उगा रहे हैं और मन से गीत गा रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि राजनीति, जिसके पास व्यवहार-बुद्धि का टेका है, कहीं से कैसे कुछ सीख लेने को मजबूर की जा सकती है। लेकिन अगर भगवान् भी है—और यदि हम सब अपने समय से मरते जाते हैं तो कुछ तो है जिसमें होकर काल समाप्त नहीं हो जाता, जीवा ही जाता है—तो शायद कहीं से कुछ लेने के लिए मनुष्य के पास लदा ही सुविधा है। और वहाँ से इस श्रद्धा की माँग की जा सकती है कि मृत्यु जब आनायास और अकुंठित भाव से सबको अपने-अपने समय से मिलती ही जाती है तब अपनी ओर से हम उस मृत्यु का किसी को दान करना अनधिकार चेष्टा मानें। मरना-जीना तो लगा ही है, पर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ भी और नहीं करते हैं, सिर्फ मानवता की रक्षा की हठ में दानवता पर ही आ उतरते हैं। ऐसे स्वतन्त्रता और समता की उल्लङ्घन सुलभता है, सुखी का सुख बढ़ता, या दुखी का दुःख घटता है, यह मानना रेत में से प्यास छुआने के समान है।

यहाँ अहिंसा को शायद हवाई शब्द समझा जाय और आदमी को ठोस शरीर। फिर उस ठोस आदमी का व्यवहार अहिंसा पर भवा क्यों हवा किया जाने लगा? लेकिन शायद है कि तर्क की वराजू को पता चले कि यद्यपि आदमी का शब डीक-टीक उतना ही तुखाता है जितना आदमी। फिर भी आदमीयता वहाँ से नदारत हो जुकी होती है। ठोस-पन सब यहीं-का-यहीं छूट गया है, फिर वह बया चीज़ थी, जो इसी बजाय की नहीं थी, लेकिन इन्सान की हृन्सानियत सब उसी में थी? शायद है कि पता चले कि आदमी नहीं है वह सब कि जो ठोस है, अलिक वह सिर्फ वह है जो इसी तोला-कॉट पर नहीं आता है। वह

आत्मा है जब कि शरीर वह नहीं है। यह पता चलने के साथ शायद अहिंसा उतनी दूर की और बेकार की चीज भी रह जायगी। तब वह तत्काल की और व्यवहार की चीज जान पड़ेगी।

लेकिन तब तक ?

भारत की एकता

भारत से यथर्पि पाकिस्तान के नाम पर पूरब और पश्चिम से कुछ हिस्सा कट कर अलग हो गया है, लेकिन वाकी सब एक विधान के नीचे जुट कर हकड़ा भी हो गया है। छोटी-मोटी रियासतें विलीन हो गई हैं और अब भारत बिल्लरा हुआ नहीं है। एक विधान, एक अधिकार, एक कैबिनेट, एक कानून। राजभाषा भी एक। वही धीरे-धीरे, आशा है, राष्ट्र की भाषा भी हो जायगी। भारत अब सुट्टीबन्द है और बाहर के हर ग्रहार को व्यर्थ कर सकता है।

पहने में आया है कि यह अभूतपूर्व घटना है। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत अब तक एक नाम रहा है। वह आज की तरह सूर्त और प्रत्यक्ष कभी नहीं हुआ।

इस सबके लिए हम राष्ट्र-पिता कहकर महात्मा गांधी को याद करते हैं। उन्होंने हम को राष्ट्र दिया उसकी आजादी और एकता ही, स्वर्य राष्ट्रीयता ही दी। सरकार, जो भारतीय एकता की प्रहरी और प्रतीक है, गांधी के नाम की ताकत से भृकृत करती है।

लेकिन अपनी सरकार बनी तब गांधी तो थे। क्या वह इस राज-कामी एकता से सन्तुष्ट थे? फिर राजधानी दिल्ली के जश्न में वह क्यों शामिल न हुए? क्यों भागकर उस पिछड़े और बिछड़े भाग में पहुँचे जहाँ आदमी आदमी का दुश्मन बन गया था? वहाँ नंगे पाँव घूमकर

धर-धर उन्होंने अलख जगाई कि आदमी चेते, हुई से छूटे और एके में रहे। उन्होंने भुम दी, 'ईश्वर-अल्ला' एकहि नाम, सबको सन्मति दे भगवान्'। वही है और वह एक है। ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, या कुछ भी कहो, हम-सब एक उसमें हैं। और, कौन तुझे गैर है; वहाँ सब तेरे हैं और तू सबका है।

लेकिन जो एकता हमने खड़ी की है वह और नमूने की है। वह निरी भावुक नहीं है, ठीक है। उसका वस्तावेज है, उसका तन्त्र है। कौन है, जो उसे सुरक्षित रखेगी, कानून है और उसका न्यायालय है जो भीतर से उसे बाँधे रखेगा। वह एकता सरकारी है।

चित्तव्य, बड़ी प्रसन्नता की बात है।

लेकिन कहीं सन्तोष की बात यह न मान ली जाय। कारण एकता सरकार में गहुँच कर असल नहीं होती, मन में उत्तर कर ही वह सही होती है।

ब्रिटिश साम्राज्य भी यों पुक था और कितना अदिग लगता था। पर वह खरण्ड-खरण्ड हुआ और लुप्त हो गया। राज्य बने हैं, उठे हैं, और मिट गए हैं। साम्राज्यों के साथ यही लीका हुई है। कानून में से एकता नहीं बनती। अधिक-से-अधिक वह वहाँ प्रतिविवित हीं सकती है।

भारत समूचे इतिहास में शायद ही कभी पुक राज्य रहा हो। रहा भी होगा तो अत्यन्त अल्पकाल के लिए। नहीं तो यहाँ सदैव अनेक-नेक राजा और अनेकानेक राज्य रहते आये हैं। उनमें अनबन रही है और वे लड़ते-फगड़ते रहे हैं। राज्य हो और फूट न हो, यह बनता ही क्य है। बाहर से भी आकमण होते रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भारतीयता दृढ़ी नहीं है। वह अखण्ड, अजख, अविच्छिन्न रही है। जाने गूमण्डल पर कितनी संस्कृतियाँ उठीं और गिरीं। पर भारत के साथ पैसा हुआ नहीं दीखता है।

क्यों?

इस 'क्यों' का उत्तर पाना आवश्यक है। आज के दिन और भी आवश्यक है। कारण, गांधी आज नहीं हैं। गांधी जो भारत की सनातन चेतना का प्रतीक थे, जो भारत की आत्मा थे।

इस 'क्यों' के उत्तर में क्या हम यह नहीं पाते कि भारत की दृष्टि राज्य से अन्यत्र रही है; और उसके लिए महत्व भी कहीं बूँसरी जगह रहा है। भारत का नेता आज के दिन भी गांधी हुआ, जो किसी तरह बड़ा न था और हर तरह साधारण था। शाजा न था, फ़कीर था। यदि शा तो आत्मा की ओर से महान् था, अन्यथा हीनातिहीन से समान था इसी में क्या भारत की ओर का उत्तर समाया नहीं है?

अर्थात् राज्य में और राजाओं (शासकों) के पास वह नहीं है जो जीवन में सारभूत है। वहाँ सत्य नहीं है, वहाँ ऐक्य नहीं है। वहाँ लालसा है, स्पर्शी है। दल एक हो कि अनेक हों, विधान संघीय (Federal) हो या एकात्मक (Unitary) हो; तन्त्र इस प्रकार का हो या उस प्रकार का हो—इससे हुच्छ आता-जाता नहीं है। जनता महासागर है, उसकी छाती पर उठने वाली लहरों के साथ खेल खेलना राजनीति है। जन-मन की जितनी शलक वहाँ है—अस उतनी ही राजनीति में वास्तविकता है, ऐष व्यर्थता है। जन-मन सरकारी कानून से नहीं घलते ईश्वरीय कानून से चलते हैं। इसलिए भारत और भविष्य जन-मन के हाथ हैं। और वह उनके हाथ हैं जो ईश्वरीय कानून के साथ अधिक-संघिक तत्त्वम हो कर चलते हैं।

राजा अपनी प्रभुता में अनेक रहे हैं, और जीवन-भर राज्य-विस्तार या राज्यापहरण के लिये पराक्रम करते रहे हैं। फिर भी भारत ने राम को और कृष्ण को याद रखा है, जिनपर राजत्व दिक्ता हुआ दीखता लक नहीं है। हुच्छ, महाबीर को याद रखा, जिन्होंने राज्य का परिहार किया। शंकर-चैतन्य को और नानक-गांधी को मान दिया कि जो निरीह बन गए। भारत की आत्मा ने इनको पहिचाना और राजाओं के ऊपर हीकर वहाँ से वहाँ तक का भारत इनके प्रभाव के नीचे पनपा।

भारत की कल्पना भाजाओं और राजनेताओं पर नहीं अटकी। उनके पार आत्मचेताओं पर वह ध्रुव बाँध कर जमी रही। परिणाम यह हुआ कि समूचा भारत एक आदर्श, एक अभिलाषा, एक संस्कृति में अनुस्थूत रहा। ऐसे ज्ञानिकाय महाप्राण पुरुषों की स्मृति में जहाँ-तहाँ तीर्थ जने और साधुओं एवं धात्रियों की टोलियों ने तीर्थकरों के जीवन-मनन और सीर्यों के पर्यटन से समूचे देश में एक ऐक्य को जीवन्त रखा। लडाईयाँ होती रहीं; लेकिन जनता अपने कर्म-श्रम में अविचल रही। भारत के ये अधिष्ठाता पुण्य-पुरुष जन-मन की भावना-कल्पना से एक ज्ञान के लिए भी ओमला नहीं हुए।

भारत की एकता यदि आत्मवान पुरुषों में प्रत्यक्ष नहीं होती है, वहिंक राज्यविधान और राजदण्ड में ही वह प्रत्यक्ष होती है, तो कहना होगा कि वह अपेक्षाकृत जुटाई गई है, प्राणों में उपस्थित नहीं है।

भारत एक था, है, और रह सकेगा तो आत्मा द्वारा। अन्यथा उसकी एकता अनेकता को जन्म देने लग जायगी और यह पराधीनता को निमन्त्रण देना होगा।

आवश्यक है कि उस तरफ हमारा ध्यान जाय। भारत में कई भाषाएँ हैं और लगभग सब के पास समृद्ध साहित्य है। उसमें देश की आत्मा ध्वनित होती है। भाषा-भेद की वजह से साहित्य भी प्रान्तों में बैंटकर और बन्द होकर रह जाय तो यह आत्मघात के समान होगा। श्रीग्रेजी के भीच में आने से यही हुआ है। मौलिक साहित्य, जो यहाँ की धरती से सिंच कर वना है, प्रान्तों में सिमट कर रह गया है और श्रीग्रेजी के जरिये चलने वाली राजनीति सब के निकट आत्मीय बन आई है। आज भारतीय कुछ है तो सिर्फ राजनीति है। मानो इधर सब कुछ केवल ग्रान्तीय और एकदेशीय है। इस स्थिति में भारत की निजता उभरनेवाली नहीं है, दबी ही रहने वाली है। श्रीग्रेजों के जाने का मतलब श्रीग्रेजियत का जाना ही यदि नहीं है तो गांधी का हमारे भीच आना व्यर्थ मानना चाहिए।

आज हिन्दू राजभाषा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अर्थात् कानून की और आपसी व्यापार की नहीं, अधिक जीवन की अर्थात् आपसी स्नेह की भाषा उसे बनना होगा। आदान-प्रदान की वह धरती उसे बनना होगा जो हमारी एकता को धारण करे। भीतर से एक होता हुआ भारत ही दुनिया में अपनी जगह रख सकेगा और विश्व की भवितव्यता में अपना पूरा दान दे सकेगा।

वैसा प्रयत्न आज तो लगभग नहीं है। पर अधिक काल उसको टालना खतरे की बात होगी। राजनीतिक एकता हमको छल जायगी, अगर भीतर उसके सांस्कृतिक सत्त्व न होगा। वह छातनी की, 'टोटे-लिटेरियन डिक्टेटरी' की एकता होगी।

नाश, और नाश

जो घटनाओं के प्रति अनजान और तत्त्व की जानकारी में ही साध-धान हुए रहते हैं, ऐसे ज्ञानी-विज्ञानियों ने युग-युग की खोज से चिकादा 'अग्नु', और उल्के अन्तर्रम्भ की खोज से अब निकादी 'अग्नु-शक्ति'।

ये विज्ञानी लोगों 'अग्नु' की कल्पना को आँखों के आगे लेकर बाही दुनिया की तरफ आँखें बढ़ किये रहे। इसी तरह वे जीते गये, काम किये गए और सर गए। मेरे हुओं का काम फिर जिन्होंने उठाया। वे मरते बक्त उसे ज़हाँ छोड़ गए; पीछे आने वालों वे उस सिरे को फिर हाथ में थाम लिया। ऐसे जिन्होंने एक-दूसरे और एक-दूसरे के काम को जाना। आसपास हीरी हुई घटनाओं को जानने का अवसर उन्होंने नहीं लिया।

काल को चीरकर उन्होंने युग को युग से भिन्नाया। वे वर्तमान के चला में ऐसे रहे जैसे शाश्वत में हों। काल के साथ तत्सम हीकर देश के लिए वे अगम हो गए।

देश के विस्तार पर प्रभुता है राजनीति की। राजनेता और राजनिर्माता खबर की खबर रखते हैं, तत्त्व यी खोज वे नहीं लेते। वे घटनाएँ बनाते हैं और उन पर रहते हैं। उन पर उवराते और उन्हीं में हृदयते भी हैं। आँखों के आगे होकर यह जो फैलाव फैला है, जो लहराता और बदलता रहता है, उसमें उनकी चेतना है, इससे उसी पर उनका

द्वाय हैं।

लेकिन एक से काम कब चला है? देश को काल का सहारा चाहिए ही। काल की उपर्योगिता देश पर है। देश की उन्नति काल में है। इस नरह उन अन्वे विज्ञानियों के विज्ञान की तरफ नहीं, पर उनके परिणाम की तरफ खुली आँख के राजनीतिज्ञों का ध्यान गया। अणु-शक्ति? यदि वह शक्ति हो तो वह अवधि उन्हें चाहिए। शक्ति के रूप में 'अणु' प्रकट होगा तो विज्ञानियों का नहीं, राजनीतिज्ञों का उस पर कब्जा होगा। शक्ति पर उन्हीं के धन्धे का अधिकार है।

इस तरह 'अणुशक्ति', जिसको पाने और बनाने में वैज्ञानिकों की पाँत-की-पाँत ने अपने को उठाया और मिटाया, बनकर उदय में आ गई कि उसी दम राजनीतिक अधिकार और कूटनीति की वस्तु हो रही।

कान्क्षे न्यू बैठी है, जो दुनिया पर दुनिया का भविष्य उतारने के काम के लिए है। उसमें तहे हैं, जिनके भीतर और तहे हैं। 'अणु की शक्ति' उन तहों के अन्दर की तहों के भी अन्दर है। वह उस महाशक्ति के पास है, जो 'अणु-शक्ति' की महत्ता को इतना जानती है कि महत्ता में किसी दूसरे नम्बर की शक्ति के साथ उसे बाँटने की चूक वह नहीं कर सकती। देखिए न, कैसा गजब उससे हो जा सकता है! खुली तो धर्वंस के काम में ही न वह आने लगेगी! लेकिन क्यों उसे निर्माण के ही काम में होगा। इसलिए उसे बन्द ही रखना मुनासिब है। जापान की बात दूसरी थी। वह 'सभ्य-युग' की सभ्य दुनिया पर एक पीला दाग था। उसे तो साफ करना ही था। लेकिन अब उस शक्ति को खोला नहीं जा सकता। खोज तो उसकी जारी रहनी चाहिए और जारी रहेगी। प्रयोग हो रहे हैं और सारी दुनिया यह कान खोलकर सुन ले, कि प्रयोग रुकने वाले नहीं हैं। यस भी बन रहे हैं। लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, शुद्ध विज्ञान के लिए।

इस तरह अनन्त-काल में खुलकर रहने वाला विज्ञानी देश पर अंकुश रखकर खुद निरंकुश विचरण करने वाली राजकीय सत्ता के

सुरक्षित नियन्त्रण में आपना काम किये जाने में लीन और लाचार हैं। लीन मन से है, लाचार कानून से है।

अभी सुनने को मिला है, 'अग्नि-बम' का प्रयोग होगा। कुछ जहाज इकट्ठे होंगे और वहाँ बम लूटेगा। देखा जायगा कि उसकी शक्ति कितनी है। बड़ी है, तो कितनी अधिक बड़ सकती है। पर जाने क्या-क्या और देखा जायगा।

जहाजों में आदमियों की मेहनत लगती है, और पैसा लगता है। लेकिन तोड़ने की यह शक्ति देखनी हो, तो बनी तुझे चीज को ही तोड़ना होगा। कहते हैं, तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। लेकिन बनाना अब मुश्किल नहीं रह गया है। इसी से तोड़ने की ताकृत देखी जा रही है कि कितनी काफी बड़ सकी है। सिद्धान्त यह है कि ताकृत चाहिए। होने पर, मौके से बहु बनाने में भी लग सकेगी। लेकिन पहले तो ताकृत सुन ताकृत के मुकाबले को चाहिए। डस्कं बाद दूसरी बार्ते देखी जायेंगी।

यह 'इकनामी' पुरानी है कि बस्तु बचाने के लिए है। मशीन के मैदान में आने से इकनामी नहीं हो गई है। बस्तु इतनी पैदा होती है कि अगर वह खपती यानी मिट्टी न रहे तो सारा चक्कर ही रुक जाय। एक मशीन सौ का काम करती है, तो उन सौओं को काम में रखने के लिए यह भी जरूरी है कि खपत सौ-गुनी बढ़ाई जाय। इसी नई इकनामी में से बनी बस्तु की खपत, यानी नाश, की रफ्तार को तेज रखने का कर्तव्य प्राप्त होता है।

आज लड़ाई के बाद बेकारी है। बेकारी वह अजब तरह की है। अभी पढ़ने में आया कि लन्दन में दसियों हजार कर्मियाँ ऐसी बेकार हैं कि उन्हें पता नहीं सोचें कहाँ? बैध न्यूनता, बैध नि न. समाझ नहीं है। अबैध व्यभिचार की गणना तो काम में नहीं है। माता बनने का काम आज की हालत में निभ नहीं सकता है। लड़ाई में मर्द कम हुए हैं। लेकिन गारण्टी क्या कि उत्पादन की वृद्धि से मर्दों के साथ

औरतें भी नहीं थड़ेंगी ? खैर जो हो, उत्पादन में वृद्धि जरूरी होने पर भी अर्थ-तन्त्र उसके असुकूल नहीं हैं। अच्छा आधिक व्यर्थता है। इससे ये स का बाजार कितना गम्भीर है, विवाह का उतना ही लगड़ा है।

इस सब वेकारी आदि से जरूरी है कि माल का नाश धीमा न पड़े। यह भी कुछ जरूरी मालूम होता है कि जान का नाश भी जारी रहे। और उसकी गति भी खासी ठीक और ऐगुलेटेड रहे। मर्शिन तेज चलना जरूरी है तो दूसरी तरफ का धीमापन बरदाश्त नहीं किया जा सकता। परिस्थिति से ही वह आसम्भव है।

चुनाँचे खबर हैं, और मुनासिब खबर है, कि सिर्फ अहाज ही न उड़ाये जाएंगे बल्कि उनमें जानें भी होंगी जिनका उड़ना साध-ही-साथ आसानी से हो सकता है।

सुनते हैं कि वे जानें आम किस्म की नहीं, खास किस्म की होंगी। यानी वे जर्मनों और जापानियों की होंगी। मैं समझता हूँ कि राजनीति और भूगोल के वे शब्द—जर्मन और जापानी, जान के अन्दर भी कुछ सिफत पैदा कर देते हैं। जल्द उस सिफत की प्राण-तत्त्व के खोजियों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कि भगवान् ने सब को एक-सा पैदा किया है, विज्ञान का सच कभी नहीं हो सकता। विज्ञान है तो उससे यह साधित करना ही होगा कि जान जर्मन या जापानी होने से दूसरी तरह की जानों से काली या किसी दूसरी रंगत या सिफत की होती है।

इस बीच यह तसल्ली की बात है कि हमारा ध्यान जरूरी बातों की तरफ है और उत्पादन को तरज्जुकी देने वाले असूल खपत यानी नाश के काम की तरफ हम उदासीन नहीं हैं। वह कर्तव्य व्यवस्थापकों की ओर से भली-भाँति पूरा किया जा रहा है।

जड़-चेतन

आज के ज़माने में और दैनिक अखबार में जड़-चेतन की बात ! लेकिन पूँजी और अम का सवाल मुझे जड़-चेतन का ही सवाल लगता है। वह सवाल बहुत मौलिक है और बहुत व्यापक है। सब कहीं और सारा सवाल ही वह है।

जड़-चेतन की विभाजक रेखा का पता नहीं। दर्शन उसे नहीं जानता। विज्ञान उसे उड़ाये दे रहा है। फिर भी कुछ है, जो हमारे हिसाब के बश में आ रहता है; दूसरा कुछ है जो बश में आता ही नहीं। वह नई-नई समस्याएँ उपजाता जाता है। ऐसा जो मनमाना तत्त्व, वही चेतन।

कहते हैं जो सिर्फ सत् है वह जड़, जिसमें साथ चित् भी हो वह चेतन। सत् में चित् गमित रूप से है ही। जिसमें चित् जगा हुआ है उसे किसी तरह सुलाया जा सके तो चेतन भी जड़ हो जाय। चित् जगाया जा सके तो जड़ भी चेतन हो जाय।

अम और पूँजी की समस्या व्यवस्थापकों के लिए ही नहीं, विचारकों के लिए भी है। व्यवस्था, दुनिया की या देश की, हम समस्या के कारण कहीं सुरक्षित नहीं। अमेरिका अहाशुक्ल है। कौन उसके आगे ठहर सकता है ? लेकिन वह अपने अन्दर अमिकों को हड़ताल के ढर से धरधरता है। व्यवस्था दुनिया की आगर पक्की और

मजबूत नहीं है तो इस कारण कि मरीन ही काम नहीं करती आदमी भी काम करता है। आदमी मरीन नहीं है।

कुछ लोग सोच-सोचकर इस जगह पर आये हैं कि व्यवस्था तब सुन्दर और सम्पूर्ण होगी जब काम सब मरीन करे और आदमी को कुछ न करना पड़े। वे दुनिया को पूरी तरह हन्डिट्रियलाइज़ कर सकें तो कोई बजह नहीं कि स्वर्ग न आ जाय। खूब मरीनें चलें और खूब माल बने और दुनिया की एक सरकार हो, तो बताइये दुनिया के स्वर्ग बनने में क्यों कुछ बाकी रह जाना चाहिये।

स्वर्ग का हमारा संपना कुछ ऐसा ही है। वहाँ सब को सब-कुछ बाहने का हक है और चाहने के साथ ही उसे वह मिल जाता है। इस तरह वहाँ बसनेवाले देवता के लिए भोग ही भोग है, अम की आवश्यकता नहीं है।

स्वर्ग में भोग्य-सामग्री इतनी अतिशयता से कहाँ से कैसे आती है, इस बारे में लोगों को कुछ सन्देह है। इससे बुद्धिमान स्वर्ग का भरोसा नहीं बांधते पर किसिमा वह हमारे विज्ञान के हाथों आकर असंदिग्ध यथार्थ बन गया है और हम जानते हैं कि जूरत से ज्यादा पदार्थ की उपज करना मुश्किल नहीं है।

लेकिन मरीनें चल रही हैं और अतिशयता भी है। फिर भी देखते हैं कि कुछ पेट खाली हैं, कुछ तन उघड़े हैं। और खड़ाहर्या होती हैं जो आदमी की और पदार्थ की संगृहीत अतिशयता को इस तरह खा जाती हैं कि बाकी अब लोग पर्याप्त पदार्थ के लिए उसी तरह भटकते रह जाते हैं।

इस पर विचारवालों ने सोचा और कहा कि पदार्थ का वितरण अगर सम हो तो दिक्कत न रहे। उपज तो मरीन के जौर से जूरत से ऊपर हम कर ही सकते हैं। प्रबन्ध बस खपत का करना है। ऐसा करें कि बड़ी-बड़ी सरकारें मिलकर दुनिया की एक सरकार बना लें। वह सरकार दुनिया का हिसाब रखे और उस हिसाब से सरकारी कारखाने

माला मुहैया करें। इस तरह चारों तरफ इफरात हो और कहीं कमी न रहे, और आनन्द-ही-आनन्द हो जाय। आदमी भोगने वाला रहे, मरीन करने वाली रहे। बस फिर लंस्कृति और कला का उदय हो, और विज्ञान सत्य में गति करने जाने को मुक्त हो जाय।

पिछले खेते के दार्थनिकों और समाज और पदार्थ के विज्ञानियों के समन्वय की तरफ अपनी भहवाकांक्षाओं के चाबुक के जादू से राजनेता लोग दुनिया को बढ़ाये लिये चले आ रहे हैं। पानी कहाँ है? वह सामने है। अम और पुरुषार्थ से दुनिया का कठ सूख रहा है। लेकिन जाहलहाता पानी भी वह सामने दीखता है। कोई परवाह नहीं आगर पानी पाने के लिए आधी दुनिया आपस में लड़े और भर-खप जाय। जो भरते हैं सरने दो। मंजिल ही बीहड़ है। पर बचे-खुचे जो भी मंजिल पर पहुँचेंगे वे तृप्त हो जाएँगे। और अब वह दूर नहीं है। काफी हम चल आये हैं।

इस पदार्थ की अतिशयता को और फुरसत को और भोग को सामने रखकर बड़ी चलो आने वाली सभ्यता अशक चेष्टा से मोरचों पर भोरचे पार करती हुई लगता है कि अपने इष्ट के पास पहुँच रही है। लन्दन में दुनिया-भर की सरकारें जमा हो रही हैं कि नहै दुनिया अनायेंगे कि जहाँ सुख होगा और सबके लिये सब-कुछ होगा।

हम नहीं कह सकते कि यह सुगत्यणा है। यह कहना निर्दयता होगी। क्या कुछ नहीं भेला गया है उसके लिए। उसी की वहम किस सुँह से कहें? पर तृष्णा जो सूग को सताती है, वही सूग सृष्टिका को जनमाती है। तृष्णा रहेगी तब तक आगे मरीचिका भी रहेगी ही।

राजनीति नीति का इज नहीं चाहती। यह रो राज ही चाहती है। राज करने की और राज रखने की ही नीति को वह चाहती है। पर क्या वह नीति है, जो आँख राज पर रखे और जिन पर वह राज हो उन पर पाँव रखने की सोचे?

परिणाम यह कि दो पक्ष हैं। एक, वे जो करते हैं, दूसरे वे जो

करते हैं। करते हैं वे मालिक, करते हैं वे मज़दूर। एक हाकिम दूसरे महकूम। एक नेता, दूसरे जनता।

पर बात कुछ बदल भी रही है। लूस की सरकार बहुत ताकतवर है और वह 'प्रोलिटारियत' की डिटेलिटरियप है। विलायत में लेवर-सरकार है। पर सरकार चीज़ ही ऐसी है, उसका अंग बनकर आदमी करने वाला नहीं रहता, करने वाला ही जाता है। सरकार का काम है शासन और व्यवस्था। शासन व व्यवस्था अपने-आपमें काम बनता ही रहता है जब समाज के अवयवों में संघर्ष और विघ्नता हो। राज की जीति है भेद। 'डिवाइल एन्ड लूस।' इस तरह जो राज करता है वह फिर अम नहीं करता, अम की व्यवस्था करता है। अर्थात् चाहे वह पार्टी लेवर की हो चाहे प्रोलिटारियत का शासन हो—शासक अभिक नहीं रहता। अम करने और अम का ही धन रखने वाला औसत आदमी और उस अम की व्यवस्था और उसके फल का व्यापार करने वाला व्यवसायी या व्यवस्थापक—इन दोनों के हितों में अन्तर होता है।

इस तरह सरकार वह सर्वोत्तम होनी चाहिये। जहाँ उसे करने को कुछ रहे ही नहीं। जहाँ वह अपने-आपमें अनावश्यक हो जाय। आज तो सरकार का आदर्श कुछ टोटेलिटरियन होता जा रहा है। मुसोलिनी और हिटलर तो नये, पर क्या उनकी आत्मा भी गई? क्या सचमुच आज के राजकारण में उनकी आत्मा अनुपस्थित और मरी हुई दिख जाई देती है?

इन टोटेलिटरियन डिक्टेटरों की जीति भी आदमी को अंक बना देना। सब वही सोचें जो एक सोचे, वही करें जो एक चाहे। आदमी के साथ इस जादू का खेल करके उन्होंने सेनाएँ खड़ी कीं, ऐसी कि सबके छुटके छुट गये। आज का राजनीतिक भी क्या आदमी की निजता का कुशलता से अपहरण करके अपनी योजनाओं को निष्कंटक बनाने की नहीं सोच रहा है?

प्रारंभी मशील बन जाए और तब मशील है। मशील और मशी

है उसके मुनाफे के बारे में नहीं सोचती। मशीन और मालिक में कोई विभाग नहीं होता। पर आदमी अपना सुख-दुःख रखता है। यहीं उसकी हीनता है।

लेकिन हम जान रखें कि मशीन की दिशा में जो आदमी हीन है, अपनी विश्वा में वही इतना असोध है कि कोई सरकार और कोई व्यवस्था उसको बाद देकर, उसको कुचलाकर चैन से नहीं चल पायगी। व्यवस्था वही सफल होगी, जो मनुष्य के पास की मञ्जुष्ठता की निधि को पूरी तरह आविष्कृत करके उसका पूरा-पूरा उपयोग ले सकेगी।

अग्रणी ने हमें बताया कि उसकी असुन्ता के गर्भ में आसीम सम्भावनाएँ हैं। ऐसी ही हर व्यक्ति में अनन्त सम्भावनाएँ हैं। वह दो हाथों से शम करके एक हाथ-यावर का दस्ताँ हिस्सा काम दे सकने वाला ही प्राप्ति नहीं है। इससे वह बहुत भिन्न है और बहुत अधिक है।

इन सम्भावनाओं को जगाने और सम्पदा करने के लिए सोचने वालों को गहरा जाना होय। उन्हें तथ करना होगा कि जड़ से चेतन को दबाएँ रखना है या कि उस चेतन को प्रबुद्ध और मुक्त करने में आसली हित है।

आमरीका ने ज्ञान दिया और घिटेन दब गया। यह पूँजी की शक्ति उभारती है और दबाती भी है। वह 'कराने' वालों के हाथ में है जिससे वे करने वालों को दोक सकते हैं या खोल सकते हैं। लेकिन यह पूँजी क्या शम में ही से बनी है? इस तरह शम ही मूल पूँजी है। इस चेतन्य की आध्य-अद्या को जो नीति जितना जगाएगी वह उठावी ही अन्त में आदमी को और सुलकों को आजादी की तरफ उठायगी। आज तो अन्तर्राष्ट्रीय राजकरण की आँख व्यक्ति की सम्भावनाओं पर नहीं है और संगठित सत्ता के पीछे है। लेकिन अग्रणी ने अपने अन्तरण को फोहकर बतला दिया है कि विस तरह स्थूल परिमाण तो नगद्य ही है। ऐसे ही किसी रोज राजनैतिक विचार की

पहिचानना होगा कि किस रख तभाइ संगठित सत्ता से यक्ष या अनेक व्यक्ति के मर्म में जलती हुई आकर्षा या थेहना प्रबलयर शक्ति हो सकती है। सूचम है, हसी से वह प्रबल है, लेकिन हसी से चिचारा हिसाब उसे आसानी से छोड़ जाया करता है।

आणु-शक्ति

जो घटनाओं के प्रति अनजान और सत्त्व की जानकारी में ही सावधान हुए रहते हैं ऐसे ज्ञानी-विज्ञानियों ने युग-युग की खोज से निकाला 'आणु', और उसके अन्तर्मंग की खोज से अब निकाली 'आणुशक्ति'।

ये विज्ञानी लोग 'आणु' की कल्पना को अौँखों के आगे लेकर बाकी दुनिया की तरफ अौँखें बन्द किये रहे। इसी तरह वे जीते गये, काम किये गए, और मर गए। मरे हुओं का काम फिर ज़िन्दों ने उठाया। वे मरते वक्त उसे जहाँ छोड़ गये, पीछे आने वालों ने उस सिरे को फिर हाथ में थाम लिया। ऐसे उन्होंने एक-दूसरे को और एक-दूसरे के काम को जाना। आसपास होती हुई घटनाओं को जानने का अवसर उन्होंने नहीं लिया।

काल को चीरकर उन्होंने युग को युग से भिजाया। वे वर्तमान के नाश में ऐसे रहे जैसे शाश्वत में हों। काल के साथ सत्सम होकर देश के तिष्ण वे अगम हो गए।

देश के विस्तार पर प्रभुता है राजनीति की। राज-नेता और राजनिर्माता खबर-की-खबर रखते हैं, तत्त्व की खोज वे नहीं लेते। वे घटनाएँ बाते हैं और उन पर रहते हैं। उन पर उत्तराते और उन्हीं में डूबते भी हैं। अौँखों के आगे होकर यह जो फैलाव फैला है, जो जहराता और बदलता रहता है, उसमें उनकी जेतना है, हससे उसी पर

उनका द्याव है।

लेकिन एक से काम कब चला है? देश को काल का सहारा चाहिए ही। काल की उपयोगिता देश पर है। देश की उन्नति काल में है। इस तरह उन अन्धे वैज्ञानिकों के विज्ञान की तरफ नहीं, पर उनके परिणाम की तरफ खुली आँख के राजनीतिकों का ध्यान गया। अणुशक्ति? यदि वह शक्ति हो तो वह आवश्य उन्हें चाहिए। शक्ति के रूप में 'अणु' प्रकट होगा तो विज्ञानियों का नहीं, राजनीतिज्ञों का उस पर कब्जा होगा। शक्ति पर उन्हें के धन्धे का अधिकार है।

इस तरह 'अणुशक्ति', जिसको पाने और बनाने में विज्ञानियों की पाँत-की-पाँत ने अपने को छाड़ाया और मिटाया, बनकर उदय में आ गई कि उसी दम राजनीतिक अधिकार और कूटनीति की वस्तु हो रही।

कान्फ्रेन्स बैठी है, जो दुनिया पर दुनिया का भविष्य उतारने के काम के लिए है। उसमें तहें हैं, जिनके भीतर और तहें हैं। 'अणु की शक्ति' उन तहों के अन्दर की तहों के भी अन्दर है। वह उस महाशक्ति के पास है, जो 'अणु-शक्ति' की महत्ता को दूतना जानती है कि महत्ता में किसी दूसरे नम्बर की शक्ति के साथ उसे बाँटने की चूक वह नहीं कर सकती। देखिए न, कैसा गज्जब उससे हो जा सकता है! खुली तो धंस के काम में ही न वह आने लगेगी। लेकिन लेना उसे निर्माण के ही काम में होगा। इसलिए उसे बन्द ही रखना भुनासिव है। जापान की बात दूसरी थी। वह 'सभ्य-युग' की सभ्य दुनिया पर एक पीढ़ा दाग था। उसे तो साफ़ करना ही था। लेकिन अब उस शक्ति को खोला नहीं जा सकता। खोज तो उसकी जारी रहनी चाहिए और जारी रहेगी। प्रयोग हो रहे हैं और सारी दुनिया यह कान खोलकर सुन ले कि प्रयोग रुकने वाले नहीं हैं। बम भी बन रहे हैं। लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, शुद्ध विज्ञान के लिए।

इस तरह अनन्त काल में खुलकर रहने वाला विज्ञानी देश पर अंकुश रखकर खुद निरंकुश विचरण करने वाली राजकीय सत्ता के सुर-

हित नियन्त्रण में शपना काम किये जाने में लीन और लाचार है। लीन मन से हैं, लाचार कानून से हैं।

अभी सुनने को मिला है, 'अखु-बम' का प्रयोग होगा। कुछ जहाज इकट्ठे होंगे और वहाँ बम लूटेगा। देखा जायगा कि उसकी शक्ति कितनी है। बढ़ी है तो कितनी अधिक बढ़ सकती है। पर जाने क्या-क्या और देखा जायगा।

जहाजों में आदमियों की मेहनत लगती है, और पैसा लगता है। लेकिन तोड़ने की यह शक्ति देखनी हो, तो बनी हुई चीज को ही तोड़ना होगा। कहते हैं, तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। लेकिन बनाना अब मुश्किल नहीं रह गया है। हसीले तोड़ने की ताकत देखी जा रही है कि कितनी काफी यह सकती है। सिद्धान्त यह है कि ताकत चाहिए। होने पर, मौके से वह बनाने में भी लग सकेगी। लेकिन पहले तो ताकत खुद ताकत के मुकाबले को चाहिए। उसके बाद दूसरी बाँत देखी जायेगी।

यह 'इकानभी' पुरानी है कि वस्तु बचाने के लिए है। मशीन के बैदान में आज से इकानभी नहीं हो गई है। वस्तु इतनी पैदा होती है कि अगर उसे वह खपती यानी मिटती न रहे तो सारा चक्कर ही रुक जाय। एक मशीन सौ का काम करती है, तो उन सौओं को काम में रखने के लिए अह भी जरूरी है कि खपत सौ गुनी बढ़ाई जाय। हसीनहीं इकानभी में से बनी वस्तु की खपत, यानी नाश, की रफ्तार को तेज़ रखने का कर्त्तव्य प्राप्त होता है।

आज लड़ाई के बाद बेकारी है। बेकारी वह अज्ञ तरस की है। अभी पढ़ने में आया कि लान्दन में दसियाँ हजार लड़कियाँ ऐसी बेकार हैं कि उन्हें पता नहीं सोयें कहाँ? वैध व्यभिचार के काम में भी समाई नहीं है। अवैध व्यभिचार की गणना तो काम में नहीं है। माता बनने का काम आज की हालत में निभ नहीं सकता है। लड़ाई में मर्द कम हुए हैं, और उत्पत्ति-संख्या बढ़नी जरूरी है। लेकिन गारन्टी क्या कि

उत्पादन की वृद्धि से मर्दों के साथ औरतें भी नहीं बढ़ेंगी ? खैर जो हो, उत्पादन में वृद्धि ज़रूरी होने पर भी अर्थ-तब्ब्ब उसके अनुकूल नहीं हैं। यहाँ आधिक व्यर्थता है। इससे प्रेम का बाज़ार कितना गर्भ है, विवाह का उतना ही ठंडा है।

इस सब वैकारी आदि से ज़रूरी है कि माल का नाश धीमा न पड़े। यह भी कुछ ज़रूरी मालम होता है कि जान का नाश भी जारी रहे और उसकी गति भी खासी ठीक और ऐगुलेटेड रहे। मशीन तेज़ चलना ज़रूरी है तो दूसरी तरफ का धीमापन बरकारत नहीं किया जा सकता। परिस्थिति से ही वह असम्भव है।

जुनांचे खबर है, और मुलासिम खबर है, कि सिर्फ जहाज ही न उड़ाए जायेंगे बल्कि उनमें जानें भी होंगी जिनका उड़ना साथ-ही-साथ आसानी से ही सकता है।

मुलते हैं कि वे जानें आम किस्म की नहीं, खास किस्म की होंगी। यानी वे जर्मनों और जापानियों की होंगी। मैं समझता हूँ कि राजनीति के और भूगोल के ये शब्द, जर्मन और जापानी, जान के अन्दर भी कुछ सिफूत पैदा कर देते हैं। जरूर उस सिफूत को प्राण-तत्त्व के खोजियों की पाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कि भगवान् ने सबको एक-सा पैदा किया है, विज्ञान का सच कभी नहीं हो सकता। विज्ञान है तो उससे वह सादिल करना ही होगा कि जान जर्मन या जापानी होने से दूसरी रंगत या सिफूत की होती है।

इस धीर यह तसरूली की बात है कि हमारा ध्यान ज़रूरी बातों की तरफ है और उत्पादन की तरफकी देने वाले उसुल खपत यानी नाश के काम की तरफ हम उदासीन जहरी हैं। वह कर्तव्य ध्यवस्थापकों की ओर से भली-भांति पूरा किया जा रहा है।

अपरिग्रही वैश्य गांधी जी

जैन अहिंसा को परम-धर्म मानते हैं। गांधी जी का भी एक धर्म अहिंसा है। अहिंसा ही उन्हें सत्य है। पर गांधी जब कि शक्ति के केन्द्र है, जैन-समाज आपने को ल्लोण अनुभव करता है।

यहाँ सिद्धान्त की बच्ची नहीं, आपने को परखने का ही सवाल है।

जैनागम की अहिंसा गांधी जी की अहिंसा से पूर्णतर है। इस बारे में जैन-विद्वानों ने इधर काफ़ी लिखा है। वह सब सही हो, तो भी सवाल रहता है कि अहिंसा को धर्म मानकर चलाने वाला जैन-धर्म क्यों निर्वल है? या तो अहिंसा में ही बड़ा नहीं, या वह निर्वलता की ढाल है। या फिर अहिंसा सबसुब शक्ति है तो जैनाचार की अहिंसा अहिंसा नहीं?

गांधी जी की अहिंसा ने एक राष्ट्र को प्राणदान किया है। जगत् के द्वितीय से उससे एक सब्द युग की शुरूआत हुई है। उस अहिंसा के कारण देखते-देखते यदोन्नत राज (सत्ता) नीति की बागडोर नीति-तत्त्वज्ञों के हाथ आई है। एक ऐसी समाज-स्थाना का आरम्भ हुआ है, जिसमें प्रधान वह नहीं है जो बाहर है और इकूल करता है; निकल जिसका केन्द्र वह है जो नीचे है और ऊपर करता है। उच्ची और बाहरी सत्ता का आरंक, जो प्राचीनपैकरता को दबाया था, वह नहीं की अहिंसा के उपचार से शून्यवन् न नहा है।

अहिंसा सुक्षि का धर्म है। यानी हमारे ही भीतर तरह-तरह के संकल्प-विकल्प और कर्म-कलाप की उत्तराखन के नीचे आत्मचैतन्य दबा पड़ा है, जामाकर उसको मुक्त कर देने वाला धर्म है। लेकिन हममें कितने उस अन्तःकरण की सुनते हैं या सुन पाते हैं? कितने अपनी सुक्षि में अहिंसा को काय लाते हैं?

गांधी जी के जीवन में एक बात देखियेगा। आत्मा की आवाज पर कुछ नहीं है जो उन्होंने छोड़ने से बचाया। जो अन्तःकरण ने कहा उससे जौ-अर वह नहीं डिगे। शेष सब को उन्होंने असत माना, उसके पीछे मान छोड़ा, सर्ग-सशब्दन्धी छोड़े। जो भी हुआ, सहा और फेला, पर अन्दर से सुनी पुकार को उन्होंने अनसुना नहीं किया। सारा जीवन उसका अनन्यनिष्ठा का उदाहरण है।

उस जीवन से यह भी जान पड़ता है कि अहिंसा कोई ऐकान्तिक सिद्धान्त नहीं है, वह जीवनव्यापी तरब है। जीवनके एक अंश को छोड़-कर शेष में अहिंसा की साधना नहीं की जा सकती। मसलन, अहिंसक को ब्रह्माचारी और आपरिग्रही भी होना होगा। संयम अहिंसा की जान है। परियह-संग्रह के साथ वाली अहिंसा सुक्षि में काम देने वाली नहीं है; समाज की, देश की सुक्षि तक में नहीं; आत्मा की सुक्षि की बात तो और भी आगे और सूक्ष्म है। हम प्रकार अहिंसा तत्त्व-चर्चा की और तर्क की बात न रहकर हर—कहीं और हर वक्त हमको चलाने वाली अमोघ नोति बल जाती है। उसके हाथ जीवन की बागड़ोंदे देनी होगी। हम उस पर सवार न हों, बल्कि स्वयं उसके हाथ हो रहे। यानी अहिंसा की व्याख्या हम न दें, अहिंसा की जिज्ञासा ही हमें रहे।

ऐसा होने पर प्रश्न शास्त्रीय और सूक्ष्म विलक्षण भी नहीं रह जाता, वह एकदम निजी और प्रस्तुत बन जाता है। उसका रूप होता है कि मैं कैसे असुक से वर्तन करूँ कि सुख से उसका द्वित हो। आम-तौर पर हम जिस बाजार-सिद्धान्त पर चलते हैं उसमें अपने नफे पर ही ध्यान रहता है। परहित की जगह अपने लाभ पर जहाँ निगाह रही

बहीं हिंसा आई। इस तराजू पर तोलें तो जीवन का कितना आवरण अहिंसामूलक निकलेगा?

जैन-समाज वैश्य-समाज है। वैश्य के प्रति इस वक्त लोगों का सद्भाव कम-से-कम है। बाजार में जो आनीति फैली है सब जानते हैं। मगर गांधी भी वैश्य हैं और सच यह है कि जो जीवन-नीति और जीवन-दर्शन उन्होंने दिया है उसमें वैश्य-छुशलता को बहुत बड़ा स्थान है। अब तक ज्ञान या बाह्यण-आदर्श का प्रचलन था। वह आदर्श अपर्याप्त साधित हुआ। इससे धृषि और सन्त मिले या सधार् और सेनानी, पर उन से काम नहीं चला। आधुनिक जगत् अधिक पैचीदा है। विज्ञान ने और उद्योग, उद्यम की महा विशाकाता ने समस्या को सरल नहीं रहने दिया है। चले आते हुए आदर्शों से अब वैश्यत्व का पुट दिये बिना नहीं चलेगा। अब तक वैश्य उपेक्षित था, परिचय के बन्नवाद ने उसे महत्ता दी, उसे सत्ता दी। यहाँ तक कि इससे व्यवसायी उपेक्षा की जगह ईर्ष्या और क्रोध का पात्र बन गया। बुराई का नाम इस वक्त मानो पूँजीवाद और लुरे का नाम पूँजीवादी हुआ जा रहा है। राजनीतिक जीवन-दर्शन ही खड़े हो चले हैं जिनकी स्थापना में एक ही आधार है और वह है पूँजी-सत्ता का विरोध और विश्लेषण।

व्यवसाय में सत्य का अंश तो है, मगर परिग्रहवाद आर्थिक पूँजी-वाद के साथ जुड़ने पर वह असत्य और अधर्म का साधन हो जाता है। उसी को यदि अपरिग्रह और अकिञ्चनवाद के साथ जोड़ दे सकें तो व्यवसायी ही आज सच्चा योगी हो जाय और व्यवसाय की महिमा अध्यात्म-योग से किसी तरह कम न रहे।

इतिहास के अध तक के मार्ग-प्रणेताओं से गांधी की यदि विशेषता है तो यही कि वह वैश्य है। हिंसात्र में खूब चौकस हैं और हर सौदे में अपना नफा किये बिना नहीं रहते। जीवन के और राजनीति के व्यापार में तभाम हुनिया में किसी का धन्वा ऐसा नहीं भरका है और न ही इतना फला-फूला है जितना गांधी का। और इतनी कम पूँजी से भी

किसी ने अपना काम नहीं चलाया।

इस तरह आपरियह शरीर से दिगम्बर हुए जिना नहीं सधेगा, ऐसी बात नहीं है। वह लोकोत्तर धर्म नहीं है।

व्यवसाय का आपरियह के साथ जोड़ ही सकता है। अगर अहिंसा को धर्म के नहीं वैदिक कर्म के भी, व्यक्ति के नहीं वैदिक समाज के भी संचालन का नीति-नियम बनना है तो वैश्य को आपरियही बनना होगा। उसमें वैश्वत्र बिगड़ेगा ही नहीं, वैदिक धर्मके और संभलेगा ही।

वह अहिंसा जो हमें इस पहलू से बेखबर रखती है, तात्त्विक हो सकती है, बास्तविक नहीं।

अहिंसा यदि परम-धर्म है तो वह भी सच है कि उस धर्म के आपलाप का अनिष्ट परिणाम आने ही चाहा है। क्योंकि असत्ता द्विसाव में अहिंसा की दलील नहीं दर्ज होती, अहिंसा के काम की ही गिनती होती है। जैन-समाज जिस गहन और सूचम और परिपूर्ण अहिंसा की मंडिरों में और शास्त्रों में मान देता है, इसके बजाय संगत विचार वही होगा कि परस्पर वर्तमान में वह किस प्रत्यक्ष अहिंसा को स्थान देता है।

क्रांति शुरू हो गई है। उसका बीज इस थार गहरा पड़ा है, फाँस, अमरीका और रूस देशों-जैसी क्रांति यह नहीं है। यह सार्वदेशिक है। यह मानवता की है। दिल्ली, लाल दर्रा, दिल्ली तो सिर्फ उसका माध्यम है। यह उसने बाली की। लाल दर्रा अन्तरित होने से इसका सम्बन्ध नहीं। प० जवाहरलाल नेहरू के मन्त्री होने से उसे खगाव नहीं। सत्ता पर उसे नहीं उसका; उसे तो जीवन की जड़ों को बदलना है। गांधी उस क्रांति के मन्त्रदाता भी हैं और शिल्पकार भी। खगता है कि उस क्रांति को बीच में छोड़कर उन्हें जगत् से उठना नहीं है।

राजनीति परियही-व्यवसाय को जीता नहीं ले लेगी। हो सकता है वह उसे जान-बूझकर जिन्दा रखे, या अपने साधन के तौर पर। पर शोषक व्यवसाय के दिन गये। जो यह नहीं देखता वह अम में है। मैं

और आप काल-गति को रोक नहीं सकते। उससे न निभकर अपने को भले तोड़ लें, उस दुर्निवाह गति को इति नहीं दे सकते। व्यवसाय श्रमिक के हित से श्रावण बहुत काल नहीं रहने चाला है। लोकहित से उसका सम्बन्ध है, उसे जोड़ना ही होगा। जो ऐसा नहीं कर सकेगा उसे राह में ढबना या भिटना होगा।

जैन-समाज का आदर्श गांधी में अपनी अनुकूलता देख सकता है। यह समय जैन-आदर्श के क्षिए अनुपम है। मैं नहीं जानता समाज के रूप में इस ऐतिहासिक अवसर का जैन लाभ क्यों नहीं? यदि को सके तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि पृथक जबर्दस्त शक्ति के बह सूत्रधार हो सकते हैं, जिसका जगत् के भविष्य के निर्माण पर गहरा ग्रभाव होगा।

मुनाफे की वृत्ति

इंग्लैण्ड की बोबर-सरकार के खिलाफ बोलते हुए श्री चर्चिल ने कहा कि 'मुनाफे को क्या अपराध समझा जायगा ? मुनाफे को ग़लत ठहराकर देश के उद्योग-धन्धों में जान नहीं डाली जा सकती !'

चर्चिल तो अनुदार हैं। पिछले दिनों के हैं और भुक्ताये हुए हैं। उनकी बात हम टाक दें। केकिन इंग्लैण्ड ने अभी अमरीका से जो भारी रकम उदार में पाई है उसके बारे में वहाँ के अधिकारी मन्त्री डा० डालटन का कहना है कि 'सबकी खातिर इंग्लैण्ड ने कड़ाई में जो सहा और फौंका उसके इनाम में यह कर्ज का भारी बोझ ही उसे मिला है। अजब यह हनाम है और हतिहास वाले हसका फ़ैसला देंगे। तीन महीने की गहरी बहस और सौदे की कसाकसी के बाद कहीं मामला तय पाया है। हमने पहले चाहा कि शिना सूद कर्ज की यह सहायता मिल जाय। पर बताया गया कि व्यवहार कहीं ऐसे होता है। यात कई-कई बार तो दूटने को हो आई। अब भी कई शर्तें हैं जो हमने आसानी से और मन से नहीं मान लीं। पर फिर भी आप इस पास कर दें। नहीं तो बताएँ, दूसरी राह क्या है ?'

डा० डालटन की बोली से साफ है कि महाजन को महाजन से पाला पढ़ा है और मुनाफे की वृत्ति दुनिया में मौजूद है।

राष्ट्र के भीतर सामाजिक धरेण्यों का जहाँ तक सवाल है, शायद

यह मान लिया गया है कि धीरे-धीरे करके बड़े-बड़े उद्योग उद्योगपतियों के पास से सरकार के हाथ आ जाने चाहिएँ। लगभग सब, जो आजाद हैं, उन देशों में हस्ती दिशा में योजनाएँ बढ़ रही हैं। आपनी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से निकली चुनाव-घोषणा में भी वह साफ़ किया गया है। सब देशों की अर्थ-नीति राज्य के और प्रजा के बीच में से उत्पन्नपति और पूँजीयति को घटा देने के पक्ष में है। इस तरह श्रम और पूँजी का विरोध और विग्रह उत्पादन में बाधक न हुआ करेगा। मानो सब कहीं वह स्वीकृत है कि शासन शासित के अनुसार होगा और राज्य प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगा।

इस स्वीकृति के नीचे हर सरकार की अर्थ-नीति अपने भीतर परस्पर सहयोग और समझाव बढ़ाते हुए शोधण की, यानी निजी मुनाफे की समझावना को घटाते-घटाते खत्म करने की ओर है।

लेकिन अर्थ-नीति से आगे राजनीति में स्वार्थ की बदाबदी को और एक-दूसरे से मुनाफा उठाने की भावना को मानो गलत नहीं समझा जाता है। एक राज्य के अन्तर्गत समाज के विविध अंग एक-दूसरे को सतायें और दबायें नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक जाति दूसरी को और एक देश दूसरे देश को ज़रूर पराधीन रख सकता है और उससे हर तरह का कायदा उठाने की सोच सकता है। तिस पर इसके लिए वह सभ्य और उच्चत भी समझा जा सकता है।

पूँजीवाद का आरम्भ स्वतन्त्र व्यवसाय से हुआ। वह व्यवसाय अब व्यक्ति के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा रहा है। न वह अब व्यक्तिगत निरोहों के लिए स्वतन्त्र रहता जा रहा है। राज्य और व्यवसाय, दो दो काम आय इतने पास-पास आते जा रहे हैं कि मानो वे दो एक ही ही जांचें। 'एक-दोमिश्वर' और 'पौलिटिक्स'—अर्थ-प्रकरण और राज्यकारण दो रहेंगे ही नहीं। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने से जैसे यहाँ की विभिन्न सरकार दब जाएं हुई उसी तरह आज की सरकारें, प्रतिस्पद्ध के चक्र में, व्यावसायिक स्वार्थ-संघ का रूप लिए

विना नहीं रह सकती ।

‘नेशनलाईज़ेशन’ अन्दरूनी समस्या के लिए अच्छा इलाज जान पड़ता हो, लेकिन पूँजीवाद के विष की समाप्ति वहीं नहीं हो जाती । हो सकता है कि इस तरह एक नये रोग ‘स्टेट कैपीटलिझ़म’ (राज्यकीय पूँजीवाद) को जन्म दिल रहा हो ।

मुझे कुछ ऐसा ही डर है। पिछली लाइंग में फौजें ही नहीं लड़ीं, दूसरी श्रेणियाँ भी आपने रूप में लड़ीं। नागरिक एकाएक उसमें लगे और काम आये। वह ‘टोटल वार’ थी। युद्ध अब ‘टोटल’ अर्थात् सर्वव्यापी तत्व हो गया है। एक युद्ध को पैदा करने और लड़ने में राष्ट्र को अब बरसों-बरस अपनी समूची शक्तियों का ‘असंद योग’ देना आवश्यक है।

इस तरह तक युद्ध है यह किसी के देश का काम नहीं है कि वह उससे अलग रहे। उसके योग्य रहने के लिए यह ज़रूरी है कि राष्ट्र को एक छावनी की तरह तैयार और तैनात रखा जाय। एक देश उस रास्ते पर हो तो दूसरे किसी के उससे बचने का मौका नहीं है। इसलिए जाने-आनन्द जाने हर देश की सरकार को ‘टोटल’ होने की तरफ बढ़ना पड़ रहा है।

ये अच्छे आसार नहीं हैं। जिसे लड़ने के लिए दून किया जाता हो उस सिपाही को आगे-पीछे लाइंग देनी ही होगी। उसी तरह जिस सुलक को धड़ाधड़ माला पैदा करके उसे बाहर भेजकर सुनाफा उठाने को तैयार किया जायगा, उसे भी उपनिवेश और मण्डी देनी ही पड़ेगी। जब तक एक से अधिक कौमें और उनकी सरकारें हैं, और उनमें आपस में व्यवसाय की ओर प्रभुता की दौड़ है, तब तक यह हो ही नहीं सकता कि दुनिया के एक भोजे भाग को उनके लिए सपत की मण्डी बनाये रखने की कोशिश न हो।

आप दुर्भाग तो यही है कि पिछली लाइंग की वजह से भोजा कोई नहीं रह गया है, न रंग का आतंक ही किसी पर बाकी है। तुम

रहने की आदत भी सिटती जा रही है। इस तरह मुनाफा उठाने की नीयत को जैसे सामाजिक श्रेणियों के बीच से खत्म करने की बात सोची जाती है, तो उसी तरह एक देश और दूसरे देश के बीच में भी उस नीयत को किसी तरह जाय़गा नहीं ठहराना होगा।

पर यह कैसे हो ? कैसे हो कि शक्ति के हाथ में ही न्याय न रहे ?

उपाय यही है कि मानवता का अन्तःकरण अधिकाधिक जागे और वह किसी सामाजिक या राजकीय हिंसा को स्वीकार करने से छूटकार कर दे। इसी तरह तमाम दुनिया की एक (अहिंसक) व्यवस्था होने का स्वप्न सब हीने के निकट आयगा।

पद्मार्थ और परमात्मा

इस विषय पर लिखने की गतती में न करता । पर जवाहरलाल जी अजब शब्द हैं । दोष उनका है ।

दुनिया को सामने रखकर वे लिखते हैं । सामने हिन्दुस्तान है तो भी उसके पार दुनिया उनकी निगाह में होती है । दुनिया का पिछला इतिहास और अगला इतिहास । वे मानो इस इतिहास की तरफ सुखातिब होकर सोचते हैं ।

हिन्दुस्तान के लिए वे ज़रूरी हैं । हिन्दुस्तान उनके नज़दीक है तो दुनिया के लिए । और दुनिया है—तो किसके लिए ? इतिहास के लिए ? तो फिर इतिहास किसके लिए ? भविष्य—लेकिन भविष्य क्या ?

खैर, वे दुनिया की तरफ कहने में अपनी लर्फ़ ही बात कहते हैं । और दुनिया के दिल की भाषा अँग्रेजी है । इससे अपने साथ बात करने में उन्हें अँग्रेजी में आसानी होती हो तो बेजा बात नहीं ।

ऐसे दुनिया को तो उनका सामना मिलता हो और हिन्दुस्तान उनके पीछे रह जाता हो तो असम्भव नहीं है । लेकिन हिन्दुस्तान के लिए मन्त्र की बात से आगे उनके सन की बात सुनते रहना भी ज़रूरी है ।

इस जेल में अपने ग्रति उन्होंने भारत का आविष्कार किया है ।

पुस्तक लिखी है The Discovery of India असल में तो वह आत्माविष्कार की कोशिश ही है।

हिन्दुस्तान तो हिन्दुस्तानी के जरिये से कुछ ले सकता है। असल जवाहरलाल को पूरी असलियत में पाना इससे उसके लिए मुश्किल है। अँग्रेजी पढ़े-खिले बोग अभी गिनती-भर है। वह दुर्भाग्य की बात है। जब तक अँग्रेजी के अज्ञान का हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य दूर हो, हमें जवाहरलालजी को सीधे नहीं किसी माध्यम से पाकर ही सन्तोष करना होगा।

माध्यम से अर्थ तो आता है, वाकी आगे नहीं आता। सिर्फ अर्थ तो अनर्थ है। पर अर्थ के आगे जो भाव है, चेतना है, आत्मा है—माध्यम के जृष्ण उसे कैसे पाया जाय? अनुवाद अधिकारण इससे ढाँचा हाते हैं।

वह जो हो, सदाचाल पदार्थ और परमात्मा का है। मेरे नहीं, मेरे सद्याचाल में वह जवाहरलाल जी का है। शब्द-भर मेरे हैं।

कहा कि मुस्तक 'आत्माविष्कार' है। आविष्कार में किन्तु आत्मा मिलती है कि पदार्थ? यह देवा मसला है।

पदार्थ है कि परमात्मा? है के अर्थ में परमात्मा तो है नहीं। पदार्थ अवश्य है। सेकिन उसका पदार्थत्व क्या? कहीं पदार्थत्व में ही तो परमात्मत्व नहीं है?

हम उस विज्ञान को चाहते हैं जो पदार्थ को चाहे। अध्यात्म जो आत्मा को चाहता है, पदार्थ से उड़ता है। जी नहीं, विज्ञान जो पदार्थ में जायगा वही हमें शायद आत्म को भी दे देगा।

मालूम होता है कि सद्वीति के टोलपट के जवाहरलाल यसीद्विपौ के उससे भी अधिक हैं। आबादे, नवनीत अनन्त जहाँ होगा। हैमलेट का भाव ईमलेट ही उठा सकता है।

पर सद्याचाल वह अध्यात्मियों या विज्ञानियों के लिए ही नहीं है; उनके लिए भी है जो इस दुरिया में दिलचस्पी चाहते हैं। जिनके पास

पैसा ज़रूरत से कम नहीं है, उनके पास ज्ञान और संशय और अशांति ज़रूर ज़रूरत से ज्यादा हुआ कहती है। ऐसे लोगों को विलचसियों की चलाश रहती है। उन्हें शौक चाहिए, जिससे उन शौकों का पूरा करने के निमित्त से तरह-तरह के लोगों को कमाने के तरह-तरह के धन्धे, और करने के लिए तरह-तरह के काम मिलते ही रहें।

आवश्यकता ये से आविष्कार होता है। वे नहीं जानते जो आवश्यकताओं का कम करना मानते हैं। वे ज़न्दगी को घटाते और प्रसाद को थकाते हैं। तन की और मन की आवश्यकताएँ बहँगी नहीं तो तन निरुद्यमी होगा और मन निष्पाण बनेगा। इससे फुरसत जो तन को ठहराती और मन को चलाती है, सम्भवता की खास चीज़ है। शैतान उसमें बसता है, तो भगवान् को बसने के लिए भी और जगह नहीं है।

इसलिए पदार्थ और परमात्मा के खाली मन के सवाल को, खाली समय रखने वालों के लिए प्रदर्शनी ये सामने लाना और नचाना-कुदाना कोई असुख व्यवहार नहीं है। यहे दिग्गजों ने यह किया है, और जवाहरलाल किसी से कम दिग्गजयी नहीं हैं।

फिर अखबार निकलते हैं, जिनके चिन्हापनों को छोड़कर बाकी कालम इसी तरह के काम के लिए है। राजनीति और राजनीतिकों के सवालों और बयानों की उछल-कूद वहाँ त्रोते रहना ज़रूरी है। और कभी-कभी उससे गहरी यात और विवाद की ढायाओं की उद्धक-फुदक भी वहाँ होते रहना बेजा नहीं है। जिससे लोगों की स्थल पर जीवे की बान पके नहीं और सूक्ष्म में उतरने का व्यायाम उन्हें सचेत रखे रहे।

कार्य जो स्थूल है, कारण उसके पीछे सूक्ष्म हो सकता है। यह के पेड़ का बढ़पन उसके छोटे बीज के छुटपन में बन्द हो सकता है।

रत्नी का यह महापिण्ड शून्य की शून्यता पर टिका रह सकता है। ऐसे सूक्ष्म और शून्य व्यर्थ न होकर कौन जाने ज्यादा सार्थक हों।

पर कोई जाने कि न जाने, हम जानते हैं और सब जानते हैं कि पहना, औड़ा, बिछाया, खाया, पिया, बरता आदि जो जाता है वह

पदार्थ है। पदार्थ हमें चाहिए और इतनी जल्दी तौर पर चाहिए कि उसके लिए स्वशाज देने में एक मिनट की देर करते हुए हँगलैण्ड को हम ज्ञान नहीं कर सकते। जिसके पास अभाव है उसे भरने के लिए पदार्थ चाहिए। अतिशयता है उसे प्रसुता के भोग के लिए पदार्थ चाहिए। कहाँ है वह (जगह या आदमी) जहाँ हाय-हाय नहीं मची है? हाय-हाय पदार्थ की, और... और पदार्थ की।

लेकिन परमात्मा?

वह नहीं है।

तो ये सब किताबें, और विद्या और विद्वान् और तीर्थ और मन्दिर और आँसू और प्रार्थना और पूजा सब क्यों और किसके लिए हैं?

छोड़िए, छोड़िए। सब है और सब-रुच है। लेकिन हमें गम्भीरता नहीं, स्वाद चाहिए। हम खोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि खाये-पिये हुए हैं। इसलिए खुशक एक-दम नहीं चाहिए। सिर्फ चटनी का चटरवारा चाहिए।

जी, अच्छा, हम और हमारा सब आसमान और धरती के बीच हरा है। आसमान साफ़ और कोरा है। धरती हरी और मैली है।

इस धरती में टेढ़ी-मेढ़ी जड़ें डालकर आसमान को देखने की कोशिश में तरह-तरह की हरियालियाँ यहाँ दीखती हैं। उनमें एक हरियाली आदमी है। उन हरियालियों के शीर्ष पर फूल खिलते हैं और फल लगते हैं। उनके सिरों पर नाज के भूमर भूल आते हैं और बाली-पत्ते भी लाटकते हैं। आसमान की तरफ उठकर आते हुए आदमी के शीर्ष पर कविता के छन्द लगते हैं, और कल्पनाओं के सपने लहर आया करते हैं।

कहाँ है आसमान? और क्या है वह? सबहुच पड़ा नहीं है। धरती में गुरुत्व का आकर्षण है। और सबको गर आवने में ही सीधती है। फल लगता है तो दूटकर धरती पर आ रहता है। गूँज दिखता है तो मुरझाकर धरती पर सो रहता है। आदमी मरता है तो राख में

आ मिलता है। सपने उड़ते हैं तो कागज या पत्थर या मिट्ठी पर बिछु रहते हैं। धरती की खींच अमोघ है और उसमें ही सबको जा रहना है।

फिर भी धरती के भीतर से उठकर ऊपर की ओर जाने वाली हरियाली क्या है? और क्यों है? गुहत्वाकर्पण से ठीक उल्टी दिशा में उबरने की अनिवार्यता क्यों है?

धरती और आसमान नहीं मिलते। हितिज सात्र अम है। धरती जो सत् और आसमान जो केवल अज्ञान और असत् है—दोनों में मेल कैसा? दोनों के बीच असम्भवता की खाई है।

शायद खाई वह है। पर जड़ जिसकी धरती में होकर, हृदय जिसका सूरज की तरफ चुला है उस फूल में क्या धरती और आसमान दोनों का रस नहीं? उस रस में क्या दोनों का पेवय नहीं है? और वह आदमी जिसका दैर धरती पर चलता और सिर आसमान में उठता है, क्या दोनों की वर्तमानता, दोनों की सिद्धि और दोनों का समन्वय नहीं?

लेकिन क्या वह पदार्थ है? क्या फिर वह परमात्मा है? किन्तु पाँव सिरको कैसे जानें? और सिर पाँव को क्या बतायें?

दर्शन और उपलब्धि

बहुत पहले की बात है। राघवपिण्डी जाकर पता चला कि साथियों का विचार वहाँ से पैदल काश्मीर जाने का है। मेरे लिए यह नहीं बात थी, लेकिन आरों से पिछड़कर और हारकर अकेले पड़ जाने की इच्छा न हुई। आखिर तय हुआ कि काश्मीर की राह पकड़ने से पहले चलो खात-थाठ मील दूर के एक गाँव चलकर पढ़ाय ढालें। वहाँ पाँच-सात रोज रह दूरेंगे। फिर जैसा होगा आगे के लिए सोच लेंगे।

गाँव हिमाचल के चरणों में बसा था। यहाँ से चाढ़ाई शुरू हो जाती थी। उत्तर की ओर देखो तो एक के बाद एक पर्वत की पाँत के अतिरिक्त कुछ दिखाई न देता था। आसपास पहाड़ियाँ यों छिटरी थीं कि तरतीब न थी। उनकी चोटियों पर बड़ी-बड़ी चट्ठानें आपस में आजव कोण बनाती हुई स्थिर थीं। ऐसी कि अब गिरों, अब गिरों; पर सम्भवतः शताब्दियों से बैस ही टिकी थीं। उनका भेद समझ न आता था। उनकी भाषा हमें प्राप्त न थी।

गाँव में एक सोल फूटता था जिसका पानी आगे जाकर नदी का रूप ले उठा था। आरम्भ में उसी पर एक कुंड बना था। नाम था, सीता-कुंड। सीताजी वहाँ आई होंगी कि नहीं, यह कौन जाने। पर अल्प में दो धोरे पुसा कोला हैं जो राम-सीता के नाम से पवित्र न हो। ये लालत भारत के हैं और कीर्ति ऐतिहासिक विद्वान् राम

और सीता की यात्रा के मार्ग को चप्पा-चप्पा तथ कहके बताने चले कि शेष स्थानों से उनका सम्पर्क नहीं है, तो यह जानकारी विशेष प्रभाव उत्पन्न न करेगी। यथार्थ राम के पाँव अमुक सीमा के मार्ग पर ही पड़े हों, किन्तु उनकी चरण-रज को भारत के कोने-कोने में फैलाने से कोई ऐक नहीं सकता। राम अब आत्मा है, और वह भारत के अग्न-अग्न में द्वापर है। सीता-कुण्ड होने के लिए स्वयं सीता माता को उम कुण्ड तक आने की आवश्यकता यत्किञ्चित् भी नहीं है। लोगों की श्रद्धा ही इसमें पर्याप्त है। इसी में से स्थान तीर्थ बन सकता है और सामान्य भी महिमायुक हो सकता है।

सबेरा हुआ कि हम लोग पास की एक पहाड़ी की ओटी पर जा पहुँचे। हवा वहाँ की सूखम होती और हमारी तबियत एकदम हरी हो जाती। मावन-व्यापार का भार कृष्ट रहता और हम सामने की विशाट् अपारता में सुधर हो रहते। पहाड़ों का अन्त न था और उनकी शोभा का पार न था। धूप उन पर खेल कर भाँति-भाँति के रंग उपजाती और छाया बादल के साथ आँख-मिचौनी रचकर विचित्र दरय उपस्थित करती।

सबेरे यही और शाम भी यही। और कभी दूसरे और तीसरे पहर भी यही। पहाड़ का नया स्वाद था और जीवन की नई-ही-नई छुट्टी थी। जब होता दौड़ते और पहाड़ पर जा पहुँचते। वहाँ जहाँ बस ऊपर आसमान हो आता था और आदमी जहाँ से जूतना नीचा लगता था कि हो ही नहीं। हम वहाँ पहुँचकर हठात् दूर की उन वर्फ़ीली चोटियों को देखते जो कभी चाँदी की तो कभी सोने की दीखतीं। उन पर आँख ठहराना मुश्किल होता। संध्या के समय वहाँ नाना चरण की आभा खेल उठती और हम पुक्कर से भर आते।

उस समय हम में से एक गान छेड़ता और हम तन्मय हो जाते। जो होता वहाँ से टक्के ही नहीं। उस शुभ महिमा के दर्शन पाते ही रहे।

पर हाय रे मनुष्य की आवश्यकताएँ! नीचे हमें आना ही पढ़ता।

आते और देखते कि रहते हम निम्नपर ही हैं; ऊपर कुछ जगों के लिए ही उठ अर जाते हैं। देखते कि रात को दंग कोठरियों में ऊपर करवला और रजाई लेकर हम लोग सो रहे हैं। जैसे स्थिति हमारी यही है। सुकृता तो एक विलास है जो अपवाह की तरह दुर्भाग है। हम पाँच-सात रोज उस गाँव में रहे। सर्वेश-शाम नित्य ऊपर जाकर और पर्वत के हिम-भण्डित शिखरों को देखकर चकित और आनन्दित होते, स्पन्दित और सुखरित होते। तब संघीत हममें से कूटता और काव्य और दर्शन। एक विलक्षण आकुलता और विह्वलता हमें अभिभूत कर लेती। जी होता कि वस उसी में हो रहे, किसी भी और करने-धरने से एकदम सरोकार छोड़ दें।

लेकिन देखा कि गाँव को अब पीछे करके हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना होगा। काशी एवं पहुँचना है और वह जो स्वप्न-सा शुभ है, उल्लङ्घन हृतना कि अवास्तविक, उसी का प्रत्यक्ष करना है।

स्थान छोड़ते हमें अच्छा नहीं लगा। हममें से आशय मुझे। उस आनन्द से बड़े आनन्द की जैसे सुके चाह न थी। उसका अभाव न था, आवश्यकता न थी। जो स्वप्न है वह इसी कारण मनोरम और आनन्ददायक है। प्राप्ति में से उसको क्या अविकता और प्राप्त हो जाएगी पाने में से कहीं उल्टे वह खो न जाय। दर्शन है, फिर उससे अलग उपलब्धि क्या? उपलब्धि की फिर माँग भी क्यों?

लेकिन कुछ था जो हमें खींचे लिए जा रहा था। दर्शन में से उपलब्धि की तृप्ति और अनिवार्य हो आई थी। देखा है, उसको पाना भी होगा। न देखते तो कुछ न था, देख लेकर उसे पाए बिना जिया कैसे जाएगा। देखा रूप जाता है, पाने के प्रयास में वह रूप चाहे विखर ही जाय तो भी उस रूप के खोल को पाने के प्रयास से कुट्टी कहाँ है।

अतः कमर से लोटौँ-करवला बाँधकर हम लोग बढ़ चले।

किन्तु बढ़ने पर पाया कि सब दर्शन हम से खो गया है। जंगल ही जंगल है। चारों ओर झाड़ हैं, झंखाड़ हैं। पेढ़ हैं और पत्थर हैं। पग-

डण्डी-सी राह आखी जा रही है, जिस पर जगह-जगह से और राहें फटी दीखती हैं। सुकृतता नहीं है, अपारता नहीं है। विस्तृति नहीं है; बल्कि सब कहीं संकीर्णता है। आस-पास अवरोध है और बन्धन है। सफेद होकर जो वर्ष धूप से झकझका कर आँखों को चक्राचौध के विसमय से विस्मित कर देता था—वह कहीं नहीं है। जैसे वह केवल साया दृश्य था। मानो वह शुद्ध मिथ्या ही था। अब तो चहुँ और कटीबो स्फाइ हैं और लुकीबो पेड़। चारों ओर बाधाएँ ही हैं और अवरोध और बन्धन। जैसे इनसे अतीत होकर किसी और तरव की स्थिति नहीं है।

फिर भी हम बढ़े जा रहे हैं। कहाँ? किधर? क्यों? कभी-कभी तो जैसे इन प्रश्नों का उत्तर भीतर अनुपस्थित हो जाता है। कमर से सामान बैंधा है और हम पैदल चल रहे हैं। सड़क पर सवारियाँ जाती हैं और हम पौँछ-पौँछ चलने वाले राह चलाने के लोभ में जहाँ होता है परगड़एडी का सहारा थाम लेते हैं। कई बार हो गया है कि परगड़एडी ने हमें अंधेरे में ला छोड़ा है। वहाँ से आगे राह सूखने का कोई उपाय नहीं रहा है। तब मार्ग की निषिङ्गता में यात्रा का लचय जैसे हमसे खो गया है। ऊपर या सामने दीखने को कुछ नहीं रहा है, सिर्फ़ स्फाइ-संसाइ की निषिङ्गता ही उपस्थित रही है।

उस समय हमने क्या किया है? निस्तार पाने के लिए, राह पाने के लिए, हमें क्या सूझा है? जानकर आप को विसमय होगा कि उस समय चारों ओर की तरफ से हमने आँखें बन्द कर ली हैं। जो-जो कुछ दीखने के लिए हमारे चारों ओर हमात् विर आया है, आँखें बन्द करके इच्छापूर्वक हमने उसका इनकार किया है। सब तरफ घना जंगल है। आँख मूँदकर हमने कोशिश की है कि उसको नहीं कर दें। उस समय पत्तकों में आँखों को कस के भीचकर हमसे उसको देख लेना चाहा है जो आरामाद मिसी प्रथलन से नहीं दीखता, वही शुभ घवल-सौन्दर्य जो नहीं साहारा कहीं है, है भी कि नहीं—पर जो अवश्य हम्हीं आँखों के

स्वप्नों में एक रोज़ हो सूझा था उस दर्शन को आँख बन्द कर सुनने अपने अन्दर जगाया है और वहाँ से अपने कदमों को चलाने के लिए दिशा प्राप्त की है। राह बाहर कहाँ नहीं है, चहुँ और सद्बन अटवी है फिर भी अबरोधों से लाइट-फ्लाइट किसी एक मन-चीती दिशा को पकड़कर हम बढ़ते ही चले गए हैं। विपत्ति-पर-विपत्ति आहूँ हैं, सभी असुविधाएँ खेलनी पड़ी हैं। पैर कट गए हैं, चख फट गए हैं। पर मन सपने में बैंधा स्वस्थ रहा है और हम लंगे नहीं हैं, चलते ही गए हैं।

ऐसे लम्बी राह का भी आखिर पार आया है।

पाँव-पाँव चलाऊ सी राह न पह ही गई है और हम काशमीर पहुँचे हैं। काशमीर से आगे वहाँ सी पहुँचे हैं जहाँ बारहों मास बर्फ रहती है। उन चीटियों पर खेले हैं जिनकी झकझकाहट आँखों को बन्द कर देती रही है ?

कहना लुरिकल है कि हिमालय की लकड़ी से देखी गई उन बर्फीली चीटियों की नाना-वर्णी आभा के दर्शन का सौन्दर्य कम था। लेकिन स्वयं उन शिखरों के चिहरण के आनन्द से अवश्य ही वह दूसरे प्रकार का था। शायद उस अन्तर में वह सब कष्ट और प्रयास समाकर सार्थक हो सकता है, जो वहाँ तक की मंजिल पूरी करने में हमें सुगतना पड़ा।

तथ से सानता हूँ कि दर्शन में जो दूरी है वह कितने भी अद्वै सौन्दर्य का कारण हो, उपलब्धि में वह बाधा ही है। दर्शन इस तरह अव्याधी है, यद्यपि वही है जो यथार्थ की ओर की यात्रा में मनुष्य का सम्बल हो सकता है।

दोनों व्यक्ति हैं

एक बार की बात है कि भारत के एक प्रमुख व्यक्ति के घर पर खासी मण्डली जला थी। पच्चीस-तीस जन रहे हांगे। सब भोजन कर रहे थे और बातावरण घरेलू था। वहाँ ली और पुरुष दोनों ही थे। सभी गरण्य-मान्य थे और लगभग सजाज की प्रथम श्रेणी के थे। बात-चीत आरम्भ होने पर वहाँ देखा गया कि जैसे उपस्थित लोगों में दो वर्ग बन गए हैं। पुरुष एक ओर, लियाँ दूसरी ओर। ऐसा अवायास ही हो गया। बाद पढ़ता है कि सीमाप्रान्त के गाँधी श्री अद्वृतशफ़ार ज्ञाँ तो वहाँ एक ऐसे आदमी थे जो मानो खी को अपनी इच्छा में लेकर उसके पक्ष में बोल रहे थे। ऐसे पुरुष इधर थे, तो लियाँ दूसरे पक्ष में। हो सकता है कि खाँ साहब भी मानो कृष्ण-भावनापूर्वक उधर की कह रहे हों। स्मरण होता है कि किसी युवती ने उस समय शायद उन्हें कहा था कि आपकी इच्छा की हमें जरूरत नहीं है, आप भी पुरुष हैं।

उस मण्डली में चुने हुए लोग थे। ली और पुरुष के बीच वहाँ असमानता की कोई भावना न थी। संघर्ष या विरोध में कोई विश्वास रखने वाला नहीं था। सब आपस में सहयोग चाहते थे और एक-दूसरे की उपस्थिति में कोई भी आतंक या असमन्जस अनुभव करने के आदि नहीं थे। सब ऊँची शिक्षा पाये हुए थे और सार्वजनिक जीवन में बरा-

बरी की हैलियत से मिलाने-जुलाने के अभ्यासी थे। फिर भी मालूम हुआ कि खी खी है, पुरुष पुरुष है। और उस भाव में दोनों को अपना पक्ष हो जाता है।

यह एक घड़ी कठिनाई है। मैं पुरुष हूँ तो खी अपने सम्बन्ध में मेरा निर्णय क्यों सुनने लागी? और आगर खी कुछ कहे तो उसकी ही बात पुरुष के पक्ष में अथवा निपटक क्यों होने लागी है?

सो प्रश्न होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच के सम्बन्धों को नियन्त करने वाली सचाई कैसे मालूम हो। क्या वह उस व्यक्ति से मालूम होगी जो न स्त्री है, न पुरुष है? ऐसा व्यक्ति नपुंसक हुआ करता है। और वह खी-पुरुष दोनों को तो क्या, एक को भी नहीं समझ सकता।

फिर भी फ़ैसले के लिए वह व्यक्ति चाहिए जो स्वेच्छापूर्वक मानो नपुंसक बन सकता हो। उसके मन की वृत्तियों में खी के प्रति कामना न हो, न पुरुषव के प्रति चाहना हो। वह तटस्थ हो। राग-विराग न रखता हो। ऐसा होकर भी एकदम बनवासी वह न हो। उसे काफ़ी संसारी होना चाहिए।

ऐसा व्यक्ति इस लोक में कहाँ पाया गया है? क्या वह ही भी सकता है? शंकाशील को ऐसी शंका करने का अवकाश है।

फिर भी हम-आप एकदम बैसी ज़मता से शरण्य हैं, सो नहीं। भोगी-से-भोगी भी किन्हीं-न-किन्हीं की अपेक्षा अपने में तटस्थ-वृत्ति रखता है। पिता होकर हम कन्या में कन्या-बुद्धि रखते हैं कि कि नहीं? माँ को माँ मानते हैं और बहन को बहन की तरह देखते हैं। क्या हम उस वक्त यह भूल जाते हैं कि कन्या, माता और बहन तीनों ही स्त्रीय हैं? नहीं, भूल नहीं जाते। लेकिन फिर भी खी शब्द में जो ध्वनि आती है, उस शब्द सार्तों में मालौ हगाही निगाह से पुकारा जीवे रक्ष जाती है। योहूँ तर उकामान नहीं पैदा होती, न निकार की सम्भावना होती है। पर अब भूलिये कि जौन हरा-धारमें पूरी तरह निकारहीन

हैं, तो—?

इस खिलाड़ि से उचित मालूम होता है कि हरा खी-पुरुष-सम्बन्धी वहस न उठाया रहे। क्योंकि तब पुरुष उस प्रश्न को पुरुष की आँखों से देखेंगे, और छोटी अपनी आँखों से देखेंगी। और चूँकि वे दो हैं, इससे दण्डियाँ भी दो हैं, दण्डिकोण भी दो हैं। सो पक्ष पड़े बिना न रहेंगे और उनाव हो जाएगा।

होना यह चाहिए कि प्रश्न को सामान्य नहीं, विशिष्ट ग्रनाकर देखा जाय। खी-पुरुष के सामान्य प्रश्न का निपटारा करने कौन आयेगा? उसके लिए तो किसी दृढ़दातीत महाव्यक्ति की आवश्यकता होगी। पैसा व्यक्ति, देहधारी, कठिनाई से क्षी मिल सकेगा। क्योंकि जहाँ देह है वहाँ खिंग-थादि भी हैं। पर सामान्य से विशिष्ट पर आ जावें, तो कमला और कमलकुमार के बीच का झगड़ा पैसा हरकोई आदमी खूबसूरती से निपटा सकता है जिसके लिए कमला और कमलकुमार दोनों एक-से पास या एक सरीखे दूर हैं। वह व्यक्ति सर्वथा मोह-सुक्त हो, इस दावे की ज़रूरत ही नहीं है। उस खास केस में वह मोह नहीं रखता हो, इतना ही काफ़ी है।

इसी प्रकार हम समाज में चला करते हैं। हम सभी अपूर्ण हैं। फिर भी एक-दूसरे के काम में आने के लिए परस्पर विश्वास और अधिकार का प्रयोग कर लेते हैं। पैसे ही समाज की मर्यादाएँ बनती हैं और आवश्यकताएँ पूरी होती हैं।

असल में खी और पुरुष का प्रश्न केवल स्त्री और केवल पुरुष के प्रश्न के तौर पर कभी सामने नहीं आता। वह तो कृतिम प्रश्न है और वाद-विचाद या बैठक-अधिवेशनों में ही उठाया जाता है। यह आशय नहीं कि लेख-विचार में या सभा-समितियों में उसका उठाना एकदम बेकार है, या कि बुल्ल है। पर यह खूब अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सार्वजनिक प्रश्न जब तक व्यक्तिगत रूप में पकड़ में नहीं आता तब तक उसकी सार्वजनिकता सच्ची नहीं है। कमला या कमलकुमार

और विमला या कमलकुमार की अपनी कठिनाइयों को जो सार्वजनिक निर्णय नहीं कूटता है, उसकी सार्वजनीनता संदिग्ध है।

आज इस सम्बन्ध में चलाने वाले आनंदोलनों की आलोचना यही है। वे व्यक्ति तक आकर शूल्य हो जाते हैं। उपर-उपर तो उनमें बहुत अर्थ रहता है और बहुत तर्क रहता है और बहुत अनिवार्यता-सी भी रहती मालूम होती है, पर तत्काल में और असल में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। प्रस्ताव तो गम्भीर और सुन्दर पढ़ा जाता है, पर उसके सहारे जीवन एक का भी सुन्दर और गम्भीर बनने में नहीं आता। इससे स्त्री-पुरुष के प्रश्न को अति-सामान्य बनाकर छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसा करने से स्त्रियाँ अपने स्त्रीत्व को लेकर चेतेंगी, जिसके जवाब में पुरुषों में अहंता जागेगी। इससे फिर स्त्री छिड़ उठेगी और परिणामतः पुरुष और हठीला होगा। फिर स्त्री नुनौती पर ही आ तुलेगी। इस तरह कोरी बदायदी और तेजातेजी पैदा होगी और चक्र चक्रीला बनकर रह जायगा।

सच बात यह है कि पुरुष पूर्ण नहीं है, स्त्री भी पूर्ण नहीं है। कोई एक अकेला नहीं रह सकता। सुष्ठि का नियम ही यह है। सहयोग अनियार्य है और सम्पर्क भी अनियार्य है। सम्पर्क तजक्कर एकाकी बने रहने की सीख आदिकाल से दी जाती रही है। अब भी वह बन्द नहीं है। पर उससे जो उपकार हुआ, सो तो कौन जानता है? अपकार हुआ, वह स्पष्ट है। वह सीख लेती नहीं, लेता भी नहीं सकती। सम्पर्क अनियार्य है और जंगल में भागकर भी मन में चलाने वाली तस्वीरों को और सपनों को खत्म नहीं किया जा सकता। अपने से आइमी कहाँ भागेगा? और स्थूल सम्पर्क ही सब-कुछ नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म नुद स्थूल को अनियार्य घोषता है।

इससे ब्रह्मचर्य का उपयोग तो समाधान के लिए काफी नहीं। यह व्यक्तिगत साधन का एक तो बन लकड़ता है, जिसका हीरे समाज की इस-स्तर को वह नहीं सुलझाना। और अगर कहीं ब्रह्मचर्य की साधना

असामाजिक रूप पकड़ गई, जैसा कि हुआ है और होता है, तब तो उससे उल्लम्भ उस्टे बढ़ ही जायगी।

स्त्री-देह के प्रति धृणा और तिरस्कार की भावना के आधार पर ब्रह्मचर्य को पुष्ट बनाने की कोशिश की गई है। कवियों ने गर्हणीय विशेषणों की हँड़-हँड़ ढक्कर इस प्रसंग में प्रयोग किया है। लेकिन उससे अनर्थ ही हुआ है, ब्रह्मचर्य का हित उससे किसी भी नहीं हुआ। धृणा के आधार पर कभी कोई दृष्टि-सावन हो सका है? जिस चरित्र की दृढ़ता के मूल में धृणा और द्वेष-जैसा कोई प्रतिक्रियात्मक भाव है, वह दृढ़ता ही नहीं है; वह आडम्बर है और एक दिन उसको ढह रहना है।

ऐसी सब शिक्षा जो पुस्तक में स्त्री के लिए और स्त्री में पुरुष के लिए हीनता की भावना पैदा करती है, त्याज्य है; उरानी पुस्तकों में हो, चाहे वह आधुनिक किताबों में हो। परस्पर हीन-भाव रखना विधातक ही हो सकता है, विधायक नहीं हो सकता है, धृणा धृणा को जन्म देगी और हीन-भावना हीनता को बढ़ाएगी।

पर सच यह है कि प्रेम अनिवार्य है तो युद्ध भी अनिवार्य है। प्रेम में युद्ध गमित है और हमारा समाज का संगठन इस आधार पर खड़ा हुआ है कि हम प्रेम के प्रेम-तत्त्व को तो सुरक्षित रख सकें, पर उसके साथ चलने वाले स्वत्व और ईर्ष्या आदि भावों के अनिष्ट से यथा-सम्भव बच सकें।

आनंद-समाज में आदिन-ट्रिन से इस दिशा में परीक्षण किए हैं। स्वभाव-प्रात प्रवृत्तियों को व्यक्ति कैसे तृप्त करता चले कि वे समाज-साधन में उपयोगी हों और आपाधापी न बढ़े? इस प्रश्न के समाधान में ही मनुष्य-जाति के पुरुषार्थ और प्रयत्न का मार्ग बनता रहा है। आज दिन जो सामाजिक संस्थाएँ हमारे पास हैं, मानव-जाति के इसी अध्यवसाय की वे फलास्वरूप हैं। इसी हेतु विवाह है, परिवार है, संपत्ति और मान-सम्मान आदिक भावनाएँ हैं।

प्रेम और मैथुन में अन्तर है। मैथुन प्रकृतिगत है, पर प्रेम में वेदना

है। मैथुन देहज है, प्रेम उत्तरोत्तर देहातीत। प्रेम में सद्बन्ध की सामर्थ्य चाहिए। वह आवास-साध्य है। मैथुन तृष्ण-रूप है, प्रेम अभाव-रूप है।

समस्या तृष्ण के प्रश्न पर ही आकर खड़ी होती है। लिप्सा तृष्ण माँगती है। जहाँ लिप्सा है और तृष्ण की माँग है, वहाँ भगवा आगे ही खड़ा है।

मानव-विकास की साधना यह है कि प्रेम में पीड़ा अधिकाधिक सही जाय, और लिप्सा कम-से-कम रह जाय। अर्थात् प्रेम के साथ तृष्ण का प्रश्न तनिक भी जुड़ा न रहे। प्रेम का हक मनुष्य का कोई नहीं छीन सकता। ऐसा हक धर्म होता है। पर तृष्ण माँगने का उसका हक नहीं है। तृष्ण के प्रश्न में समाज का दखल आता है। समाज-धर्म को नियंत्रक तृष्ण चाहे तो पा सकेगा, अन्यथा नहीं।

इस भाँति शारम्भ से व्यक्ति और समाज में खीचतान खड़ी आ रही है। श्रावनी वृत्तियों को लेकर ही व्यक्ति चक्षता है, लेकिन समाज में हीकर उन वृत्तियों को खुली परितृष्ण मिला नहीं सकती। तब क्या हो? संघर्ष तो अनिवार्य ही है पर प्रश्न है कि संघर्ष का निपटारा क्या हो?

व्यक्ति प्रेम करता है और उस प्रेम में असुक को पा लेना चाहता है। मानिए कि कमला कमलकुमार को पाना चाहती है। लेकिन विमलाकुमार विमला को चाहता है, और विमला उधर कमलकुमार को चाहती है। ऐसा होता देखा जाता है। शायद सदा ही ऐसा होता है। प्रेम की गति निराकी है। जाने वह किस निपटा ने जलता है!

अब प्रश्न यह होता है कि सत्त्वानी गति से चलने वाले सत्त्व-भावनापूर्ण उस प्रेम को लेकर समाज क्या करे? विमला, कमला या विमलकुमार और कमलकुमार में से किसी एक के भी मन की हो सके नी स्पष्ट है कि उससे किसी दूसरे का मन अवश्य दूटेगा। समाज किस पृक्ष की रुए में किस तूफ़रे की यजि है? प्रेमपात्र प्रेमी को न चाहें तो

क्या हो ?

फिर ऐसा प्रेम कोई स्थिर तत्व भी नहीं होता । उसका आधार रहता है । तब समस्या और भी विषम हो जाती है ।

इस देखें कि इस प्रेम में चाह विद्यमान है । जहाँ पीड़ा की स्वीकृति के अतिरिक्त कुछ माँग भी है, कामना है, तो उस प्रेम में लिप्सा है । वहाँ ईर्ष्या आ जाती है, जिसकी पूँछ में कलह बैधी रहती है ।

पर प्रेम जब कि धर्म है, लिप्सा अधर्म है । प्रेम सामाजिक है । उससे सहानुभूति का विस्तार होता है । लेकिन लिप्सा असामाजिक है । उससे छीन-झपट बढ़ती है और 'मैं-तू' की भावना पैदा होती है ।

लो लिप्सा जहाँ आई वहाँ बीच में समाज को दखल देने का हक भी आ ही गया ।

समाज-नीति उसी हक के आधार पर खड़ी है । सदाचार की संस्था उसी निमित्त निर्मित है ।

जातियों और मुल्कों में अलग-अलग मान्यताएँ हो सकती हैं । कहीं सदाचार की धारणा बहुत सँकरी है । कहीं वह बहुत हल्की है । कहीं विवाह किसी तरह का है । दूसरी जगह और ही तरह का है । एक जगह जो सम्बन्ध व्यभिचार समझा जायगा, दूसरी जगह वही धर्मचार समझा जाता है ।

ये भेद हो सकते हैं । लेकिन एक बात सत् जगह है । दण्ड का विधान सब समाजों में है और व्यक्ति को मनमानी करने का हक कहीं नहीं है ।

इस स्थिति को किसी प्रकार भी समझा जाय और कोई भी भाषा उसे दी जाय, यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की लिप्सा उसी हद तक तृप्त हो सकेगी जहाँ तक कि उस समाज की सदन-शक्ति होगी । यानी, जहाँ कि उस समाज की ओर से (दण्ड-विधान की) सीमा खिंची होगी । जिसनी समाज की शक्ति बढ़ती जायगी, उतनी ही व्यक्ति की लिप्सा (स्वार्थ) को कम होना पड़ेगा । उत्तर समाज में व्यक्ति संयत होगा । इसी

भाँति उन्हें व्यक्ति वह समझा जायगा जिससे समाज नष्ट नहीं, पुष्ट होता है।

इस लिहाज से व्यक्ति की उन्नति इसमें है कि वह स्वर्य अपनी हृच्छाओं पर विजय पाता चले, क्योंकि इसी में समाज की उन्नति भी है। व्यक्ति की आपाधारी समाज के संगठन-सूत्रों को कमज़ोर करती है और उस व्यक्ति को भी अन्ततः असहिष्णु बनाकर जीर्ण कर डालती है।

स्त्री-पुरुष के जिस सम्बन्ध के बारे में उलझने उपस्थित होती है, वह है दाम्पत्य-सम्बन्ध। प्रश्न यों और रिश्तों में भी उठते हैं। पर पेची-दर्गी उसी सम्बन्ध के बारे में अधिक अनुभव की जाती है। क्योंकि कर्तव्य से हटकर उस सम्बन्ध को भोग और स्वत्वाधिकार पर भी आश्रित समझा जाता है।

एक नई भाषा चल पड़ी है जिसमें कि प्रेम और विवाह को परस्पर-विरोधी देखा जाता है। लोग उसमें प्रेम की छूट चाहते हैं और यहाँ तक कि विवाह को समाप्त कर देना चाहते हैं। विवाह को वे अनिष्ट मानते हैं और कहते हैं कि समाज में सुविधा उससे पैदा नहीं होती है; बल्कि कलेश बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं और अत्युत्सु भीतर दबी रहने के कारण व्यक्ति और समाज के जीवन में तरह-तरह की विषमताएँ पैदा हो जाती हैं। सम्भोग एक स्थाभाविक कृत्य है और रोक-थाम की उस पर आवश्यकता नहीं है। विवाह अगर समाज के लिए आवश्यक हो भी तो वह इतना सुखभ और सस्ता हो जाना चाहिए कि नहीं के बराबर। विवाह कर लिया तो अच्छा। पर जब उससे अरुचि हो तो उस विवाह को तोड़कर ढूसरा विवाह कर्तव्य क्यों न हो जाय? इससे खुशी कायम रहेगी और तन्दुरुस्ती कायम रहेगी।

पश्चिम का समाज शायद इस दिशा में हिन्दुस्तान के समाज से कुछ धारे है। वहाँ विवाह घटन से ही नहीं, बल्कि काफ़ी सहृदृ है। वहाँ समझोते के प्रति भी ज़दार शावना है।

उदाहरण तो समझ में आता है। पर व्यक्ति के लिए यह मनमाने-

पन का सौका उस अवस्था से पहले तो शायद अनिष्ट ही करेगा जब सक कि व्यक्ति पूरी तरह समाज-हित में मिल नहीं जाता; यानी लिखा का शिकार होने से बच नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जब तक अपनी प्रकृति में समाजधर्मी नहीं हो जाता तब तक दार्शनिक समाज के दखल से बाहर का विषय नहीं हो सकता। और तब कुछ-न-कुछ उसकी विधि और मर्यादा होनी भी ज़रूरी होगी।

असले में वे सब आनंदोलन जो मुख्यता से अधिकार की चेतना को लेकर चलते और चलाए जाते हैं और जिनमें कर्तव्य की भावना उतनी ही प्रमुख और सजग नहीं है, वे न्यूनाधिक भोग-भूलक हैं और लिप्सा के आधार पर खड़े हुए हैं।

इस तत्त्व को पहचान में रखकर परस्पर के व्यवहार में जो संघर्ष और प्रश्न खड़े हों उनका असुक विशिष्ट परिस्थितियों में जो निपटारा हो, कर लेना चाहिए। नहीं तो सामान्य रूप से स्त्री और पुरुष का प्रश्न छेड़कर उस समान्य में बाद-विवाद उत्पन्न करके समझना यह ही आती है कि पति-पत्नी में ही नहीं, भाई और बहन में, माता और ऊन में, पिता और कन्या में, या किसी काजिज के एक वर्ग के सहयोगी छात्रों और छात्राओं में, समाज के सदकर्मी स्त्री-पुरुष कार्यकर्ताओं में सहयोग की जगह स्पर्द्धा और बदालदी की भावना होने लग जाय। जहाँ उसके बीज हैं वहाँ विरोध ठना ही रखा समझना चाहिए। हमें इस प्रकार व्यवहार करने की आवश्यकता है कि जिससे स्त्री-पुरुष में अपनी-अपनी भिन्नता की चेतना भड़के नहीं, बल्कि मन्द हो। स्त्री में हम व्यक्तित्व देखें और पुरुष में भी उसी का जिहाज रखें। स्त्री का स्त्रीत्व और पुरुष का पुरुषत्व जब कि निःसन्देह उन दोनों की स्थितियों में कुछ भेद पैदा कर देते हैं, तब उस भेद पर आवश्यकता से अधिक ज़ौर देकर यह नहीं समझना चाहिए कि इन दोनों में सामान्यता नहीं है या कम है। असले में व्यक्तित्व का दृष्टि से दोनों विचारक समान है। और जहाँ व्यक्ति की हैसियत है, स्त्री और पुरुष में भेद करना फ़िज़ूल है।

समाधान की ममोवृत्ति

अभी बरेली में थी रामनरायण मिश्र भिला गये। वह काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा के वर्तमान संस्थापकों में से है। हाल में मढ़रास गये थे। वहाँ से हैदराबाद और पंजाब का दौरा करके आ रहे थे। उनसे जो बात-चीत हुई उससे मालूम हुआ कि हिन्दी का सामना संवर्ध से है, कई और से उस पर संकट आया है और हिन्दी वाले सचेत न हुए तो आगे का ठिकाना नहीं है।

पूता-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष श्री सम्पूर्णालंब का भाषण हर जगह छपा ही है। उससे भी हिन्दी की समस्याओं का और उस पर होने वाले चहुंसुखी प्रहार का आभास मिलता है।

ऐसी हालत में हिन्दुस्तानी का सवाल पीछे पड़ जाता है। हिन्दी को अपनी चिन्ता है, उर्दू को अपना स्थान है और दोनों का एक-दूसरे पर अविश्वास है। ऐसे में उन दोनों के मेला से बनने वाली हिन्दुस्तानी का पक्ष औफल हो ही जाना हुआ।

मिश्र जी ने कहा कि पंजाब में हिन्दी-सेवयों के जाने की ज़रूरत है। वहाँ जो ग्राइमरी-पुस्तकेशन के सम्बन्ध में स्थिति बन गई है वह हिन्दी के लिए असहा है। उसका अर्थ हिन्दी भाषा और संस्कृत के समूल नाश की तैयारी ही समझिए। मिश्र जी ने इसलिए न्योता दिया कि हिन्दी के हितैषी पंजाब में जाकर कुछ अपना समय है।

साम्प्रदायिक आनंदन और वैमनस्य से भाषाओं की एकता—यानी राष्ट्रभाषा का सवाल कुछ पेंचादा बन गया है। अंग्रेजी तो परिधि से बाहर है। हिन्दुस्तान की दूसरी प्रान्तीय भाषाओं में भी कोई आव तो अपना दावा सामने लाती कम दीखती है, निपटारा इसलिए हिन्दी और उदूँ में होना है। हिन्दी और उदूँ के बीच खिचाव और प्रतिद्वन्द्विता ही इस घजह से है कि वे दोनों एकदम दो भी नहीं हैं और एकदम एक भी नहीं हैं। अधबीच में दोनों अभिन्न हैं, किनारों पर उनका अलग-अलग रंग दीखता है। एक हघर संस्कृत से जुड़ी है, दूसरी उघर कारसी-अरबी से। बीच की धारा जब साम्प्रदायिकता के उभार के कारण उथली होकर सुखी-सी दीखती है तब हिन्दी और उदूँ अलग-अलग हो जाती और मेरे ख्याल में निर्जीव पड़ जाती हैं, अन्यथा तो हिन्दी आचार्य और उदूँ आलिम को क्षोडकर हम-आप जैसे सामान्य लोगों को उनकी दुर्दृष्टि कुछ बहुत पता नहीं चलती है। हाट-बाजार में जाकर जिस बोल-चाल से अपना काम हम चलाते हैं उसी को कोई हिन्दी तो दूसरा उदूँ कहकर पहचानता है।

पर बोल-चाल तो साहित्य नहीं है। साहित्य में गहराई होती है। फिर लिखित या सुनित होने से साहित्य लिपि-निर्भर भी होता है। उत्तर हिन्दुस्तान की आम बोल-चाल की भाषा यदि एक ही मान ली जाय तो भी लिपियाँ दो हैं। इससे भाषा भी द्विरूप बन जाती है।

असल अङ्गचन शायद यही है। उदूँ-फारसी के शब्दों को प्रयोग में लाने से हिन्दी वाला कदाचित् न घबराये पर नागरी लिपि से दूसरी लिपि उसे अपनी भाषा के लिए अकल्पनीय जान पड़ेगी। इसी तरह उदूँ की आज की कविता में ठेठ हिन्दी के शब्द चाहे खूबसूरती ही पैदा करते मालूम हों; पर ‘ख़ल’ उन्हें फारसी का ज़ौचेगा। और ख़त दो हैं तब तक भाषा की एकता भी सिद्ध नहीं कही जा सकती।

यह अद्वितीय कैसे निपटे ? अभी तो मालूम होता है कि इसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। और उपाय नहीं ही है तब तक इम क्यों न दोनों लिपियों को चलने दें और हर हिन्दुस्तानी अच्छे से आशा करें कि वह दोनों लिपियाँ जानेगा ? यह आशा दुराशा नहीं कही जा सकती । आज भी अंग्रेजी भाषा और लिपि हम सीखते ही हैं। अंग्रेजी काले कोसों दूर की है। उदूँ पढ़ोस की है। अंग्रेजी से कहीं अधिक आसानी से उदूँ सीखी जा सकती है। और उदूँ से व्यक्ति अपने भाई-बन्द से आलग नहीं पड़ेगा।—जैसा कि अंग्रेजी से पढ़ जाता है। बल्कि उस लिपि को सीख जाने के कारण वह अपने आल-पाय के जीवन में और भी बनिष्ठ भाव से बुल-मिल सकेगा।

मैंने वहाँ मिश्र जी से कहा कि हिन्दी के लेखक की हैसियत से मुझे अपने से दो शिकायतें हैं। एक यह कि मैं संस्कृत नहीं जानता, दूसरी यह कि उदूँ नहीं जानता। और तो और, हिन्दी लिखने की दृष्टि से मैं असुभव करता हूँ कि उदूँ जानना मेरे हक् में संस्कृत न जानने जैसी ही भारी त्रुटि है।

यही उदूँ-लेखकों का हाल है। बल्कि उदूँ वालों का हाल तो बदतर है। वह अपने तात्रस्सुव में बन्द हैं। औसत हिन्दी वाले को उदूँ का कुछ अता-पता हो भी, उदूँ वाले को हिन्दी का उतना भी परिचय नहीं है। जब कभी किसी उदूँ-लेखक से मिलना हो जाता है तो मुझे अचरंत होता है कि वे हिन्दी के काम के बारे में कितने अँधेरे में हैं। हिन्दी वाला भी उदूँ के बारे में कुछ अहृत उजाले में नहीं है।

यही तो कठिनाई है। क्या हिन्दी में साहित्य नहीं है ? या उदूँ में फिरका-परस्ती ही है और वहाँ अद्वय नहीं है ? मैं जानता हूँ कि दोनों भाषाओं के साहित्य में अहकार ही नहीं है, बल्कि प्रेम भी है। पर प्रेम मौन होता है, पर अभिभावना की वरखराहट प्रखर और प्रगल्भ होती है। अंग्रेजी या हिन्दी-उदूँ के राज्ञाना अख्यारों से इस

या उस काल्पनिक के प्रस्तावों की खबर हमें मिलती रहती है, या किसी सरकारी कारनामे की या किसी डिपार्टमेन्टल कार्यवाही को खबर। और हम मन में बिठा लेते हैं कि हिन्दुस्तान में प्रकृता तो कहीं है ही नहीं, भगवान्-ही-भगवा है। हिन्दू और मुस्लिम में भगवा है, हिन्दी और उदूँ में भगवा है, आदि आदि।

भगवा है—क्योंकि भगवे में किसी का मतलब है। पर हिन्दी बाला तथ कर ले कि उसे उदूँ सीख लेनी है और हिन्दी भी नहीं छोड़नी है और उसी तरह उदूँ बाला भी बिना उदूँ छोड़े हिन्दी सीख लेते तो मालूम होगा कि मतलब बाले का मतलब ही इससे सध रहा था, असल में हिन्दी और उदूँ में कोई लड़ाई न थी।

हिन्दी-बोचक की हैसियत से हिन्दी का अहित में न सहूँगा। उस पर आँच मुझ पर आँच है। हिन्दी गई तो मैं ही लूटा। पर हस आत का मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि हिन्दी यदि काथम रहेगी तो उनके कारण नहीं, जो उसकी स्वत्त्व-रक्षा के लिए किसी दूसरी भाषा के विरोध पर कटि-बढ़ दी रहते हैं। वह तो उनकी साधना के बल पर काथम रहेगी जिन्होंने आने आन्तर्थ प्रेम का सारा रख निचोड़ कर उसमें रख दिया है। तुलभी, सूर और जायसी पर वह हिन्दी ऐसी चड़ी रहेगी कि डिगेगी नहीं।

आर्थात् भाषा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। साहित्य के साथ भाषा जीती है। साहित्य हित के साथ है। विरोध-भावना की साहित्य में जगह नहीं है। साम्प्रदायिकता में विरोध-भाव आता है, इसलिए उस धृति में साहित्य का नाश है। साहित्य को नष्ट करके भाषा को पुष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हिन्दी का वह प्रचार और वह प्रोग्रेस जिसमें कोई संकोर्ण या विरोधी प्रेशर काम कर रही है, उसका सच्चा प्रचार या सच्चा पौष्टश नहीं है। मैं उस आधार पर हिन्दी भाषा का विस्तार चाहता हूँ जिस पर कि पछौसी मुसलमान को भी मैं कह सकूँ कि 'भाई, आओ हिन्दी सीखो, क्योंकि हिन्दी

सीखना तुम्हारा धर्म है।' जिस आधार पर कि सुसलभान के हिन्दी से विमुच्छ होने की आशा और आशक्का हो उस आधार पर हिन्दी का हित साधने चलने में उसका अहित साधन होगा—ऐसा मेरा विचार है।

यही खयाल उद्दूँ वालों के आगे भी मैंने रखा। कुछ दिन पहले यहाँ दिल्ली में एक उद्दूँ-कान्फ्रेंस हुई थी। मैं वहाँ गया और अनुभव किया कि उद्दूँ को यड़ा रखने और आगे बढ़ाने में साम्प्रदायिक भावना का खाल लिया जा रहा है। गोया मैं हिन्दू हूँ, इसलिए मुझे उद्दूँ से दूर ढाला जा रहा है। कान्फ्रेंस के बाद अपने दोस्त से मैंने कहा कि जहाँ तक मुझ नाचीज़ का ताल्लुक़ है इस कान्फ्रेंस से उद्दूँ का तुक़सान ही हुआ—यानी मैं उद्दूँ की तरफ रागिव होते-होते वापिस खिंचने को मजबूर हुआ। और मैं तो उद्दूँ की तरफ बढ़ने की जीर्णत से चला था लेकिन कान्फ्रेंस में पहुँचकर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुझे यहाँ स्वागत नहीं मिलेगा—अविश्वास मिलेगा। क्या इस तरह आप अपनी उद्दूँ की तरफ़ की कर सकेंगे?

दोस्त ने बताया तो कि इसमें मेरी गुलातफ़हमी है और उद्दूँ की तहरीक के पीछे किरकेदारान कोई भाव नहीं है। पर वह आत क्या दुखीज़ से बताने की थी? वह तो दिला से समझी जाती है।

उद्दूँ की तरह विन्दी भी क्या किसी संकीर्ण आवेश का सहारा लेकर अपना अलाभ करने तुक पड़ेगी? मुझे आशा करनी चाहिए कि ऐसा न होगा!

यह आवश्यक नहीं है कि असाम्प्रदायिक मनोवृत्ति के साथ हिन्दी पर, या जिसका प्रतिनिधित्व वह करती है उस संस्कृति पर कोई प्रहार पड़े तो उसका नशाज़ और सफल प्रतिकार न किया जा सके। बल्कि सच यह है कि उस विवेचनीयता से ही रचनात्मक शक्ति पैदा होगी और संस्कृतों का यही उत्तर दिया जा सकेगा।

पंजाब का प्रश्न है, रेडियो का प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का प्रश्न है,

हिन्दुस्तानी का और रीडरों का प्रश्न है। हन और ऐसे सभी प्रश्नों का हल प्रथम-पूर्वक निकालना है। वह हल बुनियादी बातों को भूलने से नहीं; वहिन उन्हें याद रखने और अमल में लाने के द्वारा ही होगा।

फिल्म की सार्वजनीन सम्भावनाएँ

सिनेमा की कहूँ तस्वीरें मैंने देखी हैं, जिनमें कुछ अच्छी जागी हैं, कुछ कम अच्छी और कहूँ रद्दी मालूम हुई हैं। प्रश्न है कि पैसा क्यों हुआ है; अच्छी जो मालूम हुई है, सो क्यों? और रद्दी जिनको कहना पड़ता है, वह किस बास्ते?

इसका उत्तर मेरे लिए एकदम साफ नहीं रहा है। बहुई में, तस्वीर बनते हुए भी मैंने देखी हैं। तथ मालूम हुआ कि सिनेमा की तस्वीर कोरे विचार में से बनती है। जैसी वह देखने में एक सिलसिलेवार चीज होती है, वैसी बनते समय नहीं होती। उसे जोड़-जोड़कर बनाना होता है। यह उधर चलने की बात है जहाँ पहले रास्ता बना-बनाया नहीं है। सहित वसी को कहते हैं। इसलिए यह काम बहुत मुश्किल है। तस्वीरें हैं जिन्हें बड़ा सौच-समझकर बनाया गया है। बहुत दिमाग उसमें लगे और पूँक-पूँककर कदम आगे रखा गया; बहुत पैसा उसमें लगा और प्रवार-विज्ञापन भी कम नहीं किया। लेकिन तस्वीर नाकाम रही और सब पैसा ले डूबी। सितारे उसमें मशहूर थे, गाने अच्छे गले वालों के थे, नाच भी खासे डाले गए थे, लेकिन तस्वीर उभर न सकी। उधर ऐसी तस्वीरें भी हैं, जिनसे, शुरू में कुछ आस न थी; बनाने वाले खुद मन में उदास थे; लेकिन तस्वीर दूस कदर कामयाब रही कि उन्हें अचरज में रह जाना पड़ा।

इसलिए कुछ पुस्तक आवश्यक है कि वह कुछ जूँड़ का दर्जा है। सही पढ़ा तो बया कहने, नहीं तो जीखम है। लोगों की तबीयत के बारे में अनुमान लगाकर, मूल भी गढ़ गए हैं कि तस्वीर में सितारे न्यूरत वाले चाहिएँ, जाच इतने और गाने इतने होने चाहिएँ। प्रेमचन्द्र ने, जिसे सिनेमा की बोली में 'इन्टरटेनमेंट बेल्ट' कहा, यानी लास्य-दृश्य, वह असुक मात्रा में होने चाहिएँ। तस्वीर लैयार की जाती है, जिसमें इन चुस्तों को काम में लाया जाता है, और अगर वे नहीं चलतीं और पैसा भरपूर नहीं लातीं तो उन चुस्तों की दबाई में ज़रा कुछ फेरवदल कर दिया जाता है।

हिन्दुस्तान में अक्सर तस्वीरों का विवाह बाहर से लिया जाता है। जैसे, असुक सितारे हमारी ठोली में हैं तो उनके हिसाब से कहानी गढ़ी जाती है। इस प्रकार अक्सर तस्वीर की कहानी आपस में ही, गढ़ ली जाती है, और प्रोड्यूसर-डाइरेक्टर से अलग कथाकार की आवश्यकता नहीं रहती। प्रोड्यूसर पैसे के जोखम की दृष्टि से और डायरेक्टर लास्कालिक मर्यादाओं की दृष्टि से चलता है। इस तरह अर्थ और साधन की, यानी टैक्नीक की मर्यादाओं के अधीन, चित्र के अर्थ को रहना होता है। विकाशतों में सिनेमा साधन है और यद्यपि उसकी मर्यादाएँ हैं फिर भी वे उद्देश्य पर नहीं प्राप्तीं। साधन अधिकांश वहाँ साध्य के अधीन है। यहाँ अभी साध्य की उतनी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा नहीं है। उसे साधन के अधीन रहना पड़ रहा है। वहाँ की बहुत अधिक तस्वीरें ग्रन्थों का आधार लेती हैं, जो सिनेमा की दृष्टि से नहीं खिले गए होते। उनमें मर्मालिभूति थी, इसलिए पर्दे पर आई तो वह कथा वहाँ भी कामयाय रही। चित्र बनाने में मूलकथा पर वहाँ उतना आरोप नहीं लाया जाता। यहाँ अबल तो, उधर देखना आवश्यक नहीं समझा जाता, फिर किसी ग्रन्थ को लिया भी तो उसकी शुल्कसूत्र हतनी सिनेमाई बना दी जाती है कि पहचानी न जाय। शरतचन्द्र की कथाओं के साथ यह प्रथम रहा कि मूल शारतभाष को दिया जाय और परिणाम-

पहुंच अच्छा हुआ। 'देवदास' की सफलता अब तक याद की जाती है, और उसका मुख्य कारण मैं यह मानता हूँ कि उसमें शरत्-भाव अधिकाधिक सुरक्षित रखा गया। रवीन्द्रनाथ और प्रेमचन्द्र के साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्हें सिनेमार्ह रंग पहनाना आवश्यक समझा गया, और उससे तस्वीर बनी नहीं बिगड़ी है।

सिनेमा की भाषा रूप की भाषा है, इसलिए इसका प्रभाव व्यापक है और तात्कालिक है। भाषाओं में भेद है पर भाव और रूप की अपील एक है। इस तरह सिनेमा में सम्भावनाएँ जबरदस्त हैं। लेकिन रूप चित्र-विचित्र है और सहसा सीधा कोई अर्थ वह प्रदान नहीं करता। कहते हैं ईश्वर यहाँ सब कहीं फैला हुआ है, सब-कुछ उसी से दृश्यमान है, लेकिन आँख खोलकर देखने से अह रूपाकारमय जगत् हृतना दिखता है कि ईश्वर दिखना असम्भव रहता है। यानी रूप की विविधता को थामने वाला एक उसमें पिरोया हुआ अर्थ होना आवश्यक है। अन्यथा सारा रूप-विधान अर्थ हो जायगा। जिनको 'स्टण्ट पिक्चरस्' कहते हैं, वे बहुत देर तक बहुत लोगों के मनों को नहीं रोक पातीं, उसका यही कारण है। उनमें अर्थ की एकता नहीं रहती, सिर्फ़ विविधता रहती है।

जो प्रश्न मैंने पहले अपने सामने रखा कि तस्वीरें अच्छी और रद्दी सुन्ने किस कारण लगी हैं, तो इसके डत्तर में मैं इसी निर्णय पर आया हूँ कि जिनमें समूचे रूप-विधान के नीचे प्रभाव और अर्थ की एकसूत्रता रही है वे तो गहरा असर ढाल सकी हैं, और उन्होंने मन को पकड़ लिया है। और जिनमें सिर्फ़ विचित्रता है, वह बेखते-देखते विखर गई है, और मन में कोई याद नहीं छोड़ गई है।

इस 'एक' चीज़ को मैं 'फ्रेंच' कहता हूँ। 'फ्रेंच' से मन्दिर-मस्जिद-गिरों की ओर ध्यान न जाय। 'फ्रेंच' याती दुर्मङ्द-भान। उसकी अपने सिनेमा-चैन में कहीं देखता है। गुरु में उठ जान कुछ थंग में थो और तब इच्छा समर्पित चित्र बने। इधर व्यावसायिकता के ऊर-

में, उधर ध्यान कम है, टैकनीक की विनता ज्यादा है। टैकनीक की बात तो ठीक ही है। पर अर्थ वहाँ है, इति वहाँ नहीं है। उस महदू-भाव को हम बाहर से नहीं जा सकते। यानी वह तरकीब की चीज नहीं है, नारे-झण्डे और तलवार-तमन्चे से उसकी कमी भरी नहीं जा सकती। बलिक इस ढंग की तरकीबें तस्वीर को उलटे खोखला और दबका बनाती हैं। नहीं, अर्थ और विचार की एक बैदला होनी चाहिए जिसमें से कथा-चित्र निकले। जरूरी नहीं है कि उस कथा-चित्र में नाच हो ही, या गाने भी हों द्वीं। यहाँ तक हो सकता है कि उसके प्रेम में नाज़ा-नखरे न हों, तब जबरदस्ती इन चीजों को उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कारण नहीं कि वह चित्र लोगों के मर्नों को बाँधी न रखे। विजायतों से हम देख सकते हैं कि न केवल ऐसे चित्र यने हैं और कामयाब हुए हैं, बलिक जो कामयाब हुए हैं, वह सब लगभग ऐसे ही चित्र हैं।

मैं नहीं जानता कि फिल्म-व्यवसाय इस वस्तु को, 'फेथ' को, कहाँ से पाए? लेकिन प्रगति होगी तो उसी के संयोग से होगी। दो चीज हैं—कल्पना और हिसाब। दोनों यों उलटी दिखती हैं, पर दोनों के योग के बिना न कभी कुछ हुआ है और न होगा। इसमें भी, कल्पना को हतना ग्रबला होना होगा कि वह हिसाब को आकृष्ट और अधीन रखे। हिसाब अनिवार्य तर्क है और पैसे की लागत और आमद के पक्ष के प्रति सोए रहने से नहीं चलेगा। सोएगा सो खोएगा। लेकिन जागने के मायने हिसाब में बँधा रहना नहीं है, बलिक आदर्श के प्रति जागरूक रहना है।

सिनेमा की सभ्भावनाओं के प्रति सब शक्तियाँ जग रही हैं। भारत में हुआ और हो रहा फिल्मों का अन्तर्राष्ट्रीय मेला उसका ग्रमाण्ड है। देशों को सरकारें उधर ध्यान दे रही हैं और उस माध्यम से अपना काम भी ले रही हैं। सरकारों का उधर मन जाना आवश्यक है, पर वह अच्छा है तो खतरे से भी खाली नहीं है। दरकार यह बद संस्था

है जिसे मानव-जाति ने अपने व्यवहरया विकास में अपने लिये सिरजा है। यह संस्था अतिशय वैज्ञानिक और व्यापक बनती जा रही है। पर एक बड़े पैमाने पर वह एक स्थापित स्वार्थ भी बन सकती है। सिनेमा की सम्भावनाएँ इन राष्ट्रीय स्वार्थों अथवा स्वार्थ-संघर्षों से छिर जाएँ, यह इष्ट न होगा। विज्ञान और वैज्ञानिक साधनों के साथ आज कुछ यही बीत रहा है। ज्ञान और विज्ञान, मानव-जाति की सम्पत्ति नहीं, विद्यिक राष्ट्र-संरक्षणों के स्वत्व अधिक हैं। ऐसे वह आपसी स्पष्टी में जितना भाश करते हैं, उनमी समृद्धि नहीं साधते। जरूरी है कि सिनेमा उस महदूभाव से जुड़ा रहे जो मानव-जाति की एकता में निष्ठा रखता है और इस तरह प्रेम और सहानुभूति की टेक को किसी कीमत कोड़ाइने को तैयार नहीं है।

आवश्यकता है कि वे लोग जो शक्ति के बजाय लीलि और राष्ट्र की जगह मानव की भाषा में सोचते हैं, फिल्म के जन-साध्यम के उपभोग की लरक च्यान दें और उसको सार्वजनिक हित और जागरण में नियोजित रखें।

होली

होली राग-रंग का त्योहार है। भारत के पर्व प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के दोनों ही पहलू हैं : अन्तः और बाह्य। बायाप्रकृति जैसे प्रतुष्ट्रों का हेर-फेर हर न्यून-परिवर्तन के साथ आप एक त्योहार लगा पाइयेगा। मनुष्य की अन्तःप्रकृति का भी फिर उनके साथ मेल साधा गया है।

घटनाएँ तो काल के प्रवाह में होती ही हैं। उस समय के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ती हैं। पर वे होती और बीत जाती हैं। इससे घटना को हमारे यहाँ बहुत महत्व नहीं है; उनको खबी में पिरोकर बाकायदा इतिहास की माला तैयार करने का रियाज यहाँ नहीं रहा है। घटना की लौकिकता पर कल्पना का अलौकिक रंग इस तरह चढ़ने दिया गया है कि वह राजनीति का इतिहास न रहकर संस्कृति की गाथा बन गई है। ऐसे कुछ खोया जाता है, यह तो जान नहीं पड़ता। बलिक जो रहने और इससे लायक है, आनन्द और उल्लास के रस में भिल-कर, वह जातीय जीवन के प्राणों में समा जाता है। अबग ले जिलद में बाँधकर किताबी ज्ञान यन्म के उसे नहीं रखना पड़ता।

एक बात और भी है। किताबी ज्ञान जीवन को बाँट देता है। एक तरफ अच्छा, दूसरी तरफ बुरा, उजला और काला, 'सु'और 'कु' ऐसे वर्ग पैदा हो आते हैं। एक तरफ तिलकधारी पंडित हैं तो दूसरी तरफ

उचित अधम । यों श्रेष्ठियाँ समाज में तनाव डालती हैं और दबाव, जिस में से जातीय जीवन के स्वास्थ्य के लिए नाना विकार और विष पैदा होते हैं । आवश्यक है कि वह खुटन निकले और जीवन का प्रवाह अपने सम पर चलता चला जाय ।

भारत के त्योहार कुछ ऐसा अवसर देते हैं । आपसी दबाव उस समय खुल रहते और आगोद-ग्रमोद में जैसे खुलकर साफ़ हो जाते हैं । जैसे आदमी नहाता है; उन पर्वों पर हमारा सामूहिक जीवन उसी तरह नहा उठता है । रोध हट जाते हैं, रोम खुल जाते हैं और प्रकुल्ता आगे गति सहज लेती है ।

जीवन यों नकार-निषेध के बिना तो चलता नहीं । नाना मर्यादाएँ हैं । उन्हीं के भीतर से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है । लेकिन उनका उपयोग सापेक्ष है, ज्यादे गहरा उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता । जब और अपराधी, शासक और शासित, दमनकारी और विद्वाही—सनातन भाव से हृत दो भागों में बँट कर तो जीवन दूभर हो रहेगा । बुद्धि की और प्राण की लड़ाई ही चलती रहे तो जीना हराम हो जाय । आखिर नरक उस निविड़ हृन्द के सिवा और क्या है? निश्चय उस हृन्द से एकदम छुटकारा किसी को प्राप्त नहीं है । सुक्ष-पुरुष कल्पना-पुरुष ही है, न कोई बुद्धि से छुट्टी पाकर और प्राण से तत्सम होकर नितान्त प्राणी ही बन सकता है । फिर भी बीच-बीच में इस युद्ध को सन्धि और विराम अवश्य मिलते रहने चाहिए । सच यह है कि इन दोनों के बीच सन्तुलन की अवस्था ही का नाम ज़िन्दगी है । किन्तु यह सन्तुलन स्थिर कभी नहीं होता, उसकी उत्तरोत्तर ऊँचे उठते जाना होता है । यह काम आदर्श के आध्रह और यथार्थ के निषेध से नहीं हो सकता । इसके लिए तो समूचे जीवन की सहर्ष स्वीकृति चाहिए ।

जीवन में वह विरोध कहीं है ही नहीं । जिस के दो तट नहीं, वह नदी क्या? इसविषय इस किनारे और उरा किनारे का अन्तर ही हमारा

सर्वस्व है, असलियत उसी में है। एक तट दूसरे से निरपेक्ष रहे तो वह वृथा है। तब वह ही ही नहीं। दोनों एक-दूसरे को अर्थ देते हैं, परस्पर में ही वे सार्थक हैं, अन्यथा निरर्थक हैं। यथार्थ की सतत को उठना न हो तो वह एक जकड़ बन जाता है। वर्तमान, जिसके आगे भविष्य नहीं है, निरा बन्धन है। और भविष्य का कुछ मतलब ही नहीं आगर आधार में वर्तमान न हो। भविष्य है वह आदर्श जिसकी सत्यता आज के यथार्थ से असंगत होकर मिथ्या हो जाती है।

यही तो ज़िन्दगी का भजा है, हम खासा एक नाटक अपने जीच खेलते रहते हैं। जीवन एक क्रीड़ा ही तो है। हम सब आदमी हैं; लेकिन मन-बुझबल के लिए एक राजा है दूसरा रंक है, एक मालिक दूसरा चाकर, एक साड़ु दूसरा दुष्ट, एक न्यायी दूसरा अपराधी। मन-बुझबल शब्द यहाँ शायद अच्छा न लगे। लेकिन सच यह कि कौन जानता है कि जिसे न्यायी कहते हैं वह अपराधी ही नहीं है। इसलिए सच में ये भेद फौंक नहीं करते। भगवान् के सब एक-से बाक़त है और एक-से अपराधी हैं। भेद हमने बनाए हैं, क्योंकि खेल भेद के बिना खेला भी नहीं जा सकता। वैसे राग-रंग उसमें नहीं पड़ता।

पर खेल कष्टकर भी होता है। राजा भूल जाता है कि यह खेल है और वह ऐंठकर चलता है, तब रंक को भी खेल की बात भूलकर अपने मन में गुरुसा लाना होता है।

लोग कहते हैं यह गुरुसा बड़ी चीज़ है। इसमें से प्रगति होती है और कान्ति होती है। सच है कि जब तक वह है गुरुसा अवश्य बड़ी ही चीज़ है, न रहे तब वह छोटी चीज़ दीख आए; वह बात दूसरी है। तो ऐसे मान है और अपमान है, दर्प-भाव है और हीन-भाव है। वे अवास्तविक हैं, यह बात सुनने में और कहने में आसान लगेगी। धायक की गति धायक ही जानता है। इससे वह बात कहने-सुनने की नहीं है। धनपति और दलपति को कैसे बताया जाय कि उनका मान और आतंक उनका अपना नहीं है, वह तो दूसरों के मानने का है।

इससे उस हृज्जत की कुंजी दूसरों के पास रहती है। तभी तो तङ्गत उल्ट गए हैं और अदृष्ट धनशाली को दर-दर का हो रहना पड़ा है। इससे दर्पणी अपने में तो दयनीय ही है। उधर कैसे बताया जाय रंक को, शासित को, अपराधी को, दुष्ट को, हीन और दीन को कि वे वह नहीं हैं जो वह समझते हैं कि हैं। इससे वास्तव को, जब तक वह है, वास्तव ही मान लेना भला है; गरचे सच यह है कि असल वास्तव तो खेल है। गुस्सा खेल वाला हो तब अपनी जगह वह भी ग़लत नहीं, पर मैल वाला गुस्सा खेल के मज्जे को कम करता है।

होली में हम रंग बहाते हैं—वह रंग आगर आदमी का खून होने लगे तो आप सोचिए कि क्या उसमें होली का मज्जा लिया जा सकेगा! खून से जो खेली जायगी उसे सच्ची होली नहीं कहा जा सकता। वह झूठी होली है। अवश्य खेल का नियम भंग करने से वह ढुर्ह है। हर खेल का नियम होता है। जीवन के खेल का भी है। उस खेल में मृत्यु नहीं आ जायगी, सो नहीं। पर वह स्वेच्छित मृत्यु होगी। वह पूरक होगी, जीवन की विजय की वह साधिका होगी। ऐसी होकर मृत्यु अपने स्थान पर होगी। लेकिन अब लाखों-लाख को युद्ध के नाम पर जो मौत बलात् दी जा रही है वह किसी तरह हमारे असली खेल का अंश नहीं हो सकती। अवश्य उसमें कहीं गहरी भूल और गड़बड़ कारण ढुर्ह है। अवश्य वह मानवता पर खेली जाने वाली एक गहरी धोखेबाजी है। हम उसे अपना काम समझ बैठे हैं और दुनिया उसी की भाषा में सोचने को लाचार बनी है, यह धोखे की सबसे बड़ी सफलता है और हमारी सबसे बड़ी विडम्बना।

शायद आदमी अपने दिमाग के ज़ोर से आद्रमियत से दूर जा भटका है। यक भेद तो प्रकृति ने उसे आदि से दी दिया। वह स्त्री और पुरुष का भेद। उस भेद का प्रयोजन था सुष्ठि। भेद होकर तो वह कष्टकर ही था और उस में भिन्न होकर स्त्री-पुरुष आपस में अब भी जूझ रहे हैं; लड़ रहे हैं और मिल रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं। इस

तरह वे सृजन कर रहे हैं और किस-पिर सर्जन के लिए अपने को हठात् वाध्य पा रहे हैं। इसकी तो हम सचसुच काम का युद्ध कह सकते हैं। काम निःखन्देह काम की चीज़ है। मत सोचिए कि इस युद्ध में कम लोग काम आ रहे हैं। घर-घर इसका भोचा है और मर्मांतक उसका रूप है। वह युद्ध तो तुछ सारावान वस्तु भी है। दूसरी तरह की जाहाज़ी दिमागी भूतों की मालूम होती है। असलियत से वह अहुत दूर चली जाती है। इसलिए कागजी इतिहास के पन्ने कितने भी चाहे उससे-रंग डाले जायें प्रकृत इतिहास के मानस-पट पर उतनी गहरी लकीरें नहीं लिखतीं। गुस्सा कितना भी भीषण हो, होकर जब बीत जाता है तो याद नहीं रहता, प्यार याद में सदा ही धड़कता है।

काम और कामना खराय चीज़ें नहीं हैं। चीज़ खराय ब्रह्मचर्य भी नहीं है। पर दोनों आपस में रुटते हैं तब खराबी पैदा होती है। मैं नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य काम को पोषण क्यों नहीं दे सकता। ईश्वर अनन्त-काम-रूप जगत् का संचालन करता है तो क्या इसी समर्थ्य से नहीं कि वह स्वर्यं निष्काम है? गांधी ने अपने जीवन-काल में जाने कितने न विवाह रचाये। राष्ट्रीय महस्त का उस काल में शायद ही कोई विवाह होगा जिसके योगायोग में गांधी का हाथ न हो। ब्रह्मचर्य, जो काम और कामना से डरता और द्वेष करता है, जो उनके प्रति सुस्करा नहीं सकता, मेरी समझ से अनीश्वरीय घस्तु है। कौन जाने उसके मूल में ईश्वर न होकर शैतान हो।

असल में तटों में जो टकराहट खला करती है वह समस्याएँ पैदा करती है। टकराहट न हो तो भीड़-भीड़ी लहरें उनके बीच लहराती रहें जो सुन्दर तो जान पड़ें फिर भी समस्या-सी न लगें। संस्कृति, साहित्य, धर्म और नीति सब मेरे विचार में यही काम करते हैं, प्राणों में तो लगार्ह और वेग बैठते हैं। मूल में प्राण का मतलब ही है चित्-शर्माच। पादृ की तरफ अन्दरोद पाकर वह लापर्ही और वेग लंगाए की ओर सुकृता है, प्रकृत उपर्योग उसका निर्माण है। संदार देवाल्लभ लाभर्य

में इन्हकार करना बड़ी भारी जड़ता और कायरता है। नाम आध्यात्मिक देवदेने से मूर्खता बुढ़िमत्ता नहीं बन जाती, न संहार का शोर या शोक मलाने से संहार सक सकता है। सामर्थ्य और वेग अपना गुण छोड़ नहीं सकते। निर्माण नहीं कर सकेंगे तो अवश्य उन्हें संघात करना होगा। स्वालीपन हो प्रकृति में कहीं नहीं है, न रह सकता है। महाब्रह्माण्ड, जो शून्य दीक्षिता है, सत्यता से भरा है। सत् और चित् और आनन्द कण्ठ-कण्ठ, घट-घट में व्याप्त है। ही नहीं सकता कि सामर्थ्य हो और असमर्थ रहे, वेग हो और गतिहीन रह जाय। फल तो उसका होगा, रचनात्मक नहीं तो धर्मसामक। वह साधुवाद जो भूतवाद से उत्तरता है चाहे तो अपनी रक्षा में जंगल में भाग जाय, लेकिन भागकर पायगा क्या? भूत का बास वहाँ भी है, वह हर कहीं है।

स्त्री से पुरुष को छुट्टी नहीं मिल सकती। जब तक पुरुष है वह अधूरा है। इससे विवाह को मैं अनिवार्य धर्म मानता हूँ। पुरुष रहे और स्त्री से निरपेक्ष रहे—यह असत्य है। निरर्थक नहीं, वह अनर्थक है। स्त्री हो और पुरुष को उपेक्षा देकर वह जीए—यह असम्भवता है, अकृतर्थता है। अधरूपन को पूजना चल नहीं सकता। ब्रह्मचर्य अवश्य ही परम सत्य है, पर उसका लतलब एकाकीपन नहीं है। जो नारी को नहीं अपनाता, उसे नारीत्व को अपनाना होगा। नर से वही स्त्री बच सकती है जो नरव अपने में लाती है। इस आशय में आदर्शी अर्ध-नारीश्वर है। शूर्वीर को, यदि शौर्य और वीर्य उसका अहिंसक (यानी किंचित् स्त्रीत्व से सम्मिश्र) नहीं है तो, अन्त में स्त्री को शरण में गिरना होगा। नर का आदर्श नर में नहीं है, न नारी का नारी में। नर को नरव के और नारी को नारीत्व के धेर में कैद रखने के रूप में जो ब्रह्मचर्य की रक्षा देखते हैं वे सत्य को नहीं देखना चाहते, अपने हठ में ही टाटि गाढ़ रखना चाहते हैं। जीता और जीतता सत्य है। हठ को लदा लूटना और हारना पड़ता है। कारण सत्य सम्पूर्णता है, हठ अधूरापन है।

होकी खुल लेलने का पर्व है। मर्यादाएँ उस अवसर पर पूजी नहीं जातीं, वह मन्द दीख आती हैं। आवेगों को अवसर मिलता है। मेरा मानना है, इससे प्रकृत मर्यादाओं पर ज्ञाति नहीं आती, विद्यक उनके पालन में आगे कुछ सहायता ही मिलती है। विधि-नियेधों की जकड़ के बीच ज़िन्दगी जो पीछी पढ़ रहती है, अबीर, गुलाल और टेसु की बखेश और बौद्धार में से अपने लिए कुछ लालिभा पा जाती है। स्त्री और पुरुष आपने-अपने ध्यान को भूलकर एक-दूसरे को स्वीकारने की ओर यहते हैं, पिचकारियों से पानी और कनखियों से प्यार फेंकते हैं। नीति और राजनीति उस रोज़ अपनी जगह जा देती हैं, अपनी प्रभुता में आसन जमाकर ज़िन्दगी पर छाहे नहीं रहतीं। ज़िन्दगी उस दिन कुछ काल यस प्रीत के हाथ हो रहती है और वह उसे मल-मसलकर निखार देती है। आदमी जो ढँका रहता है, उबादकर उसे अपने ही सत्य की यथार्थता को प्रत्यक्ष करने देती है। सुन्दर हम चाहते हैं, कदम्य से कतराते हैं—होकी में सब एकमएक हो जाता है। मानो गुसलाखाने की नल की टोटी से बाहर आकर खुले प्रकृति के सरोवर में डुणकी लगाकर हम स्नान करने का अवसर पाते हैं। यह हम अहंजीवियों के लिए उतनी बुरी बात नहीं, कुछ अच्छी ही बात है।

जीने का हक

“...हस तरह तुमने जीने का हक खो दिया है और देश और राजा के नाम पर तुम्हें सज्जा दी जाती है कि तुम खत्म कर दिये जाओ।” ये शब्द विलायत के एक जज ने होनहार उच्च के एक आदमी पर फैसला देते हुए कहे।

अपराध क्या था और अपराधी कौन था, इसे जाने कीजिए। अपराधी कूटनीतिक रहा होगा और आज की खबर है कि अपराधी को फैसी दे दी गई। पर मान कीजिए कि जुर्म नैतिक ही हो और सुजरिम अन्त में बच तक जाय। उस फर्क से हक की बात के बारे में फर्क नहीं पड़ता। और सबाल उस दुनियादी जीने के हक का है।

ऊपर से लगता है कि यह हक देश और राजा के हाथ में या उनके प्रतिनिधि-रूप अमुक जज के हाथ में है। पर देश कई हैं और उनमें से राजा समझिए। पुक शज में फिर अनेक जज हैं। जीने और न जीने देने का अधिकार इस तरह खासा विकेन्द्रित है और सुविधापूर्वक हजारों-लाखों में विखरा हुआ है।

स्पष्ट है कि एक देश और एक राजा की दूसरे देश और दूसरे राजा के साथ उन जाय तो दूनों में से हर एक देश को अधिकार आ जाता है कि वह दूसरे का पूरा सफाया कर दे। इसी अधिकार के आधार पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती और सन्धियाँ की जाती हैं।

शाश्वत भरना हृषि दुनिया में काफी लेजी से नहीं होता। पैदा होने से कहीं कम लोग मरते हैं। हृषि दिसाव में आवृत तत्त्वों की ओर से आकृतिक संयोगों के रूप में भी सहायता मिलती रहती है। फिर भी जमानामा बराबर नहीं होता। जीने का पलड़ा मरने से भारी ही रहा आता है। हृषिरे एक अतिरिक्त काम के आधिकार का बीज मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता रहता है। वह काम है, मारना। अपने-आप आगर काफी संख्या में लोग नहीं मरते हैं और जीये जाने का आग्रह रखते हैं तो जल्द हृषि अवस्था को सुधारना होगा और मारने की एक वैधानिक पद्धति को अपने बीच सुरक्षित और प्रतिष्ठित रखना होगा।

मारने के बहुत से प्रकार हैं। पर वैध कुछ ही हैं, शेष अवैध हैं। उपादेय वे प्रकार हैं जहाँ मारने में योग देने वाले व्यक्ति असुभव करते हैं—कि उन्होंने एक गुरु-गम्भीर कर्त्तव्य-पालन के निमित्त पेसा किया है। अतः वैसा करने के लिये उन्हें उचित गौरव और पुरस्कार भी दिया जाता है। सेनापति, क्रान्तिकारी, शूरवीर और बलिदानी वैसे ही उदाहरणीय लोग हैं। ये लोग आवेश की जगह उद्देश्य से, प्रसाद की जगह स्फूर्ति से, घृणा की जगह उत्साह से, स्वार्थ की जगह परमार्थ से और क्षिपने के बजाय उजागर मारते हैं। मारकर उनके चित्त में गलानि नहीं होती, मान भरता है। पर मानना होगा कि ऊपर के लोगों का मारना उत्कृष्ट कितना भी हो, पूरी तरह शान्त भाव से नहीं होता। उन विविधों में कुछ खतरा भी समाया रहता है। विवि मारने की सच्ची वैज्ञानिक वह है जहाँ भाव शान्त हो, खतरा शून्य हो और उन्हें केवल विधान का उपकरण हो।

जज के हाथ मारने का जो विशेष प्रकार आया है, मानना होगा कि वह ही सम्पूर्णतया शान्त और निष्काम प्रकार है। उसके काम में नायायता करने वाले वकील और जलताल की निस्पृहता और भी अदीचीर राजनी होयी।

जो आगे जी ही नहीं सकता हूतना जी छुका है, उसकी सहायता

के लिए तो काल है। ठीक समय पर उसके पास वह आ पहुँचता है और चूकता नहीं। लेकिन जो जी सकते हैं उन्हें अपनी सहायता से मरने का हक नहीं है। ओफ ! वह पाप है। फाँसी की सजा पाया हुआ कोई आत्मघात कर ले तो यह भारी अधर्म है। ऐसे फाँसी देने वालों पर धृण शेष रह जाता है। उन्हें उक्खण्टा का अवसर चाहिए। इसलिए जी-जान से और अथक सेवा से उन्हें उसे जिलाये रखना पड़ता है कि ठीक मुहूर्त पर उसे मारने का कर्तव्य वे उसके प्रति पूरा कर सकें।

धर्म का तरब गूढ़ बताया है। वडे मतिमान उसमें चक्रा जाते हैं। जो जानता है वही जानता है। यथार्थ में कोई अपने आपे से बाहर नहीं जानता। इससे उस जज के भीतर की कौन कहे जो सुँह से कहता और कलम से लिखता है कि एक की जान पर आ बनती है। न उसकी ही कथा कही जा सकती है, जो जज की बात को अपनी जान पर लेकर उसकी जजी को बहाल करता है।

धर्म का तरब गूढ़ है, क्योंकि उसी के सहरे हम आपस में मरते और मारते हुए जीये चल रहे हैं।

वह ठीक। लेकिन क्या वह सध्याच ज़रूरी है कि मारने का हम एक ज्ञान बनायें और विधान बनायें? ज़रूरी है कि हम कहें कि हमें वह हक है? क्या मारने का काम इतना सीधा और साफ नहीं है कि वहस की उसमें ज़रूरत न रह जाय। शेर शिकार मारता है—क्या इसमें उसे किसी का समर्थन चाहिए? क्या घटना अपने में इतनी सच वस्तु नहीं कि उसके समर्थन को शास्त्र बने? क्या ताकत खुद में ही हक नहीं? अगर ताकत है, तो यह भी है कि मारा जायगा। ताकत नहीं तो शपने से क्या करे? इसमें क्या जीज़ साफ नहीं है? और जो साफ है इन्साफ भी वही है।

जब ते जो किया देश और राजा के नाम पर। आगे बढ़कर कोई मानवता के नाम पर वह कर सकता है। साथ ही जीव हो सकते हैं जो

देवी-देवता के नाम पर नर की बक्षि घड़ाएँ। धनरहाल नाम बहुत हैं और आदमी बहुत हैं और यज्ञ के बिना चल नहीं सकता है। इससे किसी भी मन्त्र के साथ हो, आदमी का होमना जारी रहने चाला है।

सचमुच उस यज्ञ पर कोई आपत्ति नहीं ही सकेगी। वह प्रेम कैसा जहाँ आदमी की जान न खी जा सके? जान ऐसी पवित्र वस्तु बनेगी तो दुनिया का खेल चलेगा कैसे? यही तो संसार का रस है और इसी से दया-माया मीठी लगती है। पर तरह-तरह के तर्कों, नामों और मन्त्रों के योग से सहज को गरिष्ठ, स्पष्ट को गूढ़ और साफ को उलझा बनाने की कोशिश है, वह नाहक। कब था कि मारना न था। कब होगा कि मारना न रहे। मारना असर है।

वह बात इतनी खुली उजागर है कि अपर किसी तरह की बुनावट उसे ढक नहीं सकती। या तो मारना गलत है और कभी कहीं भी सही नहीं है, या सही है तो उसके लिए उतना ही ज़रूरी है कि उस पर डटा रहा जाय और कोई-न-कोई समर्थन बनाकर उसे दे दिया जाय।

पर सबाल जीने और उसके हक का है। जीना कहाँ से मिलता है? वह देश से, राजा से और कानून से मिलता देखा नहीं जाता। माता-पिता से मिलता है—यह माना जा सके तो माँ-बाप को उसे लेने का भी हक पहुँचेगा। वह हक उन्हें नहीं है। यानी वे नये जीवन के कर्ता नहीं, करण (माध्यम) ही हैं। व्यक्ति अपने से जीता समझा जाय तो अपने से जीवन समाप्त करने का भी नह आविष्ट ही तो! पर ऐसा भी नहीं है। इससे होने का हक छुद बर्दाः ते, अन्यः अः से या देश-राजा से प्राप्त नहीं होता। हर एक का होना और जीना जुदा है उस आदि कारण से जो अखण्ड, अनन्त और स्वयंभाव से है। उदय होना वहाँ से है, इससे चिलीन भी होना वहीं है। जीने की ढोर जिसके हाथ है, उसे खींचने की भी उसी के हाथ है। यहाँ जिसने भेजा है, उसे छोड़ किसके डाये उसे यहाँ से बढ़ना हो? जीने और मरने के हक के बारे में इससे धुनियां और बांधा कहा जाय?

लेकिन जुर्म ? पर वथा वह एक का है ? क्या जो मुजरिम है इसी-लिए नहीं है कि कोई जज भी है। वथा दुष्ट साधु से अलग होकर हो सकता है ? उनको धखग रख-मानकर हमारा खेल चलने से सुभीता होता है सही, पर दुष्ट को मारने से साधु जीता है यह समझना भूल है। अपराध का और न्याय का शास्त्र अपने लिए जो भी चाहे नियमो-पनियम रखे, पर वथा यह उसकी कृपा न होगी कि जीने के हक को वह वहाँ से न खींचे जहाँ वह है ?

कब होगा कि हम समझेंगे कि अभियुक्त जज से अलग नहीं है और अलग होकर वह जज का भी जज है; और अपराधी को मारना अपराध को जिलाना है।

ज्ञानरी भेदाभेद

पुश्पोलिष्टिक्षण का सदस्य ती मैं नहीं हूँ, सदस्य कहीं का भी नहीं हूँ, पर एक मित्र सदस्य है, उनकी वजह से कभी-कभी यहाँ आ जाता हूँ। पुस्पोसिष्टिक्षण को ज्ञात हुआ है कि मैं विलायत गया हूँ, औरेजी बोला लेता हूँ, अतः मेरी उपस्थिति उन्हें अप्रिय नहीं होती।

वही क्यों, कुछ लोगों से वहाँ बेतकलबुफी भी हो गई है। एक है लाला महेश्वरनाथ जी। बहुत जिन्दादिल आदमी हैं। वकील हैं, और अच्छे बड़े वकील हैं। जायदाद भी हैं। अध्ययनशील हैं और नये विचारों के प्रशंसक हैं। सार्वजनिक सेवा के कामों में अच्छा योग देते रहते हैं। दिल सोलकर सँभलते और बात करते हैं। मैं उन से प्रभावित हूँ।

आज बीच में मसला सोशलिज्म का था और बैठक सरगम थी।

महेश्वर जी की सोशलिज्म का कायल होने से कोई व्यावर नहीं दीखता। उन्हें अचरज है कि कोई आदमी इमानदार होकर सोशलिज्म को माने बिना कैसे रह सकता है। 'यह सच्ची बात है, कोई जवाद-दस्ती सच्चाहूँ से आँख मीचना चाहे तो बात हूँसरी, पर सोशलिज्म उजाले के समान साफ़ है। हम और आप उसके समर्थक हो सकते हैं, चाहें तो विरोधी हो सकते हैं। पर हमारे समर्थन और विशेष की गिनती क्या है? सोशलिज्म युग-सत्य है, वह युग-धर्म है।

मैं इस तरह की यातों के बीच में कुछ विमृड यन जाता हूँ, — सत्य क्या है, यह मैं नहीं जानता। और जब कोई निश्चिन्त होकर सामने कहता है कि सत्य असुक और असुक है, तब मैं सख्तम उसके चेहरे की ओर देखकर सोच उठता हूँ ‘क्या पता है कि वही सत्य हो। तुम स्वयं तो कुछ जानते हो नहीं, तब यही कैसे कह सकते हो कि वह सत्य नहीं है।’

महेश्वर जी कहते रहे कि “जी हाँ, सोशलिज्म युग-धर्म है। मनुष्य व्यक्ति बनकर समाज नहीं है। वह समाज का अंग है। समाज व्यक्ति से यड़ी सत्ता है। व्यक्तिगत परिभाषा खड़ी करके आदमी अपने को बैंध लेता है, कहता है, ‘यह मेरी चीज़, मेरी जायदाद।’ इस तरह जितने व्यक्ति हैं उनमें असंख्य स्वार्थ खड़े होते हैं। उन स्वार्थों में संघर्ष होता है और फलतः क्लेश उत्पन्न होता है। मनुष्य के कर्म में से और कर्म-फल में से उसका, यानी एक व्यक्ति का, स्वत्व-भाव उठ जाना चाहिए। एक संस्था हो जो समाज की प्रतिनिधि हो, जिसमें समरूप केन्द्रित हो, —एक सोशलिस्ट स्टेट। वह संस्था स्वत्वाधिकारी हो, —व्यक्ति समाज-संस्था के हाथ में ही, वह साधन हो, सेवक हो। और स्टेट ‘यानी वह संस्था’ ही मूल व्यवसायों की मालिक हो, उपादानों की भी मालिक हो, भूमि की भी मालिक हो, और फिर पैदावार की भी मालिक वही हो। व्यक्ति को आपाधापी न करने दी जाय।—देखिए न आज एक दास है दूसरा प्रभु है। एक क्षणों,—जब दस दास हैं तब एक प्रभु है। लड़ाहर्याँ होती हैं,— कभी देश-प्रेम और दायित्व-रक्षा के नाम पर होती हैं, पर असल में वे लड़ाहर्याँ प्रभुओं के स्वार्गों में होती हैं और उन्हीं के पोषण के लिए होती हैं। उन शुद्धों में इङ्ग्रामों-लालों आदमों मरते हैं। पर उन लालों को औंट डगडो मांटा गनाती है जो युद्ध के असली कारण होते हैं। वह दातान व्यक्ति-रक्षात्मक से पैदा हुई है। मनुष्य पश्च है,— वह मुँह सामाजिक पश्च है, नैतिक पश्च है, या और कुछ चाहे कहिए,

पर वह है औंसतर् पशु। समाज का शासन उस पर अनिवार्य है। स्वत्व सब समाज में रहे, व्यक्ति निस्स्वत्व हो। व्यक्ति का धर्म आत्मदान है, उसका स्वत्व कुछ नहीं है। कर्तव्य सेवा है।—आज इसी जीवन-नीति के आधार पर समाज की रक्खना खड़ी करनी होगी। सोश-चिज्म यही कहता है और उसके औचित्य का खण्डन नहीं किया जा सकता।”

महेश्वर जी से असहमत होने के लिए मेरे पास आवकाश नहीं है, पर उनकी-सी दृढ़ता भी मुझ में नहीं है और न उतनी साफ-साफ बातें मुझे दीख पाती हैं। यह मैं जानता हूँ कि मानव पशु है, फिर भी मन हस पर सन्तुष्ट नहीं होता कि वह पशु ही है। पशु हो, पर मानव भी वया वह नहीं है? और महेश्वर जी की और सस्पृह-सम्ब्रह के साथ देखता रह जाता हूँ।

“आप कुछ कहिए, लेकिन मैं तो सोलह आने हस चीज़ में बैध गया हूँ। आप जानते हैं, मेरे पास जायदात्र है। लेकिन मैं जानता हूँ वह मेरी नहीं है। मैं प्रतीक्षा में हूँ कि क्य स्थिति बदले और एक समर्थ सदाशय सोशलिस्ट संटट हस सबको अपने जुग्मे ले ले। मैं खुशी से हसके लिए तैयार होऊँगा। सोशलाइजेशन हुए बिना उपाय नहीं। यों उलझने बढ़ती ही जायेगी। आप देखिए, मेरे दस मकान हैं। मैं उन सब दस मकानों में कैसे रह सकता हूँ? यह बिल्कुल नामुमकिन है। फिर यह चीज़ कि वे दस मकान मेरे हैं, कहीं-न-कहीं झूठ हो जाती है, गलत हो जाती है। जब वह नामुमकिन नहीं है कि मैं दस मकानों में रह सकूँ, तब यह भी नामुमकिन है कि वे दस मकान मेरे हों। किन्तु, यही सम्भावना आज का सबसे ठोस सत्य अभी हुई है। मैं कहता हूँ यह रोग है, मैं कहता हूँ यह झूठ है। लेकिन सोशलाइज्म आने में दिन लग सकते हैं, तब तक मुझे यह बदशित ही करते रहना होगा कि दसों मकान मेरे हों और मैं उन्हें अपना मानूँ,—यद्यपि मैं अपने मन में जानता हूँ कि वे मकान मुझ से ज्यादा उनके हैं जो अपने को

किरायेदार समझते हैं और जिन्हें उनकी ज़खरत है।”

इस स्थल पर एकाएक रुककर मेरी ओर सुख्तातिक्र होकर उन्होंने कहा—“क्यों कैलाश बाबू?”

शायद मैंने ऊपर नहीं कहा कि जिस मकान में मैं रहता हूँ वह महेश्वरनाथ जी का है। मैं उनके प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दे सका।

उन्होंने फिर पूछा—“क्यों कैलाश बाबू, आप क्या कहते हैं? सोशलिज़म में ही क्या समाज के रोग का झब्बाज नहीं है? हमारी राजनीति के लिए क्या वही सिद्धान्त दिशा-दर्शक नहीं होना चाहिए? हम कैसी समाज-रचना चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों के कैसे नियामक चाहते हैं?—आप तो लिखा भी करते हैं, चत्ताहए क्या कहते हैं?”

“मैं लिखता तो हूँ, पर छोटी-छोटी बातें लिखता हूँ। अबी बातें बड़ी मालूम होती हैं। लेखक होकर जानते-जानते मैंने यह जाना है कि मैं बड़ा नहीं हूँ, विद्वान् नहीं हूँ। बड़ी बातों में मेरा वश नहीं दै। कहते हैं, लेखक विचारक होता है। मालूम तो सुने भी ऐसा होता है। पर मेरी विचारकता छोटी-छोटी बातों से सुनके छुट्टी नहीं लेने देती। मैंने कहा—“मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ?”

महेश्वर जी ने सहास प्रसन्नता से कहा—“वाह, आप नहीं कह सकते तो कौन कह सकता है?”

मैंने कहा—“सुने मालूम नहीं। मैंने अभी सोशलिज़म पर पूरा साहित्य नहीं पढ़ा है। पाँच-सात किताबें पढ़ी हैं। और सोशलिज़म पर साहित्य है इतना कि उसे पढ़ने के लिए एक ज़िन्दगी काफ़ी नहीं है। तब मैं इस ज़िन्दगी में उसके बारे में क्या कह सकता हूँ?”

महेश्वर जी ने कहा—“भाई, बड़े चतुर हो। बचना कोई तुमसे सीखे।”

पर सुने जब इस तरह अपनी ही हाँ पर चतुराई का श्रेय दिया जाता है, तब मैं लज्जा से ढूँक जाता हूँ। बागता है कि मेरी धज्जानता

कहीं उनके व्यंग का विषय तो नहीं हो रही है।

मैंने कहा—“नहीं, बचने की तो बात नहीं—”

महेश्वर जी बोले—“तो क्या बात है ? कहिए न ।”

शपनी कठिनाई जतलाते हुए मैंने कहा कि जब मैं समाज की समस्या पर विचारना चाहता हूँ, तभी शपने को ठेलकर यह विचार सामने आ खड़ा होता है कि समाज की समस्या के विचार से मेरा क्या सम्बन्ध है। लब मुझे मालूम होता है कि सम्बन्ध तो है और वह सम्बन्ध बड़ा बनिष्ठ है। वास्तव में मेरी अपनी ही समस्या समाज की भी समस्या है। वे दोनों मिज्ज नहीं हैं। व्यक्ति का व्यापक रूप समाज है। पर चूँकि मैं व्यक्ति हूँ, इसलिए समस्या का निदान और समाधान मुझे मूल-व्यक्ति की परिभाषा में सोजना और पाना अधिक उपयुक्त और सम्भव मालूम होता है। इस भाँसि बात मेरे लिए हवाई और शास्त्रीय कम हो जाती है और वह कुछ अधिक निकट मानवीय और जीवित बन जाती है। मेरे लिए एक सवाल यह भी है कि मुझे रोटी मिले। मिलने पर फिर सवाल होता है कि समझें, कैसे मिली ? इसी सवाल के साथ लगा चला आता है दैसे का सवाल। वह पैसा काफी या और ज्यादा क्यों नहीं आया ? क्यों ? या कैसे आये ? क्यों आये ? वह कहाँ से चलकर मुझ तक आता है ? क्यों वह पैसा एक जगह जाकर इकट्ठा होता है और दूसरी जगह पहुँचता ही नहीं ? यह पैसा है क्या ? —ये और इस तरह के और-और सवाल खड़े होते हैं। इन सब सवालों के अस्तित्व की सार्थकता तभी है जब कि मूल प्रश्न से उनका नाता जुड़ा रहे। यह मैं आपको बताऊँ कि शंका की ग्रव्यति सुझ में खूब है। शंकाओं के प्रत्युत्तर में ही मेरा लेखन-कार्य सम्भव होता है। तब यह तो आप न समझिए कि मैं अहुत तृप्त और सन्तुष्ट जीवन जीता हूँ। लेकिन सौशलिङ्गम के मामले में दखल देने के लिए ऐसा मालूम होता है कि मुझे विचारक से अधिक विद्वान् होना चाहिए। विद्वान् मैं नहीं हो पाता, किंतु मैं पढ़ता हूँ, फिर भी वे मुझे विद्वान्

नहीं बनातीं। मेरे साथ तो रोग यह लग गया है कि अतीत को मैं आज के सम्बन्ध की अपेक्षा में देखना चाहता हूँ, भविष्य का सम्बन्ध भी आज से बिडा लेना चाहता हूँ और विद्या को जीवन पर कसते रहना चाहता हूँ। इसमें, बहुत से अतीत और बहुत से स्वप्न और बहुत सी विद्या से मुझे हाथ धोना पड़ता है। यह दयनीय हो सकता है और मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे मुझ पर छोड़ दें। सोशलिज़म का मैं कृतज्ञ हूँ, उससे मुझे व्यायाम मिलता है। वह अच्छे वार्तालाप की चीज़ है। लेकिन आज और इस जगह मुझे क्या और कैसा होना चाहिए, इसकी कोई सूझ इस 'इज़म' में से मुझे प्राप्त नहीं होती। मुझे मालूम होता है कि मैं जो-कुछ हूँ, सोशलिस्टिक स्टेट की प्रतीक्षा करता हुआ वही बना रह सकता हूँ और अपना सोशलिज़म अखण्ड भी रख सकता हूँ। तब मैं उसके बारे में क्या कह सकूँ? क्योंकि मेरा जेत्र तो परिमित है न? सोशलिज़म एक विचार का प्रतीक है। विचार शक्ति है। वह शक्ति किन्तु 'हज़म' की नहीं है, उसको मानने वाले लोगों की सचाई की वह शक्ति है। लोगों को जय जयकार के लिए एक पुकार चाहिए किन्तु पुकार का वह शब्द मुख्य उत्साह है। उसी के कारण शब्द में सत्यता आती है। सोशलिज़म का विधान वैसा ही है, जैसा झटके का कपड़ा। झटके को सत्य बनाने वाला कपड़ा नहीं है, शहीदों का खून है। सोशलिज़म की सफलता यदि हुई है, तो रही है, या होगी, वह नहीं निर्भर है इस बात पर कि सोशलिज़म अन्ततः क्या है और क्या नहीं है, प्रत्युत् वह सफलता अवलम्बित है इस पर कि सोशलिस्ट अपने जीवन में अपने मन्तव्यों के साथ कितना अभिज्ञ और तल्लीन है और कितना वह निस्वार्थ है। और अपने निज की और आज की दृष्टि से, अर्थात् शुद्ध व्यवहार की दृष्टि से, वह सोशल-इज़म मुझे अपने लिए इतना बादमध्य, इतना हटा हुआ और अशास्त्रीय-सा तत्व ज्ञात होता है कि मुझे उसमें तल्लीनता नहीं मिलती। और मैं क्या कहूँ? वर्म से नहीं शर्जि मैं नहीं ज्ञानता। पर जीवन से कटकर जब वह एक मतवाद और पन्थ का रूप धरता है, तब वही निर्वार्यता का बहाना

और पाखण्ड का गढ़ बन जाता है। सोशलिज्म को आरम्भ से ही एक वाद बनाया जा रहा है,—यह सोशलिज्म के लिए ही भयंकर है।

महेश्वर जी ने कहा—“आप तो मिस्टिक हुए जा रहे हैं कैलाश बाबू, पर इससे दुनिया का काम नहीं चलता। आप शायद वह चाहते हैं जो साथ-साथ दूसरी दुनिया को भी सँभाले।”

“हाँ, मैं वह चाहता हूँ जिससे सभी कुछ सँभले, जिससे सम्प्रता में जीवन का हल्ला हो। मुझे जीवन-नीति चाहिए, समाज अथवा राज-नीति नहीं। वह जीवन-नीति ही फिर समाज की अपेक्षा राज-नीति बन जायगी। जीवन एक है, उसमें खाने नहीं हैं। जैसे कि व्यक्ति का वह सँभलना गलत है जो कि समाज को बिगाड़ता है, उसी तरह दुनिया का वह सँभलना गलत है जिसमें दूसरी दुनिया अगर वह हो, तो उस के बिगाड़ने का डर है। आदमी करोड़पति हो, वह उसकी सिद्धि नहीं है। वह सम्पूर्णतः परार्थ-तत्पर हो, यही उसकी सफलता है। हसी तरह दुनिया की सिद्धि दुनियाबीपन की अतिशयता में नहीं है, वह किसी और बड़ी सत्ता से सम्बन्धित है।”

“आपका मतलब धर्म से है?”

“हाँ, वह भी मेरा मतलब है।”

“लेकिन आप सोशलिज्म के खिलाफ तो नहीं हैं?”

“नहीं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन—”

“वहस इतना ही चाहिए। ‘लेकिन’ फिर देखेंगे—”

“यह कहकर महेश्वर जी ने तनिक मुस्फराकर चारों ओर देखा और फिर सामने रखे एक काग से भरे गिलास को उठाकर वह दूसरी ओर चले गए। मैं बैठा देखता रह गया और फिर—

अमेद

रात—

सब सो गए हैं और आसमान में तरे घिरे हैं। मैं उनकी ओर देखता हुआ जागता हूँ। नींद आती ही नहीं। मेरा मन तारों को

देखकर विस्मय, स्नेह और अज्ञान से भरा आता है। वे तारे हैं, क्षेत्री-क्षेत्री चमकती तुनिदयों-से, कैसे प्यारे-प्यारे तारे। पर उनमें से हर एक अपने में विश्व है। वे कितने हैं?—कुछ पार नहीं, कुछ भी अन्त नहीं। कितनी दूर है?—कोई पता नहीं। हिंसाब की पहुँच से बाहर, वे नहीं-नहीं भिप-भिप चमक रहे हैं। उनके तरों कल्पना स्तरध्वं हो जाती है। स्वर्ण के चूर्ण से छाया, शान्त, सुन्न, सहास्य कैसा यह ब्रह्माण्ड है।—एकान्त, अछोर, फिर भी कैसा लिकट, कैसा स्वगत!—मुझे नींद नहीं आती और मैं उसे नहीं छुलाना चाहता। चाहता हूँ, यह सब तारे मुझे मिल जायें। मुझसे बाहर कुछ भी न रहे। सब-कुछ मुझमें हो रहे, और मैं उनमें।

मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ, बहुत छोटा।—बिलकुल बिन्दु, एक जर्रा, एक शून्य। और इस समय जितना मैं अपने को शून्य अनुभव करता हूँ, उतना ही मेरा मन भरता आता है। जाने कैसे, मैं अपने को उतना हा बड़ा होता हुआ पाता हूँ। जैसे जो के भीतर आहाद भरा जाता हो, उमड़ा आता हो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो हूँ, समस्त की गोद में हूँ, सब में हूँ। मुझे मालूम होता है कि मेरी सीमाएँ भिट गई हैं, मैं खोया जा रहा हूँ, मिला जा रहा हूँ। मालूम होता है, एक गम्भीर आनन्द—

तारे उस नीले शून्य में गहरे-से-गहरे पैठे हैं। जहाँ तक नीलिमा है, वहाँ तक वे हैं। वह स्वर्ण-कणों से भरा नीला-नीला क्या है? आकाश क्या है? समय क्या है? मैं क्या हूँ?—पर जो हो, मैं आनन्द में हूँ। इस समय तो मेरी अज्ञानता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं कुछ नहीं जानता, यही मेरी स्वतन्त्रता है। ज्ञान का बन्धन मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तारों का अर्थ मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे उनका तारापन ही सब है, वही बस है। मैं उन्हें तारे ही समझूँगा, तारे बनकर मैं उनमें अज्ञानपन, अपनापन भिगोये रखता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई ज्ञान। उस समस्त के आगे तो बस मैं हृतना ही

चाहता हूँ कि मैं सारे राज्य खोलकर प्रस्तुत हो रहूँ। आरों और अपने को छोड़ दूँ और भीतर से अपने को रिक्त कर दूँ कि यह निस्सीमता, यह समस्तता बिना वाधा के सुझे छुए और भीतर भर जाय।

लोग सो रहे हैं। रात बीत रही है। सुधेर नींद नहीं है और लोग भी होंगे, जिन्हें नींद न होगी। वे राजा भी हो सकते हैं, रंक भी हो सकते हैं। आरे राजा क्या, रंक क्या? नींद के सामने कोई क्या है? किसकी नींद को कौन रोक सकता है? आदमी अपनी नींद को आप ही रोक सकता है। दुनिया में भेद-विभेद हैं, नियम-कानून हैं। पर भेद-विभेद कितने ही हों, नियम-कानून कैसे ही हों,—रात रात है। जो नहीं सोते वे नहीं सोते, पर रात सबको सुलाती है। सब भेद-भेद भी सो जाते हैं, नियम-कानून भी सो जाते हैं। रात में रंक की नींद राजा नहीं छोड़ेगा और राजा की नींद भी रंक की नींद से प्यारी नहीं ही सकेगी। नींद सबको बराबर समझेगी, वह सबको बराबर में दुखा देगी। नींद में फिर स्वप्न आयेंगे और वे, मनुष्य की वाधा मिटाकर, उसे जहाँ वह चाहें, ले जाएँगे। रात को जब आदमी सोएगा, तब प्रकृति उसे धप-केगी। आदमी दिन-भर अपने बीच में खड़े किये विभेदों के झगड़ों से झगड़कर जब होंगा और हारकर सोएगा, तब उसकी बन्द पलकों पर प्रकृति स्वप्न लहरायेगी। उन स्वप्नों में रंक सोने के महलों में बास करे तो कोई राजा उसे रोकने नहीं जाएगा। वह वहाँ सब सुख-सम्झोग पायेगा। राजा अगर उन स्वप्नों में संकट के मुँह में पड़ेगा और बलेश भोगेगा तो कोई चाढ़कार इससे बचा नहीं सकेगा। राजा, अपनी आत्मा को लेकर मात्र स्वयं होकर ही अपनी नींद पायेगा। तब वह है और उसके भीतर का अव्यक्त है। तब वह राजा कहाँ है?—मात्र बेचारा है। इसी प्रकार नींद में वह रंक भी मात्र अपनी आत्मा के सम्मुख हो रहेगा। तब वह है और उससे सन्निहित अव्यक्त है। तब वह बेचारा कहाँ रंक है! वह तब प्रकृति रूप में जो है, वही है।

उस रात्रि की निस्तद्धता के, आकाश में महाशूल्य में और प्रकृति

की चौकसी में अपनी मानवीय अस्तिता को खोकर, सौंपकर मानव शिशु बनकर सो जाता है। परं फिर दिन आता है। तब आदमी कहता है कि वह जाग्रत है। वह कहता है कि तब वह सावधान है। और जाग्रत और सावधान बनकर वह मानव कहता है कि मानवता में शेषियाँ हैं—अभेद तो मिथ्या स्वप्न था, सार अथवा सत्य तो भेद है। तब वह कहता है कि मैं चेतन उतना नहीं हूँ, जितना राजा हूँ अथवा रंक हूँ। स्वप्न से हमारा काम नहीं चलेगा, काम ज्ञान से चलेगा। ज्ञान का सच्चा नाम विज्ञान है। और वह विज्ञान यह है कि मैं या तो गरीब हूँ या अमीर हूँ। दिन में क्या अब उसने आँखें नहीं खोल ली हैं? दिन में क्या वह चीज़ों को अधिक नहीं पहचानता है? दिन-रात की तरह अंधेरा नहीं है, वह उजला है। तारे अंधेरे का सत्य हों, परं जाग्रत अवस्था में क्या वे सूठ नहीं हैं?—देखो न, कैसे दिन के उजाले में भाग छिपे हैं। जाग्रत दिन के सत्य को कौन ल्याग सकता है? वही अचल सत्य है, वही ढोल सत्य है। और वह सत्य यह है कि तारे नहीं हैं, हम हैं। हमी हैं। हमी हैं और हम जाग्रत हैं। और सामने हमारी समस्याएँ हैं। अतः मनुष्य कर्म करेगा, वह युद्ध करेगा, वह तर्क करेगा, वह जानेगा। नींद गलत है और स्वप्न अम है। यह दुःखप्रद है कि मानव सोना है और सोना असानवता है। अंधेरी रात क्या गलत ही नहीं है कि जिसका सहारा लेकर आसमान तारों से चमक जाता है, और दुनिया धुँधली हो जाती है? हमें चारों ओर धूप चाहिए धूप, जिससे हमारे आसपास का छुट्ट-बड़पन चमक उठे और दूर की सब आसमानी व्यर्थता लुप्त हो जाय?

मैं जानता हूँ, यह ठीक है। ठीक ही कैसे नहीं है? केविन कथा यह भूत भी नहीं है? और भूल पर स्थापित होने से क्या सर्वथा भूत ही नहीं है? क्या यह गलत है कि नींद से हम ताजा होते हैं और दिन-भर की हमारी थकान खो जाती है? क्या यह गलत है कि हम प्रभात में जब जीतने और जीने के लिए उद्यत होते हैं, तब सन्ध्यानन्तर

नींद चाहते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि स्वप्नों में हम अपनी थकान खोते हैं, और फिर उन्हीं स्वप्नों की राह आपने में ताजगी भी भरते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि दिन में हम व्यक्त के साथ इतने जड़ित और अव्यक्त के प्रति इतने जड़ होते हैं कि रात में अव्यक्त व्यक्त को शून्य बनाकर स्वर्ण ग्रस्फुटित होता है और इस भाँति हमारे जीवन के भीतर की समता को स्थिर रखता है ? क्या यह भी नहीं हो सकता कि हम स्वप्नों में विभेद को तिरस्कृत करके अभेद का पाल करते और उसी के परिणाम में उठकर विभेद से दुःख करने में अधिक समर्थ होते हैं ? क्या यह नहीं हो सकता कि रात पर दिन निर्भर है, और रात न हो तो दिन दूभर हो जाय ? क्या यह नहीं है कि विभेद तथा तक असत्य असम्भव हैं, जब तक अभेद उसमें व्याप्त न हो ? क्या—

पर रात बीत रही है, और मेरी आँखों में नींद नहीं है। औह, यह समस्त क्या है ? मैं क्या हूँ ? मैं कुछ नहीं जानता,—मैं कुछ नहीं जानूँगा, मैं सब हूँ। सब मैं हूँ।

तभी कहीं घण्टा बजा—एक। जैसे धैरें में गूँज गया, ए-ए-एक। मैं उस गूँज को सुनता हुआ रह गया। गूँज धीमे-धीमे विलीन हो गई, और सन्नाटा फिर धैरें ही सुन्न हो गया। मैंने कहा—‘एक।’ ‘दोहराया—’ एक, एक, एक ! मैंने दोहराना जारी रखा। नींद कुछ मेरी और उत्तरने लागी। अब सोऊँगा। मैं सोऊँगा। बाहर आनेकता के थीच एक बनकर स्थिर शान्ति से क्यों ल मैं सो जाऊँगा ? मैं चाहने लगा, मैं सोऊँ। पर तो इंसते थे और हँसते थे, और मेरी आँखों में नींद धीमे-ही-धीमे उत्तरकर जा रही थी।

जरूरी

दिन के साढ़े दस बजे होंगे। मैं मैज पर बैठा था तभी सुन्दरीजी आये। लाला महेश्वरनाथ जी की जो शहर के इमर-उधर और कई तरफ फैली हुई जायदाद है, उस सबकी देखभाल इन सुन्दरीजी पर

है। मुन्शीजी बड़े कर्म-व्यवस्था और संचित शब्दों के आदमी हैं। विनय-शील बहुत है, बहुत लिहाज रखते हैं। पर कर्तव्य के समय तत्पर हैं।

मुन्शीजी ने कहा—“मुझे माफ कीजिएगा। ओह, मैं ने हर्ज किया है। पर हाँ,—वह,—यह तीसरा भहीना है। आप चैक कब भिजवा दीजिएगा? राय साहब कहते थे—”

“बात यह है कि पिछले दो माह का किराया मैंने नहीं दिया। दिया कथा, नहीं दे नहीं पाया।” मैंने मुन्शीजी की ओर देखा। मुझे यह अनुग्रह कष्ट कर हुआ कि मुन्शीजी अब भी अपनी विनम्रता और विनय-शीलता को अपने काबू में किये हुए हैं। वह धमकाकर भी तो कह सकते हैं कि लाइए साहब, किराया दीजिए। यह क्या अधिक अनुकूल न हो?

यह सोचता हुआ मैं किर अपने सामने मेज पर लिखे जाते हुए कागजों को देखने लगा।

मुन्शीजी ने कहा—“मेरे किए क्या हुक्म है?”

पर मेरी समझ में न आया कि उनके लिए क्या हुक्म हो। अगर (मैंने सोचा)—इनकी जगह खुद (राय साहब) महेश्वर जी होते, तो उनसे कहता कि किराए की बात तो फिर पीछे देखिएगा, इस समय तो आइए, सुनिए कि मैंने इस लेख में क्या लिखा है। महेश्वर जी को साहित्य में रस है और वह विचारवान् है,—विचारवान् से आशय यह नहीं कि किराया लेना उन्हें छोड़ देना चाहिए। अभिप्राय यह कि वह अवश्य ऐसे व्यक्ति हैं कि किराए की-सी छोटी बातों को पीछे रखकर वह सैद्धान्तिक गहरी बातों पर पहले विचार करें। लेकिन इस मुन्शीजी को मैं क्या कहूँ? क्या मैंने देखा नहीं कि किराए की बात पर सदा यह मुन्शीजी ही सामने हुए हैं, और राय साहब से जब-जब लाजान् होता है, तब इस पकार की तुच्छता उनके आस-पास भी नहीं देखने में आती और वह गम्भीर मानसिक और आधारितिक चर्चा ही करते हैं।

हुक्म की प्रार्थना और प्रतीक्षा करते हुए मुन्शीजी को सामने रहने देकर मैं कुछ और ज़रूरी बातें सोचने लगा। मैंने सोचा कि—

मैं जानता हूँ कि सुझे काम करना चाहिए और मैं काम करता हूँ। सात घण्टे हर एक को काम करना चाहिए। मैं साइ-साल घण्टे करता हूँ। जो काम करता हूँ वह उपयोगी है। —वह बहुत उपयोगी है। वह काम समाज का एक ज़रूरी और बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। क्या मैं स्वार्थ-कुदिश से काम करता हूँ? नहीं, स्वार्थ-भावना से नहीं करता। क्या मेरे काम की बाजार-दर इतनी नहीं है कि मैं ज़रूरी हवा, ज़रूरी प्रकाश और ज़रूरी खुराक पाकर ज़रूरी कुनबा और ज़रूरी सामाजिकता और ज़रूरी दिमागियत निवाह सकूँ? शायद नहीं। पर ऐसा क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं है, तो इसमें मेरा क्या अपराध है?

अपने काम को मैंने व्यापार का रूप नहीं दिया है। आज का व्यापार शोषण है। मैं शोषक नहीं होना चाहता।

इसी दुनिया में, पर दूसरी जगह, मेरे-जैसे काम की बहुत कीमत और कदर भी है। मेरे पास अगर मकान नहीं है और मकान में रहने का एवज देने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, तो इसका दोष किस भाँति सुन्भ में है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

मैं जानना चाहता हूँ कि समाज जब कि मेरी तारीफ भी करता है तो जीवन और जीवन के ज़रूरी उपादानों से मैं वंचित किस प्रकार रखा जा रहा हूँ?

मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मकान का किराया होना ज़रूरी है, तो यह भी ज़रूरी क्यों नहीं है कि वह रूपया मेरे पास प्रस्तुत रहे? वह रूपया कहाँ से चलकर मेरे पास आए, और वह क्यों नहीं आता है? और यदि वह नहीं आता है, तो क्यों यह मेरे लिए चिन्ता का विषय बना दिया जाना चाहिए? और किस नैतिक आधार पर यह सुन्दरीजी सरकार से फरियाद कर सकते हैं कि मैं अभियोगी ठहराया जाऊँ और सरकारी जज बिना मनोवेदन के कैसे सुझे अभियुक्त ठहराकर मेरे खिलाफ डिग्री दे सकता है? और समाज भी क्यों सुझे दोषी समझने को उद्यत है?

क्या इन रूपयों के बिना महेश्वर जी का कोई काम अटका है ?
इन किराए के रूपयों पर उनका हक्क बनने और कायम रहने में कैसे आया ?

रूपया उपयोगिता में जाना चाहिए कि विलासिता में ?

वह समाज और सरकार क्या है जो रूपये के बहाव को विलास से मोड़कर उपयोग की ओर नहीं डालती ?

क्या कभी मैंने महेश्वर जी से कहा कि वह सुझे मात्र रहने दें ?
क्यों वह सुझसे किराया लेते हैं ?—न लें।

नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा ? क्या यह कहना ज़रूरी नहीं है ?—
लेकिन, क्या यह कहना ठीक है ?

मैं आगर इस धीज से इनकार कर दूँ और कल भुगतने को प्रस्तुत हो जाऊँ, तो इसमें क्या अनीति है ? क्या यह अयुक्त हो ?—

इतने में मुन्नीजी ने कहा कि उनको और भी काम है। मैं जल्दी फरमा दूँ कि चैक ठीक किस रोज भेज दिया जायगा। ठीक तारीख मैं फरमा दूँ जिससे कि—

(मैंने सोचा) —यह मुन्नीजी इतने जोर के साथ अपनी विनय आखिर किस भाँति और किस वास्ते थामे हुए हैं ? प्रतीत होता है कि अब उनकी विनय की वाणी में कुछ-कुछ उनके सरकारानुभोदित अधिकार—गर्व की सब्दंग मिटास भी आ मिली है। मैंने कहा न कि मुन्नीजी बहुत भले आदमी हैं। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि पैसे के बकाल और सरकार के सबेतन कर्मचारियों के बल से वह मेरा लोटा-थाली कुर्क करा सकते हैं, यह जानते हुए भी—(या, ही) वह विनय-बजिजत है। मैं जानता हूँ कि कर्तव्य के समय वह कटिबद्ध भी दीखेंगे फिर भी मेरा उनमें इतना विश्वास है कि मैं कह सकता हूँ कि उस समय भी अपनी लज्जा को और अपने तकल्खफ को वह छोड़ेंगे नहीं। इसी का नाम वजेदारी है।

मैंने कहा—“मुन्नी साहब, आपको लकड़ीफ हुई। लेकिन आभी

तो मेरे पास कुछ चीज़ है ।

“तो कब तक भिजवा दीजिएगा ?”

मैंने कहा—“अप ही बताइए कि ठीक-ठीक मैं क्या कह सकता हूँ ।”

बोले—“तो ?”

तो का मेरे पास क्या जवाब था । मैंने चाहा कि हँसूँ ।

उन्होंने कहा—“रायसाहब ने फरमाया था कि मैं इत्तला दूँ कि बहुत दिन हो गए हैं । न हो तो—और मकान देख लें ।”

मैंने हँसकर कहा—“और मकान ? क्षेकिन किराया तो वहाँ भी देना होगा न ? मुश्किल तो वही है ।”

मुन्शीजी खानुभूति के साथ मेरी ओर देखते रह गए ।

मैंने उन्हें देखकर कहा—“खैर, जल्दी ही मैं किराया भिजवा दूँगा ।”

“जी हाँ, जल्दी भिजवा दीजिएगा । और आहन्दा से तीस तारीख तक भिजवा दें तो अच्छा । रायसाहब ने कहा था—”

मैंने कहा—“अच्छा—”

मुन्शीजी फिर आदाव बजाकर चले गए । उनके चले जाने पर मैंने पुनः अपने लेख की ओर ध्यान किया, जो ताजिमी तौर पर जबरदस्त लेख होने वाला था ।

भारत में साम्यवाद का भविष्य

भारत में साम्यवाद का क्या भविष्य है—इस सम्बन्ध के अनुमान में वर्तमान की समीक्षा ही हो सकती है। भविष्य जाना नहीं जाता, उसे बनाना होता है। वह धीरे-धीरे वर्तमान पर खुलता है। यह आदमी का सद्भाग्य ही है कि वह भविष्य से अनजान है और वर्तमान में रहता है। यही अज्ञान की चुनौती तरह-तरह की सम्भावनाओं को आदमी के भीतर से खिलाती आई है।

आज एक शक्ति साम्यवाद है। मानों दुनिया दो शक्तियों के खिंचाव के बीच टिकी हुई है। एक और साम्यवाद है दूसरी और वह सब है जो साम्यवाद नहीं है। पूँजीवाद उसे कहना पूरा सही नहीं होता, न उसे लोकतन्त्रवाद ही वर्थार्थ में कहा जा सकता है। जो साम्यवाद नहीं है वह प्रटी-साम्यवाद है। इस ‘प्रटी’ नामक नकार के नीचे उसे एकता मिली हुई है, अन्यथा वह उस तरह एक तन्त्र और नीति के अधीन गढ़ा हुआ वाद नहीं है। साम्यवाद एक नया मजहब है। उसके बाहर लाभजहाजियत ही रह जाती है।

पन्थवाद और सत्तवाद शक्ति बन कर आते हैं। वे एतत्काल की किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उनमें सुधार और उद्धार का आग्रह रहता है। फिर तत्त्व विचार का रूप लेते हैं और होते-होते शक्ति-सम्पादन कर वे एक राजतन्त्र के रूप में जम जाते हैं। उनका

चर्चा थनता है और अधिकारियों की एक पंक्ति खड़ी होती है। तब साथ ही उसमें दो पहलू हो आते हैं—एक तात्त्विक, दूसरा तान्त्रिक। आरम्भ में तात्त्विक प्रधान होता है, पीछे वह तान्त्रिक के अधीन होता जाता है। यहाँ तक कि वैचारिक मतवाद् अन्त की ओर एक ठेठ राजनीतिक दलवाद् रह जाता है।

साम्यवाद के सम्बन्ध में विचार करते समय भारी भूल होगी अगर हैगिल और मार्क्स के भौतिक द्वन्द्ववाद की भाषा में ही हम उसे समझ डालेंगे। वह अब इतनी (या सिर्फ) तात्त्विक चीज़ नहीं। मार्क्स से अधिक वह वस्तु आज स्टालिन से जुड़ी है। व्याघ्रारिक-राजनीतिक से पृथक करके तात्त्विक रूप में उसे देखना अस में रहना है। पहले एक संस्था थर्ड इन्टरनेशनल थी। साम्यवाद को आरम्भ और रूप मिला वहाँ से। वह घौंछिकों की सभा थी जिनका काम विचारना और विवेचना था। राज्याधिकारी लोग उसमें नहीं थे। पिछे रूस में क्रान्ति हुई और बोल्शेविक सत्तारूढ़ हुए। क्या साम्यवाद का प्रयोग राष्ट्र की सीमा में हो सकता है? जगत के शमीजन एक हैं, क्लिक पटुले अपना एक असुक राष्ट्र एक है तो दूसरे राष्ट्र के शमीजन दूसरे हो जाते हैं। इस तरह साम्यवाद के शुल्क विचार में तब संकट उपस्थित हुआ। सत्ता हाथ लेने के थोड़े दिन बाद लेनिन मन्दप्राय होते-होते अस्त हो गए। द्वाटस्की ने कहा कि क्रान्ति की जागतिक और सर्वदेशीय होना होगा और बोल्शेविक की लीति यही हो सकती है। स्टालिन के हाथ सत्ता से घिरे थे। उस रूसी क्रान्ति को और उसके परिणाम में हाथ आई सत्ता को टिकाये रखना और जमा रखना स्टालिन का पहला और जरूरी काम भालूस हुआ। तात्त्विक, जागतिक क्रान्ति के प्रतीक द्वाटस्की जीवित राजनीति से फिक कर अलग जा पड़े और स्टालिन के हाथ रहकर साम्यवाद कुछ राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी-सा बना। अब आकर थर्ड इन्टरनेशनल की समाधि पर 'कमिनफार्म' की रचना हुई। यह विचारकों और विवेचकों की जमात

नहीं है—सत्ताधिपों और व्यवस्थापकों का सम्मलन है। भविष्य के निर्माण के विचार से वर्तमान राजकरण को प्रेरणा देने से अधिक वर्तमान की राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार विचार को टालने का प्रयत्न करने वाली वह संस्था है। नीति साधन है, राज साध्य है। पहले नीति साध्य थी, राज साधन। उस प्रकार की तत्त्व-चिन्ता और आदर्शोंपासना से चलने वाली साम्यवादी राजनीति जैसे अव्यवहारिक होकर पिछड़ गई है। अब कर्मप्रवृत्त और निश्चित तात्कालिक लक्ष्य रखकर चलने वाली कूटनीतिक साम्यवादी राजनीति ने उसका स्थान ले लिया है।

साम्यवाद पहले समाजवाद था। उस मत और सिद्धान्त ने जगत्-दर्शन को एक बहुत बड़ा दान दिया है अर्थात् यह कि अपनी परिविमें व्यक्ति समाप्त नहीं है। उस रूप में वह विचारणीय तक नहीं है। उसकी पूर्णता अपने में नहीं, सभ्य में और सबके साथ है। व्यक्तित्व की असामाजिक धारणा अनिष्ट है। व्यक्ति का विकास सामाजिकता में है। उसकी परिपूर्णता समाज से विलग नहीं देखी जा सकती। इसलिए पदार्थ पर अधिकार और स्वत्व भी व्यक्तिमूलक नहीं हो सकता। स्वत्व यदि है तो सबका है, समाज का है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का विचार मूल भौं सही नहीं है। सम्पत्ति समाज की है, सामाजिक हित के लिए है। पूँजी के आधार पर स्वत्व का बँटवारा कृत्रिम है। उसमें सामाजिक अन्याय समाया है। पूँजी शासन करती है श्रम शोषित होता है। ऐसे विधमता पैदा होती है और सह-तरह की व्याधियाँ जन्म लेती हैं। समाज में श्रेणियाँ उपजती हैं, उनमें तनाघ होता है और समाज-शरीर के फटने की हालत बनी रहती है।

यह विचार जाने-अनजाने जगत् के समूचे दर्शन में समा गया है, लेकिन तर्क ने आगे चलकर बताया कि समाज कोई अमूर्त वस्तु नहीं है। न सिर्फ कुछ लोगों के जैसा आपस में समुदाय बनाकर सहभीगी और सहयोगी आश्रम-संस्था के रूप में रहने से समाजवाद की सिद्धि होगी।

समाज मूर्च्छ होता है राज्य में, स्टेट में। स्वत्व दूस तरह सब स्टेट में पहुँचेगा। स्टेट कानून से और कानून को पालन करने वाली सब शक्ति के योग से समाज में समता की स्थापना करेगी और उसे कायम रखेगी। पदों में भेद न होगा, न आदमियों में, न वर्गों में। सब अपने बहु-भर काम करेंगे और आवश्यकता-भर पायेंगे।

इस तरह समाज किसी अप्रत्यक्ष लोकमत का नाम न रहने दिया गया है, न किसी लोक-स्वीकृत समाज-नीति को उदय में लाने या उस पर निर्भर करने पर सन्तोष माना गया है; बल्कि लोकमत को व्यक्त और प्रवल्ल करके, उसके द्वारा राज की अधीन करके व्यक्तिगत को मिटाकर सब स्वत्व राजगत करके चलाना जरूरी समझा गया है। इसमें से एक नये शास्त्र और नई कला का उदय हुआ—पार्टी-आयोजना का शास्त्र और उसकी कला।

व्यक्ति नहीं है संघ ही है। 'संघे शक्तिः कल्पयुगे।' संस्कृत के इस वाक्य से जान पड़ता है कि विचार यह उत्तमा नया न था, पर प्रणाली बनकर उपयुक्त और प्रवृत्त होना शायद उसे इस कर्मयुग में था, जिसे कलियुग कहा गया है।

मैं उसको अपनी भाषा में स्टेटवाद कहकर अधिक सहजमय भाव से समझ पाता हूँ। साम्यवाद, यानी सब समान हैं, या सब समान हों। ये दोनों बातें भावात्मक समझकी जा सकती हैं। हम सबको समान मान लें या समान भाव से व्यवहार करें—हृतना काफी नहीं है, क्योंकि यह हमारी आखिर हृच्छा, संस्कार और विवेक पर अवलम्बित हो रहता है। वैज्ञानिक साम्यवाद हृतने पर नहीं रह सकता। सब समान हों, इस भावना पर वह नहीं ठहर सकता। सबको समान बनाएँ रखा जाय यह काम वह अपने ऊपर लेला है। यह सिवाय स्टेट के कौन करेगा? इसलिए स्टेट को अपने शासन और दण्ड से साम्य बनाये रखना होगा। इस सबको 'स्टेटवाद' कहने से बात शायद सुगमता से हृदयंगम हो जायगी।

यह कि स्टेट (हुक्मस) के ज़ीर से काम आसानी से होता है, सुख-खुनिवा भी आसानी से उसके द्वारा भगाह हो सकेगी, अभाव निट जागता, आपाधारी खत्म की जा सकेगी—यह आज प्रत्यक्ष तत्त्व की भाँति लोगों को प्रतीत होता है और वे उसे अधिकांश अपनाने में देर जानाने की आवश्यकता नहीं देखते। परिचम के बे देश जहाँ राजनीति का वह खेल उत्तमा नया नहीं है शायद इसे देखने में शीघ्र उत्तम समर्थ न हो। पर पूरब के लोग कुछ पराधीनता के इतने नरक में रहे हैं कि उन्हें उस दर्शन में स्वर्ग की जलदी झलक दीख जाती है। चीन में राज बदला है और साम्यवादी अधिशासन आ गया है, पूरब के और देशों के लोगों में भी उसने सम्भावनाएँ जगा दी है। भारत में साम्यवादी-दल नगरण नहीं है। कांग्रेस के प्रतिरोध में निनें के लाभक संगठित कुछ है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। अभाव, कष्ट और अपनान स्वर्ग की जाँग की और उसके सपनों को सहज ही जगा देंगे। भारत में रहन-सहन का कष्ट आज कम नहीं है। लोग वंचित और हत्तुद्दि अपने को अनुभव करते हैं। सरकारी स्कीमें और अख्याती चर्चाएँ उसे जहाँ-कातहाँ-झोइती-सी लगती हैं, और इस हालत में यह सपना कि कभी गरीबों की यानी हमारी हुक्मत होगी और सिर पर हमारे कोई न होगा; बल्कि हम सिर पर होंगे; उन्हें प्यारा लगता है। यह कि, वह सपनों है शायद वह वह खुद जानते हैं लेकिन प्यारा तो वह लगता ही है और उनके दिल में घर भी करता है।

दिनांक में इस और से देखें तो भारत में साम्यवाद जोर ही पकड़ेगा। प्रगत प्रदान राजनीति और राष्ट्र-सांस्कृति रही है और अवधार में मुख्य ऐना रहता है तो अवश्यमायी ने कि साम्यवाद उयेरे और फैले। स्टेट गुप्त परिवह बरहु है। उससे लड़ा, उत्तरान। आसान नहीं। आज तो हम प्रपञ्च अभाव रही हैं। किंतु दिनांक पर हुस्सा चिह्नापकर लेते हैं। मालूम होता है कि अपने हुक्म का कारण हमारे हाथ में आ गया। इस तरह तत्काल हुक्म उमाधान हो जाता है। अस, बाद, में वह कारण

दूर हुआ नहीं कि हम सबके लिए सुख खुल आयगा, पेसा भावने लगता है और उस मनमाने से थोड़ी देर रठकर जैसे अपनी शाप्रतिष्ठा और हीनता का हम बदला लेते हैं। पूँजीपति दीव में लदीं हांगा लो सब हमारे-ही-हमारे पाय लो होगा, पेसा लग आया है। टेट का स्वर्व और स्वामित्व जो आ होता हो, निश्चय ही वह हम या उस सेठ के मालिक होने जैसी तो बात नहीं होगी ? यों देखें तो साम्यवाद की सफलता पूँजीवाद शब्द में भर जाती है। हालत यदि पेसी होती जायगी कि पूँजी का महस्त बढ़े तो साम्यवाद का अल भी बढ़ेगा। साम्यवाद गिराता है कि पूँजीपति हट जायें। जिसके अपने पास पूँजी नहीं है वह लुश है। पैसे के अर्थ में पूँजी कितनों के पास है। वे गिनती में भी तो आने लायक नहीं। इसलिए वाकी सब पूँजी की धाह में पूँजीपति का अभाव चाहने लगे और दूसरा कुछ सौचर्णे को न छहरे लो अचरज बया है।

इसलिए आर्थिक दीनता यदि भारतवर्ष के सम्बन्ध में सत्य बस्तु है और सबसे सत्य वही है तो निश्चय ही कम्युनिज़म को आना है और उसी पर जा जाना है। किन्तु मुझे यहाँ साम्यवाद का भविष्य हतना उठाना नहीं दीखता; कारण भारत की भूमि और भारत का मन और है। यहाँ आदि से अब तक एक सबसे प्रतापी पुरुष वह हुआ है जो आर्थिक हाइ से अकिञ्चन था। भारत का हृदय नहीं रहा है वैभव में और सत्ता में। उसका चिन्तन आर्थिक नहीं, आर्थिक है। आधुनिक भारत का भी नेता और विद्याता वह गांधी रहा है जिसे उधाड़े बदन कूस की कुटिया में रहना नसीब हुआ। वह दरिद्र को भारायण मानकर उसकी सेवा में उससे भी शून्यतर स्थिति रखीकर करके रहा है। पैसे लोगों का तर्क साम्यवाद के हाथ नहीं आता। लेकिन भारत-भूमि पैसे ही लोगों की सबसे अधिक समझती और पूजती आई है। भारतीय आध्या वही रहक है, जैसे अकिञ्चन महारामा पुराण उसके अन्नरंग-न-बंड के प्रतीक बन सके हैं। वह एक आर स्वर आर्थिक नहीं, पैसिक है, आध्या-गिरन् है। वह

सिवका बटोरने और सत्ता हथियाने से उल्टा चढ़ता है। सोना उसके लिए मिट्टी है और वह मिट्टी उसके लिए असली सोना है जो हमारे अम के थीं से हमें अच्छा देती है।

ऐसी नैतिक सम्पदा से सम्पन्न भारत-भूमि में, किन्तु आर्थिक चिन्ता से भरपूर राज्य के नीचे साम्यवाद का भविष्य क्या होगा, कहना सचमुच मुश्किल है। भारत गाँवों में बसता है, जहाँ के लोग भरती से लगकर अम करते हुए जीते आये हैं। एक बह दृष्टि है जो इन देहास्तियों को भारत का वास्तविक भूमि-पुनर मानती है, और उनको भारत का असल भव गिनती है। लेकिन दूसरी दृष्टि भी है जो शहरों में पल और पल पर रही है। यह ज्यादातर अंग्रेजी पड़े-लिखे की है, जिनके कपड़ों के काट के लंज नये हैं और दिमाग के भी। वे राजनीति बनाते हैं, राष्ट्र-नीति और अर्थनीति बनाते हैं। उनके करने से बातें होती हैं और खलने से चीजें चलती हैं। उस सबका परिणाम है कि वह देखते हैं कि गाँवों के लोग गँवार हैं, अशिक्षित हैं, भूखे हैं, दरिद्र हैं। यह शाही वर्ग प्रत्यक्ष देखता है कि उसके अपने पास शिक्षा है, ज्ञान है, सेनूत्व है और धन के कारण अन्य वस्तु की भी बहुतायत उसी के पास है। इस तरह उनकी प्रत्यक्ष दृष्टि यत्काती है कि भारत की सम्पन्नता शहरों के कुछ भाग तक सिमटी है, देहात तो निपट कंगाल पड़ा है।

इन दो दृष्टियों के बीच साम्यवाद का भविष्य चलता है। एक आर्थिक दृष्टि है। वस्तु से सम्बद्ध वास्तविक दृष्टि है। वह हिंसात्मकी और मूलन की और राजनीति की दृष्टि है। दूसरी बतमी वैज्ञानिक नहीं है जितनी मानवी। वह नैतिक और आर्थिक है। वह ऊपरी नहीं है, और उसमें शब्द प्रधान नहीं, अनुभूति प्रधान है। राजनीतिक में साम्यवाद का स्तरन तो या लकड़ग है, यह दृष्टि साम्यवाद का यहो को एक ही करने यानी है। प्राज यह जार है और सुनहर है, और जान पक्का है कि याइल यह राष्ट्रीय दर्शन बहो है। ऐसा ही यो निस्तर्दृष्टि कला भी सकता है कि साम्यवाद का बोकारो होगा और वह जल्दी ही।

लेकिन अगर भारतीय आत्मा में वर्जन शेष है, तो येरी अद्धा है, सो साम्यवाद आजे आज के रूप में वहाँ जहौं लहीं जमा पायेगा। या नों कहै कि साम्यवाद को भारत में पक नगा रूप बदल करना होगा। वह बादात्मक न होकर शायद घर्मात्मक होगा। साम्य का धोष नहीं साम्य का लक्ष्य वहाँ हृष्ट होगा। पूँजी का प्रतिलिपि अनेकों से लेकर एक स्टेट को देने से अधिक वहाँ उसे लक्ष्य में विकरा दिया जायगा। यामी पूँजापन सिक्के में न रहकर अम में आ रहेगा। यिक्का तो स्टेट छापती और दाखती है। अम का स्वामी हर वह आदमी है जिसके पास दो हाथ हैं। पैरें कैपिटलिज़िम को भिटाने के लिए स्टेट कैपिटलिज़िम को जाने की ज़रूरत नहीं रहती। अम लीधा वहाँ पूँजी बनता है और सिक्के को चिनित्य के साधन होने से अधिक स्वयं में धन बन जाने की सुविधा नहीं रह जाती। यह भारतीय प्रकार का साम्यवाद होगा कि जिसमें अग्निकों वी और से किसी अलांग डिकटेटरशिप की आवश्यकता न होगी, अलिंग वही सभी अधिक होंगे। और हृस तरह सत्ता को कहीं एक जगह केन्द्रित होकर डिकटेटर बनने का आवसर न आयेगा।

भारत को आत्मा के लिए साम्यवाद को यदि अपने सच्चे स्वरूप का संस्कार देने का आवसर आया तो मेरी धारणा है कि विश्व-संकट के टलाने का भी उपाय दोबल सकेगा। टोटेसिटेशन के बजाय विकेन्द्रित सत्ता का रूप तब लोगों के सामने आयेगा, यानी एक वह हुक्मसंत जो हुक्मसंत नहीं करती, जिसका रूप और कार्य उत्तरांतर नैतिक है। जोग स्वेच्छा से और सहयोग से काम करते हैं और अलग से उनके ऊपर हाकिम और एडमिनिस्ट्रेटर बनकर किसी की बैठने की आवश्यकता नहीं होती। यानों वह गिरोह और वर्ग आनावश्यक नहीं जायगा जो कुछ भी काम का काम नहीं आनला दूसाला। इसी सिफे उसमें शासन करने की दृष्टि होती है।

अब साम्यवाद के अधिक्य की बात सोचता हूँ और यह भी भारत देश के मानसिक जलवायन में, तब मेरे मन से यह सम्भवता पूर नहीं

हो पाती कि वादप्रस्त सम्यके आवेश की जगह धर्मगत सम्यकी अद्वा का उद्घथ और उत्थान होगा। मैं इसे आज भी सम्भव मानता हूँ।

लेकिन कभी यह भी मन में होता है कि शायद वह सम्य पीछे आये। एक बार तो उससे पहले उसी सम्यका आग्रह खुल खेले जो अपने से बहे को ही अपने बराबर चाहता है। वह अभिलाषा नहीं जो अपने को अपने से छोटे के बराबर बनने की प्रेरणा देती रहे। असली सम्यकी प्रतिष्ठा दूसरी अभिलाषा में है—पहले आग्रह में से तो वैष्णवी ही फलित होता है।

स्वतन्त्रता के बाद

पौंच वर्षी लोंगे भारत स्वतन्त्र हो गया। १५ अगस्त, ४७ तक इस 'स्वतन्त्र' शब्द की बड़ी महिमा थी। पीछे वह महिमा कम होतो गई। अब ऐसा मालूम होता है कि उस शब्द की जाँच-प्रवृत्ताल में जाना ज़रूरी है। भारत स्वतन्त्र हुआ तो, मगर वह नहीं हुआ जो हम सोचते थे। स्वतन्त्रता उसकी साक्षित की जा सकती है, पर उससे सुख बढ़ गया है, खुशहाली बढ़ गई है, ऐसा देखने में नहीं आता। आशा क्या हम ऐसी न करते थे? वह आशा स्वतन्त्रता से पूरी नहीं हुई तो जैसे वह शब्द ही हमारे लिए महिमा खोता जा रहा है।

देश स्वतन्त्र हो रहा है। औपनिवेशिक साम्राज्य सिमटता और मिटता जा रहा है। स्वतन्त्र होने की बड़ी ही स पराधीन देशों में रहती है। उसके लिए देशवासी भारी बलिदान से नहीं बचते। आखिर वह स्वतन्त्र होते हैं। पर इस स्वतन्त्रता पर आकर क्या मंजिल आ गई उन्हें मालूम होती है? नहीं, वैसा नहीं दीखता। समस्याओं का रूप बदलता है, जटिलता या विकटता उनकी कम नहीं होती।

राजनीतिक अर्थ में स्वतन्त्रता क्या है? यही कि राष्ट्र अपने-आप में एक हकार्ह है, वह सम्पूर्ण है, वह अपनी हुक्मत अपने हँग की बना और चला सकता है। अपनी विदेश-नीति, अर्थ-नीति, व्यवसाय-नीति रख सकता है। 'सौधरिणी आँफ दि नेशनल स्टेट', यानी राष्ट्र-राज्य

आपने ही प्रति दायी हैं, बाहर के प्रति नहीं। राजनीतिक स्वतन्त्रता का आज यथार्थ यही है।

अब राष्ट्र अपने में क्या है? कुछ भौगोलिक और ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है। वह अनितम संसु नहीं है। सन् ४७ से पहले पाकिस्तान था ही नहीं; अब वह एक राष्ट्र है। भारत जो पहले था, अब यही नहीं है। एक खण्ड कठकर पाकिस्तान बन गया और बाकी बचा हिन्दुस्तान रह गया है। ऐसे राष्ट्र बनने-बिगड़ते और घटने-बढ़ते रहते हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता इन राष्ट्रों और हनके राज्यों को अनिमता देकर चलना चाहती है। इस तरह वह एक कृत्रिम-सी चीज बनी रहती है। चीज यों बड़ी अच्छी है और उससे एक कामचलाऊ सन्तुलन बना रहता है। पर कहीं से जोर उठा कि वह सम्तुलन को बिगड़ावा देता है, और फिर नकशा नया बनता है। इसलिए राजनीति और और ताक़त का नाम है, और राजनीतिक स्वतन्त्रता भी जोर और ताक़त के दूसे पर बनाई और थामी जाती है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता का इस तरह हम भारत-देशवासियों के लिए मतलब है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के समुद्री भाग पर हम सशस्त्र बेड़ा रखेंगे, और सुरक्षी हड़ पर हथियारबन्द फौजें रखेंगे कि जिससे भारत की स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रहे और उसे खटका और खतरा न रहे।

भीतर की ओर से इस राजनीतिक स्वतन्त्रता का यह मतलब है कि राज्य का शासक-वर्ग राष्ट्र के वासियों को ऐसे रखेगा कि राज्य को यानी राज्य चलाने वाले वर्ग को कम-से-कम खटका और खतरा हो।

इन दो मर्यादाओं के बीच हर राजनीतिक स्वतन्त्रता रहने को आध्य है। इसी कारण जब तक वह दूर रहती है लोभनीय जान एहती है। प्रत्यक्ष भोग में आ जाने पर वह किर उत्तीर्ण अनिकम और सूझगती नहीं रहती।

मुझे प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता का आदर्श पिछड़ा जा रहा

है। वह अब काफी नहीं लगता, हमारी माँग से काफी अधूरा और ओज़ा दीखने लगा है। साम्यवाद और समाजवाद जैसे शब्दों में ताकत होने की यही बजह है। जैसे स्वतन्त्रता काफी नहीं है, समता भी चाहिए। और समता सिर्फ़ कागजी और कानूनी नहीं, सामाजिक चाहिए। स्वतन्त्रता में विकास की आवश्यकता जान पढ़ती है और हम कोरो स्वतन्त्रता पर न रुककर सच्ची स्वतन्त्रता को जानना और पाना चाहते हैं।

स्वतन्त्रता को ज़रा हम स्वतन्त्र रूप से समझने की तो कोशिश करें। तब मालूम होगा कि वह ज़ंगल में तो हो सकती है, समाज में नहीं हो सकती। ज़ंगल में स्वतन्त्रता पर अंकुश नहीं। हर आज़ाद है कि हर किसी को मार खाए। शायद यह आज़ादी आदमी बनना द्वीपार करने के साथ ही आदमी ने खो दी। इस तरह की जानवर बाली आज़ादी जितने ही अंश में आदमी अपने पास से जान-बूझकर खोता जायगा उतने ही अंश में शायद असली, सच्ची और इनसानी आज़ादी उसके पास आती जायगी।

पर राजनीतिक स्वतन्त्रता इस बात को नहीं मानती। इसको शायद वह आदर्शवाद मानती है। जोर और ताकत नाम की चीज़ पर से घर में भरोसा हटाने को वह तैयार नहीं। शेर आज़ाद है कि खरगोश को अपना निवाला बना ले, खरगोश रहे अपने भिट में छिपकर। पर येर की आज़ादी बड़ी है और उसके तखे डरते हुए किसी समय भी खाए जाने की तैयार होकर उसे रहना होगा। भिट में खरगोश जीता रहे इसकी उसे स्वतन्त्रता है। इसी तरह येर का खाद्य बतने में मरने की भी उसे स्वतन्त्रता है। प्रचलित राजनीतिक स्वतन्त्रता इससे भिन्न नहीं है। बड़ी फौज छोटी फौज याली देश की उस थोड़ी और छोटी फौज को नेस्तनाधूद करके बड़ी आज़ादी दे सकती है। और यह ही रहा है। फौजें जो रखी जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, सच जानिष् थे आज़ादी को रखने और बढ़ाने के लिए हैं। एक छोटा देश कैसे अपनी स्वतन्त्रता रख पायगा?

इसलिए बड़ा उसे भय से, कूटिनीति से, या हल्के और युद्ध से अपने साथ ले लेगा। ऐसे आज्ञादी छोटी से बड़ी होती जा रही है। वह देशों में नहीं, देशों के गुटों में होती है। इस प्रकार हम अपनी स्वतन्त्रताओं में बहते और फैलते जा रहे हैं। यह राजनीतिक स्वतन्त्रता है, जो व्यक्ति-जैसी छोटी इकाई की नहीं, राज्य और महाराज्य-जैसी बड़ी इकाईयों की है।

जान पड़ता है मानव-जाति के विकास का इतिहास इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच में से चला है। क्या वह ट्रेट-ब्रिटेन की स्वतन्त्रता का गौरव-युग न था, जब भारत देश पर उसने राज्य का झटड़ा गाड़ा? भारत परतन्त्र चाहे उससे हुआ ही, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर क्या स्वतन्त्रता का ताज अधिक ही नहीं चमका? तो दूसरों को आधीन करके अपने को स्वाधीन करने दूसरे की परतन्त्रता के ऊपर बैठकर अपने को स्वतन्त्र और दूसरे को नीचा रखकर अपने को ऊँचा बताने की यह प्रवृत्ति आदिमकाल से थी; आगे भी रहेगी। राज-नीति मुख्यता से इसी प्रवृत्ति में बनती है। वह स्वतन्त्र स्टेट को चाहती है। यहाँ तक कि उसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र चाहती है। आदमी को स्वतन्त्र रूप में नहीं स्टेट के अंग-रूप में देखती है। स्टेट से जो स्वतन्त्र है वह रहे ही क्यों, वह अनावश्यक है, अनुचित है, अनिष्ट है। उसका होना स्वतन्त्रता के प्रति द्वोह है। इससे स्वतन्त्रता की रक्षा में ऐसे निषट स्वतन्त्र आदमी को सौ कीसड़ी परतन्त्र बनाकर यानी जेल में गुलाम बनाकर रखना भी स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा ही करना है। राजाओं और हाकिमों को स्वतन्त्रता को अच्छेण और व्याप्त बनाए रखने के लिए आगर सैकड़ों हजारों को ढास और डाली बनाकर रखना हुआ तो इसमें शाद्य दया था? यह समूह की, समाज की, राज्य स्वतन्त्रता थी, और इसके नामं देवत दक्षक करके गिने जाने वाले स्त्री और पुरुषों की परतन्त्रता थी। एक समूह-बाद, बलभाद, और स्टेटबाद चला रहा है। जो स्वतन्त्रता को किसी अद्वैताने पर डेलने का आवह रखता है। इसकि निवार पर वह सक

नहीं सकता। व्यक्ति तुच्छ है, छोटा है, उसकी हस्ती नहीं है। समूह में खो और मिट जाना उसकी सार्थकता है।

मेरा मानना है कि जाने-अनजाने कोरा राजनीतिक विचार हमें भी और लिए आ रहा है। राजनीतिक स्वतन्त्रता यदि सामाजिक और वैयक्तिक भी बनने की ओर नहीं बढ़ेगी तो उसमें से यही फल उत्पन्न होगा; यानी अधिनायक का बाद और उसी का तन्त्र। स्टेट की सुविधा यदि प्रथम है और अनितम है, स्टेट से ऊँचा यदि कोई देखता नहीं, मान और मूल्य यदि उसी की अपेक्षा में स्थिर होते हैं और वहीं से नियोजित होते हैं तो गति दूसरी नहीं है।

मानना होगा कि दुनिया के देशों का रंग-दंग कुछ ऐसा ही दीखता है। व्यक्ति दोषम है, राज्य प्रथम। व्यक्तियों से प्रजा बनती है और वह गौण है। दलों से राज्य बनते हैं वह प्रमुख है। यह राज-नीति है।

किन्तु राज के विशेषण के बिना भी एक नीति होती है। संगठित काम-काज उससे उतने न चलते हैं, आदमी उसी से चलते हैं। वह शक्ति को नगरण नहीं मानती। वह उसके मन को हिसाब में लेती है। वह मन को जीतना चाहती और उसमें से सहयोग और मेत निकालना चाहती है। यह सत्ता नहीं सज्जनता को महस्त देती है। वह गुटों में स्पर्श नहीं उसमें अच्छा देखने की कोशिश करती है। उसके पास व्यक्ति अनितम कसौटी है और उसके सुख-दुख से निरपेक्ष होकर चलना वह जानती नहीं।

दूसरी प्रवृत्ति है नैतिक प्रवृत्ति। यह भी जब से आदमी बना उसके साथ रही है। किसी तरह यह उसमें से नष्ट नहीं की जा सकती। आदमी कोशिश करके भी पूरी तरह जानवर नहीं बन सकता। दानव वह बन सकता है। क्योंकि वह जानवर से अधिक होता है। वह शक्ति हमारे पास है कि अपनी ही नैतिकता के अविश्वास में मालों अपने ही साथ वितरोध और हठ ठानवर तभ परिक्रिया में एक और अचूते चले जाएँ; अपना ध्यान रखें, अपने जैसे इन्सानों का ध्यान न रखें और

अपनी दिमागियत के दिमागी और हवाई सपनों के केर में फँसकर अपना ही हृन्कार और अतिक्रमण कर जाएँ। ऐसे हिसापर उतार हों, और उसमें पुण्य मानें। और अन्य अनेक की सम्भावनाओं को कुचलें और उसमें उच्छित मानें, लड़ें और उसमें न्याय मानें। व्यापक नर-संहार करें और उसमें भविष्य की सेवा मानें। यह बड़ी आसानी से हो सकता है। अपने आत्म को और सबके परमात्म को भूलंकर अपनी ही किसी धारणा को हम देवता बना बैठते हैं। तो उसकी पूजा-अर्चा में यह सब प्रतिक्रियात्मक व्यापार बड़े समारोह के साथ हम चलाये चले जा सकते हैं, यह नया देवता स्टेट जिसको हृधर देवाधिदेव बना किया गया है, कुछ हसी तरह हमें अपने को और दूसरों को भुखाने में सहायक थन रहा है।

पर राजनीति के सामने अब भी खुला अवसर है। जब तक भारत शेष है और उसकी परम्परा अवशिष्ट है तब तक अवसर भी शेष मानिए। भारत की भूमि ने दुलिया के लिए गांधी सिरजा था। अब भी उस भूमि में वह धर्म-प्रेरक आस्था के रूप में जीवित है, जो और जगह निष्पाण हो चुका है। यहाँ लोग अपनी रामधुन गाते हैं और अपनी मेहनत में से डगाते और बनाते चले जाते हैं। वे खुशहालों की खुशहाली देखते हैं, लेकिन हृष्टि में अपना काल अन्दर नहीं कर पाते। हसी प्रकट मूढ़ता में से यह भारतवर्ष लहस्तान्त्रियों से जीता-आगता चला आया है। उसके महापुरुष महाकाव्य नहीं महा-आत्मा हुए हैं। उन्होंने जमाया-जुटाया नहीं है, वे अपने को देते और लुटाते ही रही हैं। उन्होंने शक्ति नहीं चाही, ग्रीति ही साधी है। हसलिए यह देश जब तक मौजूद और इसकी पुरानी साँस आकी है तब तक राज-नीति के लिए भी पृक अवसर है।

विश्व की राजनीति के आगे प्रश्न है कि वह राज को प्रधान स्वेच्छा कि नीति को। राज-प्रमुख राज-नीति तो चल ही रही हैं। और उसका परिणाम भी उजागर है। क्या नीति-प्रधान भी कभी वह बनना आव-

शक्ति और सम्भव समझेगी ? राज-नीति ये सी जब बनेगी तब जान पड़ेगा कि केन्द्र गुट से और पद से हटकर व्यक्ति में और उसके अमेर में चला आया है । तब धनी वही होगा जो श्रमी है और सत्ता का स्वत्व उसके पास होगा जो निस्व है । गांधी से उस प्रकार की राज-नीति के चलने की सम्भावना हो आई थी । उस सम्भावना को एकदम आसम्भव मानते भी नहीं बनता है । स्पष्ट ही है कि मूलनीति में से चलकर अर्थ-नीति और राज-नीति स्वतन्त्रता को सीमित और केन्द्रित करने वाली नहीं बनेगी; बल्कि उसको विखराकर हर एक के अपने-अपने पास ले आने में सहायक होगी । तब स्वतन्त्र भाव से प्रत्येक धर्मिक होगा और प्रीति भाव से वह परस्पर सहयोगी होगा । एक की विफलता में से दूसरे की सफलता नहीं निकलेगी, बल्कि एक के उदय में से दूसरे को अम्बुद्ध प्राप्त होगा ।

मौका है कि राज-नीति वह मोड़ ले । पर क्यों ?

